

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



क्रम संख्या

१२८१

काल नं०

२१ / १२८१

स्थान

संत तुकाराम

# संत तुकाराम

हरि रामचंद्र दिवेकर

इलाहाबाद

हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०

१९३७

प्रकाशक  
हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०  
इलाहाबाद

---

मूल्य	{	कपड़े की जिल्द २)
		साधारण जिल्द १।।)

---

मुद्रक—रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी-मंदिर प्रेस, इलाहाबाद

## उपोद्घात



दुनिया दिन ब-दिन बदलती ही नहीं, छोटी भी होती जाती है। अज्ञात देश तो क्या अज्ञात विषय भी हर रोज़ कम हो रहे हैं। एक समय वह था कि 'न वदेद्यावनीं भाषां न गच्छेज्जैनमंदिरम्' प्रकार के आदेश दिए जाते थे। अब ऐसा समय आ गया है कि—

चाहे जहाँ जाओ, करो चाहे तुम्हारा दिल वही।

ज्ञान को, संपत्ति को, आरोग्य को लाओ सही ॥

इस अवस्था में हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, हर देश में विचरण करना और उस भाषा तथा देश की संपत्ति को अपने घर ले आना पुरुषार्थ समझा जाता है। अपनी-अपनी भाषा के साथ अंग्रेज़ी तथा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का, तथा अपनी प्रांतीय संस्कृति के साथ पौराण्य राष्ट्रीय तथा पारश्चात्य विजातीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक हो रहा है। ज्ञान-प्राप्ति के साधन जो ग्रंथ माने जाते हैं उनमें महापुरुषों के जीवन-वृत्तांत का स्थान ऊँचा है—वे महापुरुष संत हों या शूर, गरीब या अमीर। इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को महात्माओं के जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है। इस छोटी-सी पुस्तिका में एक ऐसे ही महाराष्ट्रीय संत का जीवन-चरित्र दिया हुआ है।

सुख के दिनों में हम दूसरों को तथा परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंतु जब दुःख आ पड़ता है, आपत्तियों के आघातों से हम ठुकराए जाते हैं, उसी समय हम सब को एक दूसरे की याद आती है, और उसी समय ईश्वर सूझने लगता है। परकीय साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुस्तान में जिस एकता की आशा की जा रही है, वह कदापि न की जाती, यदि भारत अपनी प्राचीन पद्धति से ही स्वतंत्र तथा स्वयंशासित रहता। एक ही भाड़ में भुने हुए भिन्न-भिन्न भाँति के दाने जब एक ही चक्की के पाटों में पीसे जाते हैं, तो वे अपना भेद-

भाव छोड़ कर ऐसे एक जीव होते हैं कि उन में अपना-अपना स्वाद रहते भी एक नया स्वाद आ जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय आए हैं, जब भारतीय परकीयों के बश हो कर गुलामी में गड़ गए थे। उन दिनों उन्हें केवल एक परमेश्वर का ही सहारा था। उसी के आधार से तत्कालीन महात्माओं ने फिर से देश में नया चैतन्य डाल कर पुनरुत्थान कर दिखाया। आज का समय भी वैसा ही है और इसी लिए ऐसे सब महात्माओं के चरित्र हमें अधिक स्फूर्ति दे सकते हैं तथा उचित मार्ग दिखला सकते हैं।

श्रीशंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, जयदेव, कबीर, नानक, नरसी मेहता इत्यादि महात्मा लोग इसी श्रेणी के हैं। भगवद्भक्त तुकाराम, जिन की जीवनी इम पुस्तक में लिखी है इसी कोटि के पुरुष थे। इन सब महात्माओं के जीवन भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक ही प्रकार के थे। प्रांतीय परिस्थिति के कारण इन के प्रयत्न यद्यपि अलग-अलग दिख पड़ते हैं तथापि इन सबों के जीवन में एक सूत्र साधारण-सा जान पड़ता है। वह है जनता की सेवा करते हुए उन्हें जगाना, और जगते हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि 'मैं तुम्हें जगा रहा हूँ'। दीपक का काम अपने को जला कर अपने स्नेह की आहुति परोपकारार्थ देने का है। वह बेचारा यह नहीं विचार करता कि 'मेरा प्रकाश कितना पड़ेगा, और किस-किस कोने का अँधेरा उस से दूर होगा'। न वह ऐसी डींग मारता है कि 'देखो, मैं अँधेरा दूर करनेवाला हूँ, मेरी ही शरण लो तो अँधेरे से बचोगे, अन्यथा नहीं'। खुद को जलाने ही उस ज्योति से जो चमक निकलती है, वही लोगों को उस का दिव्य जीवन दिखला देती है। ठीक इसी तरह महात्माओं के जीवन रहते हैं। उन के विशुद्ध आचरण को देख कर लोग स्वयं ही अपने को सुधारते हैं और अज्ञान-पथ को छोड़ सन्मार्ग से चलने लगते हैं। आज के दार्भिक दिनों में इस बात का ज्ञान परमावश्यक है कि हमें जो कुछ करना हो, वह हम शांति-पूर्वक दूसरों को न दुखाने हुए करें। यदि तुकाराम की जीवनी को पढ़ कर हम भारत-निवासी इस बात को भलीभाँति समझ लें, तो इस पुस्तक के लिखने का तथा प्रकाशित करने का हेतु कुछ तो सफल अवश्य ही हो जावेगा।

इस पुस्तक के लिखने का काम सन् १९३१ में ही हुआ था। परन्तु कई कारणों से इस का प्रकाशन आज तक न हो सका। आज १९३७ में, छः वर्ष की दीर्घ गर्भावस्था को त्याग यह पुस्तक हिंदुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित हो रही है। आशा है कि हिंदुस्तानी के अभिमानी तथा हित-चिंतक इस पुस्तक को पढ़ कर लेखक तथा प्रकाशकों को उत्साहित करेंगे और उन को इसी प्रकार की अधिक सेवा करने का अवसर देंगे। उपोद्घात-रूप में इस से अधिक लिखना आवश्यक नहीं।

विनीत लेखक—

हरि रामचंद्र दिवेकर

## विषय-सूची

प्रथम परिच्छेद— महाराष्ट्र भक्तिधर्म	६
द्वितीय परिच्छेद— तुकाराम का जन्म	१७
तृतीय परिच्छेद— तुकाराम का संसार-मुख	२६
चतुर्थ परिच्छेद— तुकाराम विरक्त कैसे हुए ?	३४
पंचम परिच्छेद— तुकाराम की साधना	४५
षष्ठ परिच्छेद— तुकाराम जी की कसौटी	५७
सप्तम परिच्छेद— शिद्धावस्था और प्रयाण	६६
अष्टम परिच्छेद— अभंगों का बहिरंग	८१
नवम परिच्छेद— देव-भक्त संवाद	९१
दशम परिच्छेद— आत्म-परीक्षण और अनुताप	१०१
एकादश परिच्छेद— आत्मानुभव	१०६
द्वादश परिच्छेद— सदुपदेश	११८
त्रयोदश परिच्छेद— संत-माहात्म्य	१२६
चतुर्दश परिच्छेद— ईश्वर-भक्ति	१३७
पंचदश परिच्छेद— तुकाराम जी की हिंदी-कविता	१४६

# प्रथम परिच्छेद

## महाराष्ट्र भक्तिधर्म

ज्ञानराज ने ज्ञानबल डाली जो बुनियाद ।  
नामदेव ने नामवश रचो भव्य प्रासाद ॥  
एकनाथ ने एकता रंग दिया चहुँ ओर ।  
उसी भक्तिपर धर्म का तुकाराम मिरमोर ॥

भक्ति की कल्पना बड़ी प्राचीन है । तन, मन, धन सब का अहंकार छोड़ पूर्ण-तया परमेश्वर की शरण में जाना यही इस का मुख्य मर्म है । कुछ वैदिक सूक्तों में—विशेषतः वसिष्ठ-कृत वरुणसूक्तों में इस की मूलक मलीर्मांति दिखाई देती है । उपनिषदों में तो यह कल्पना मूर्तस्वरूप पा कर 'भक्ति' इस नाम से भी ज्ञात है । गीता में ज्ञान और कर्म के साथ यह एक भगवत्प्राप्ति का तीसरा मार्ग ही माना गया है । किसी अर्वाचीन धर्म या धार्मिक पंथ को भी देखिए, उस में भी किसी न किसी स्वरूप में भक्ति का दर्शन आप अवश्य पावेंगे ।

इस का कारण बिल्कुल साफ़ है । प्रेम की कल्पना प्राणिमात्र के हृदय में जन्म से ही पाई जाती है । माता प्रेम का आदर्श-स्वरूप है । इस माता से भी बढ़ कर परमेश्वर प्रेममय है । एक बार यह कल्पना कर लेने के बाद फिर ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता कि उस परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए मनुष्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना चाहिए या कुछ विशिष्ट कर्मों का उसे आचरण करना चाहिए । यदि ज्ञान और कर्म यही केवल परमेश्वर प्राप्ति के दो मार्ग माने जावें, तो उन बेचारे जीवों को, जिन में



न तो ज्ञान की सूक्ष्म बातें समझने योग्य बुद्धि है या न तो कर्म करने योग्य सामर्थ्य है, कुछ सहाय ही न रहेगा। भक्ति-मार्ग के लिए न तो कर्म की आवश्यकता है, न ज्ञान की। यहाँ तो केवल अनन्य भाव की अपेक्षा है। “मैं तो किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, जन्म-मर मैं ने बुरे ही बुरे काम किए हैं, पतितों से भी मैं पतित हूँ,” इतनी आत्मविषयक नीची कल्पना रहते हुए भी “परमेश्वर सत्यस्वरूप है, वह दयामय है, वह मेरा त्याग कदापि नहीं करेगा, वही मेरा बेड़ा पार लगावेगा, वही मेरे सब संकटों को हरण करेगा, वही मेरा उद्धार करेगा” यह भ्रष्टा मन में उत्पन्न होना और उसी पर सब प्रकार में निर्भर रहना, भक्ति का अनन्य लक्षण है। इस दुःस्वमय संसार के कटकमय पथ पर चलते-चलने जब जीव ऊब जाता है, अच्छा काम करते हुए भी जब उसे बुरा ही फल मिलता रहता है, किसी का भी उसे सहाय नहीं रहता, अहंकार पूरा-पूरा नष्ट हो जाता है, तब इस भक्ति-कल्पना के सिवाय उसे दूसरा कुछ सहाय नहीं रहता। उस समय इसी कल्पना से उसे विश्राम मिलता है और समाधान प्राप्त होता है। और यही कारण है कि केवल हर एक धर्म में ही नहीं, किंतु हर एक मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है कि उस के मन में यह भक्तिकल्पना अवश्य उद्भूत होती है। खास कर अन्य मार्गों के अनुयायी जब अपने ही आचारों का दूसरो पर अत्याचारयुक्त आक्रमण करते हैं, तब इस मार्ग से जानेवाले लोगों में एक प्रकार की आत्मिक सामर्थ्य पैदा होती है और भक्ति-मार्ग का नए-नए स्वरूप में उत्थान होता है।

इसी प्रकार का एक उत्थान ईसा की ग्यारहवीं सदी में महाराष्ट्र देश में हुआ। उस समय जब उत्तरी भारत गज़नी के सुलतान महमूद के हमलों से परेशान था। हिंदुओं के पवित्र स्थानों पर आक्रमण होता था, देवालय तोड़े जाते थे, मूर्तियाँ फोड़ी जाती थीं और वहाँ की संपत्ति लुटी जाती थी। इस प्रकार से हिंदूधर्म के केवल बाहिरंग पर ही महमूद धर्म का आक्रमण न होता था, किंतु उस के अंतरंग पर भी आघात होने लगे थे। सत्ताधीश धर्म-प्रसारक मुसलमान सुलतानों की अपेक्षा अपने धर्म की महत्ता दिखलानेवाले और अपनी कृतियों से लोगों के मन पर प्रभाव डालनेवाले मुसलमान फ़कीरों के उपदेश ने हिंदूधर्म के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई थी। परमेश्वर का स्वरूप एक ही है और उस के पैदा किए हुए सब इन्सान एक से हैं; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जाति-भेद मनुष्य-कृत और अतएव स्वार्थमूलक हैं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में दृढ़ मूल होने लगी थीं और इस प्रकार से हिंदूधर्म के कुछ मूलभूत तत्वों पर ही चाँटें पहुँचाने लगी थीं। इन्हीं कारणों से भक्तिमार्ग का भारत भर में और विशेषतः महाराष्ट्र देश में बड़े जोर से उत्थान हुआ।

इस नए उत्थान के लिए अन्य प्रांतों की अपेक्षा महाराष्ट्र का क्षेत्र कई दृष्टियों से अधिक योग्य था। मुसलमान वीरों का आक्रमण उस समय केवल विंध्यादि के उत्तर में ही था। इस लिए उत्तरी भारत से भागे हुए लोग विंध्यादि के पार कर दक्षिण के हिंदू राजाओं का आश्रय लेते थे। दक्षिण और उत्तर हिंदुस्तान के बीच में होने से महाराष्ट्र देश में दोनों विभागों की अधिकताएँ नहीं थीं। इस लिए प्रायः सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल-

जुल कर रहते थे। मुसलमानी फ़कीरों की भी आमद-रक़ शुरू हो गई थी। भक्तिमार्ग का जो मुख्य स्थान उत्तरी भारत में समझा जाता था, उस मथुरा नगर पर भी महमूद का आक्रमण हो चुका था। हिंदू लोगों ने यह बात समझ ली थी कि उन के देवताओं में शत्रुओं का निवारण करने की सामर्थ्य नहीं है। और इसी कारण से हिंदूधर्म के भिन्न-भिन्न पंथों का संगठन करने के प्रयत्न भी होने लगे थे। बौद्धों के भगवान् बुद्ध को लोग श्रीकृष्ण का नया नया अवतार समझने लगे थे। राजस तथा असुरों को अपने हाथों में आयुष्य धारण कर मारनेवाले देवताओं की मूर्तियों का भी रूपान्तर धीरे-धीरे बुद्ध-समान निष्क्रिय हस्तों की देवता-मूर्तियों में हो रहा था। ऐसी संक्रमणावस्था में महाराष्ट्र की दक्षिण सीमा पर एक नया ही भक्ति-स्थान, एक नए ही देव के नाम से स्थापित हुआ। इस स्थान ने आज लगभग हजार वर्ष तक महाराष्ट्र के भावुक लोगों को आकर्षित किया है। भिन्न-भिन्न जाति के भक्त अपनी-अपनी जाति का अभिमान छोड़, केवल भगवत्प्रेम में मगन हो कर यहाँ नाचे हैं, नाचते हैं, और नाचते रहेंगे। बहुत क्या, पुराणों में वर्णित वैकुण्ठ को स्वर्ग से इन भगवद्भक्तों ने धरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच लिया।

इस स्थान का नाम पंढरी या पंढरपुर, और जिस देवता का यहाँ जय-जयकार हुआ, उस देवता का नाम विठ्ठल। यह संस्कृत शब्द नहीं है। इसी से इस देवता का नावीन्य प्रतीत होता है। विठ्ठल शब्द का अर्थ है 'हँट पर खड़ा'। इस नाम के पढ़ने का कारण यों बताया जाता है। पुंडलीक या पुंडरीक नाम का एक बड़ा मातृ-पितृ-भक्त ब्राह्मण भीमा नदी के तीर पर रहता था। उस की इस मातृ-पितृ-भक्ति से प्रसन्न हो कर भगवान् श्रीकृष्ण मथुरा से उम के यहाँ अपना दर्शन देने के लिए पचारे। पर पुंडलीक को इस की परवाह क्या? वह अपने माता-पिता की सेवा करने में ही आसक्त था। जब उस से कहा गया कि 'भगवान् तुझे दर्शन देने आए हैं', तब उस ने पास पड़ी हुई एक हँट उठाई और भगवान् की ओर फेंक कर कहा—'महाराज, कृपा कर इस हँट पर विश्राम कीजिए। मैं माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ। यह खतम होते ही आप का पूजन और उत्कार करूँगा।' उस की इस मातृ-पितृ-भक्ति से तथा शुद्ध भाव से आश्चर्य-चकित हो, भगवान् श्रीकृष्ण अपने दोनों पैर जोड़ कर हँट पर खड़े हुए और कमर पर दोनों हाथ धर उस की ओर ताकते रहे। विठ्ठल नाम का यही कारण है, और यही 'खड़ा हँट पर हाथ कमर पर' विठ्ठल-मूर्ति का स्वरूप है। पुंडरीक की भक्ति से इस प्रकार विठ्ठल का नया अवतार हुआ। इस स्थान पर भीमा नदी का प्रवाह चंद्रमा की कोर-सा कमानदार होने के कारण उस का नाम चंद्रभागा पड़ा और उस स्थान पर जो गाँव बसा, उसे लोग पुंडरीकपुर कहने लगे। पंढरपुर या पंढरी इस पुंडरीकपुर का प्राकृत रूप है।

बहुत ही थोड़े दिनों में इस स्थान की कीर्ति दूर-दूर तक फैलने लगी। विठ्ठल-दर्शन के लिए लोग प्रति एकादशी को एकत्र होने लगे। कंधे पर पताका, हाथ में कौंक और मुख से विठ्ठल-विठ्ठल यह नामधोष, इस प्रकार खास कर असाढ़ और कार्तिक सुदी एकादशी के दिन दूर-दूर से भक्त लोग आने लगे। इस प्रकार विठ्ठल-दर्शन के लिए पंढरपुर आना 'वारी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इन 'वारिकरी' अर्थात् वारी करनेवाले

लोगों का एक झलग ही पंथ बन गया ।

इस विद्वल-भक्ति के संप्रदाय को श्रीशानेश्वर महाराज के कारण बड़ा महत्व प्राप्त हुआ । श्रीशानेश्वर महाराज एक बड़े भारी विद्वान् साधु-पुरुष थे । इन के गुरु इन के ही बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे । यद्यपि निवृत्तिनाथ को गाहनीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त हुई थी, तथापि नाथपंथी योग की अपेक्षा ज्ञानेश्वर ने भगवद्भक्ति का ही अधिक विस्तार किया । आप ने पंद्रह वर्ष की अवस्था में श्रीमद्भगवद्गीता पर एक बड़ी विस्तृत और विद्वत्तापूर्ण भावबोधिनी नामक मराठी टीका लिख डाली । ज्ञानेश्वरी नाम से यही टीका बड़ी प्रसिद्ध है । मराठी भाषा के सर्वमान्य आद्यग्रंथ का मान इसी ग्रंथ को है और बारकरी-ग्रंथ का तो यह मुख्य ग्रंथ ही माना गया है । इस ग्रंथ में भगवद्भक्ति को योग या ज्ञान से अधिक महत्व का बतलाया गया है । कर्म की तो इस में अच्छी ही भगल उड़ाई है, और उसी के साथ-साथ कर्मठ ब्राह्मणों की । इस का एक कारण यह था कि श्रीशानेश्वरजी को कर्मठ ब्राह्मणों द्वारा बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी । ज्ञानेश्वर के पिता विद्वल पंत अपनी तदर्थ अवस्था में संतति उत्पन्न करने के पहले ही अपनी पत्नी का त्याग कर संन्यास-दीक्षा ले चुके थे । परन्तु अपने गुरु की आज्ञानुसार उन्होंने फिर से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया । इस द्वितीय प्रवेश के बाद उन्हें निवृत्ति, ज्ञानेश्वर और सोपान नाम के तीन पुत्र और मुक्ताबाई नाम की कन्या हुई । इस रीति से संन्यासी के पुत्र होने के कारण वे चारों जाति-बहिष्कृत थे । इसी अपमान के कारण श्रीशानेश्वर जी का चित्त भक्ति-मार्ग की ओर झुका । उन्होंने अपनी समर्थ-बाखी से प्रतिपादन किया कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, हर एक मनुष्य को ईश्वर की उपासना करने का एक-सा हक है, और सप्रेम चित्त से यदि ईश्वर-भक्ति की जावे, तो बिना ब्राह्मणों का सिकारिश के किसी भी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है । श्रीशानेश्वर केवल इकलौस वर्ष की अवस्था में ही समाधिस्थ हुए । इन का समाधि-काल ई० १२६६ है । इन की समाधि आकंदी नामक गाँव में है ।

भक्तिपंथ का माहात्म्य बढ़ाने में जिस प्रकार श्रीशानेश्वर जी की ग्रंथ-रचना का साहाय्य हुआ, उसी प्रकार इस पंथ की लोकप्रियता बढ़ाने का मान नामदेव जी को मिला । नामदेव जी के पिता दामाशेटी जाति के दर्जी थे । इन्हें बहुत दिन तक पुत्ररत्न न हुआ । इन की स्त्री अर्थात् नामदेव जी की माता गोण्णाई ने पंढरपुर के श्रीविद्वल को स्वयं मनाया और श्रीविद्वल की कृपा से उसे पुत्र हुआ । इसी का नाम नामदेव था । अपनी जवानी में गृहस्थी करते हुए नामदेव जी के भाई-बंदों ने स्वयं फँसाया । आखिर संसार-दुःखों से त्रस्त हो इन का चित्त ईश्वर की तरफ झुका और ये हमेशा साधु-संतों के सहवास में रहने लगे । धीरे-धीरे ईश्वर-भक्ति में इन का चित्त रँगने लगा । अंत में ज्ञानेश्वर के छोटे भाई सोपानदेव के विसोवा स्वैचर नाम के शिष्य से नामदेव जी ने उपदेश ग्रहण किया । इन्हीं गुरु के पास इन्होंने भ्रमंग नामक मराठी छंद की रचना सीखी और इसी छंद में रचना कर नामदेव भजन-कीर्तन करने लगे । इस भजन-रंग में आप ऐसे रँग जाते कि आप को खाने-पीने की भी सुच-सुच न रहती थी । घर में, बाहर, उठते-बैठते, सदा-सर्वदा

आप की बाखी से अभंगों का प्रवाह एक-सा निकलता रहता । परिणाम यह हुआ कि नामदेवजी के घर के सभी लोग अभंग रचने लगे । पिता दामारोटी, माता गोखाई, स्त्री राजाई; नारा, महादा, गोंदा और विठा नाम के चार पुत्र तथा उन की लाडाई, गोडाई, येसाई और साखराई नाम की चार स्त्रियाँ, लड़की सिंवाई और बहिन आऊवाई ही नहीं; किंतु उन के घर में काम करनेवाली दासी जनाबाई भी ईश्वर-भक्ति पर अभंग रचने लगी । कहा जाता है कि इन सबों ने मिल कर ६६ लाख अभंग रचे । तात्पर्य यह कि इन की अभंग-रचना बहुत बड़ी थी । नामदेवजी की भक्ति का और इन की कविता का नाम बड़ी दूर-दूर तक फैला । श्रीज्ञानेश्वर के साथ इन्होंने बड़ी दूर-दूर की तीर्थ-यात्रा की । नामदेव जी का एक मंदिर पंजाब में भी पाया गया है और, सिक्ख धर्म के ग्रंथ साहब में भी आप के कुछ अभंग पद वर्तमान हैं । यह भक्तराज अस्सी वर्ष तक इस दुनिया में रहे और पंढरपुर की तथा विठ्ठल-भक्ति की महिमा लूब बढ़ा कर ई० १३८० में दिवंगत हुए ।

ज्ञानेश्वर और नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र में संतों की फ़सल सी आई थी । हर एक जाति का एक न एक संत या ही । कुम्हारों में गोबा और राका, मालियों में सांवता सुनारों में नरहरि, तेलियों में जोगा, चूड़ी बनानेवालों में शामा नाम के साधु प्रसिद्ध थे । वैश्याओं में भी कान्होपात्रा नामक एक भक्त स्त्री थी । और तो क्या विस्तृत नीच काम करनेवाले और अस्त्य समझे जानेवाले महार जाति के लोगों में भी बंका और चोखा नाम के दो साधु विद्यमान थे । इन में से कई ज्ञानेश्वर नामदेव के साथ तीर्थ यात्रा में भी शामिल थे । इस तरह महाराष्ट्रीय संतों की कीर्ति भारत भर में फैल रही थी । इन साधु-पुरुषों ने देश भर में प्रेम की वृष्टि की और इस अमृत-वर्षा से सब प्रकार का भेदभाव नष्ट हो कर महाराष्ट्र भर में प्रेम-भाव फैल गया । इन साधु-संतों में एक विशेषता यह थी कि ये कभी भील नहीं माँगते थे । अपने-अपने काम करना और आसाढ़ और कार्तिक की एकादशी को पंढरपुर में एकत्र होना, इन का कार्य-क्रम था । आपस में जात-पाँत भूल कर पैर पड़ना, गले लगना, एक दूसरे की कविता लिखना और गाना और सब मिल कर एक दिल से श्रीविठ्ठल का भजन करना, यही इन का धर्म था । चंद्रभागा के तट की रेती में देह-भाव भूल कर विठ्ठल की गर्जना करना और उसी प्रेम में आनंद से नाचना यही इन का क्रतु था । इन का आचरण अत्यंत शुद्ध रहने के कारण तत्कालीन समाज पर इन का बड़ा असर पड़ता था । जाति-भेद तोड़ने का प्रकट और खुल्लम-खुल्ला उपदेश ये कभी नहीं देते थे; परंतु इन के मात्सिक आचरण में भेद-भाव को स्थान ही न था । 'भेद नहीं अभेद हुआ है, राम भरा जग सारा' यह उन की कल्पना थी । ईश्वर-भक्ति का जो भूला है, वह जात-पाँत नहीं देखता, जिस का वैसा भाव हो उस को वैसा ही मिलता है, यही इन का मुख्य उपदेश था । इन सब कारणों से उस समय महाराष्ट्र भर में भक्ति और प्रेम का साम्राज्य हो रहा था ।

परंतु मुसलमान लोगों का आक्रमण नर्मदा के दक्षिण में बढ़ते ही यह स्थिति बदलने लगी । देवगिरि के जिस यादव-कुल के राज्य में महाराष्ट्र भाषा तथा भगवद्भक्ति की एक-सी वृद्धि होती थी उस में यादवों का राज्य नष्ट होत ही बड़ा भारी खंड पड़ा । देवगिरि में मुसलमानी अमल जम गया और उसी के साथ महाराष्ट्र के बुरे दिन आए । हिंदू-सत्ता

अधिकारिक दक्षिण को जाने लगी। महाराष्ट्र सं भाग कर हिंदू लोग कर्नाटक की शरण लेने लगे। इसी दशा में पंढरपुर का नाम सुन कर्नाटक के अनागोदी नामक स्थान का राजा श्रीविठ्ठल के दरान को आया और पंढरपुर के देवता पर मोहित हो श्रीविठ्ठल मूर्ति को अपनी राजधानी में ले गया। भगवान् के चले जाते ही वारकरी लोगों की संख्या कम होने लगी और पंढरपुर का महत्व घटने लगा। महाराष्ट्रीय भक्तिपंथ पर यह बड़ा ही संकट आया था। पैठण गाँव के भानुदास नामक भगवद्भक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट से उबारा। यह अनागोदी गया और राजा के यहाँ से चतुरता-पूर्वक श्रीविठ्ठल की मूर्ति को वापस ले आया। पंढरपुर में फिर उस मूर्ति का स्थापना हुई।

इसी भानुदास के वंश में एकनाथ नाम का एक महानाथ पुरुष उत्पन्न हुआ। एकनाथ के पिता सूर्यनारायण भानुदास के पौत्र थे। एकनाथ की माता का नाम रुक्मिणी था। बचपन में ही एकनाथ के माता-पिता का काल हो जाने के कारण उस का पालन-पोषण उस के दादा चक्रपाणि ने ही किया। इस की बुद्धि बड़ी तीव्र थी। विद्याभ्यास पूरा करने पर यह देवगिरि गया। यहाँ के सूत्रेदार जनार्दन पंत प्रसिद्ध भगवद्भक्त थे। मुसलमानों की सेवा में रह कर भी त्रिन सत्पुरुषों ने अपने धर्म तथा भाषा की रक्षा भलीभाँति की थी, उन में से ही जनार्दन पंत एक थे। दो मालिकों की सेवा एक ही संबन्ध को करना बड़ा कठिन है। पर जनार्दन पंत अपने मुसलमान मालिक तथा सर्वेश दत्तात्रेय दोनों की सेवा बड़ी चतुरता से करते थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का अध्ययन बड़े पारश्रम से किया था। एकनाथ ने इन से उपदेश लिया। शिष्य की असाधारण बुद्धि देख जनार्दन पंत ने एकनाथ को मराठी में ग्रंथ-रचना करने की आज्ञा दी। एकनाथ मराठी और फ़ारसी दोनों भाषा में निपुण थे। इन के गद्य ग्रंथों में फ़ारसी के अनेक शब्द पाए जाते हैं। इन की ग्रंथ-रचना में श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध पर लिखी हुई टीका बहुत प्रसिद्ध है। इस टीका-लेखन का पैठण में आरंभ हुआ और तीर्थ-यात्रा करते-करते ही एकनाथ ने इन का बहुत-सा भाग लिख कर टीका काशीपुरी में पूरी की। यह ग्रंथ पूरा होते ही इन की प्रसिद्धि काशी के पंडितों में खूब हुई और तब से आज तक महाराष्ट्र भाषा में यह ग्रंथ बहुत माना जाता है। इस समय एकनाथ की आयु केवल २५ वर्ष की थी। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। इन के ग्रंथों में अद्वैत-ज्ञान और भगवद्भक्ति का बड़ा सुंदर मिलाप देखने में आता है। इन का आचरण भी बड़ा शुद्ध और पवित्र था। भूतदया तो इन के नस-नस में भरी थी। इन्होंने अतिशुद्धों को भी अपनाया और पितृ-भ्रातृ के लिए बनाई रसोई से लुपित अंत्यजों को भी ब्राह्मणों के पहले जमाया था। यह एक बार आकंदी गए और वहाँ पर महीनों तक अपनी हरिकथा से लोगों को ईशगुण सुनाते रहे। श्रीज्ञानेश्वर महाराज के समाधि की बुरी हालत देख, इन्होंने उस का जीर्णोद्धार किया। उसी समय इन्होंने एक और भारी काम किया। ज्ञानेश्वरी का अध्ययन तो इन्होंने जनार्दन पंत के पास किया ही था। उसी ग्रंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त बहुत से अपपाठ देख कर इन्होंने ज्ञानेश्वरी का अत्यंत शुद्ध संस्करण तैयार किया। इस प्रकार अपनी उपदेश-वाणी से जड़ जीवों को तार कर श्रीएकनाथ जी महाराज अपनी बयोवस्था के ८१वें वर्ष में ( ई० १५६६ ) फाल्गुण बदी छठ्ठी के रोज समाधिस्थ हुए।

एकनाथ की मृत्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उदबोन्मुख थी। भीमनेश्वर महाराज ने जिन समय महाराष्ट्र में भक्ति-मार्ग की स्थापना की, वह समय महाराष्ट्र के अत्यंत अशुभकाल था। उस समय रामदेवराय से बादव-वंशी न्यायी राजा थे। हेमाद्रि पंडित से शिल्पकला तथा लघु-लेखन-लिपि के प्रवर्तक विद्वान् मंत्री थे, बोपदेव से तीक्ष्ण-बुद्धि पंडित थे, ज्ञानदेव से ज्ञानी और नामदेव ऐसे नाम-प्रेमी भगवद्भक्त थे और मुक्ताबाई, जनाबाई-सी भक्त-स्त्रियाँ भी विद्यमान थीं। इस के बाद तीन सदरियाँ महाराष्ट्र में बुरी तरह से गुजरीं। यवन लोगों का आक्रमण महाराष्ट्र भर में हो गया और राज-सत्ता नाम को भी महाराष्ट्र में न रही। त्रिधर देखो उधर मुसलमानों का असर दिखाई देने लगा। पर फिर भी यह असर सर्वदेशीय न था। राजकीय बातों में यद्यपि महाराष्ट्र अपना स्वत्व लो बैठा था, तथापि धार्मिक, सामाजिक इत्यादि विषयों में उस ने अपनी बात बड़ी हिक्राजत से मँभाल गव्सी थी। बहमनी राज्य के टुकड़े होते ही मराठा वीर और राजपुरुष अपनी राजकीय स्थिति को भी संभालने लगे। मराठा लोगों का स्वामिमान-दीपक विलकुल कभी न बुझा; क्योंकि महाराष्ट्र-संतों द्वारा इस में हमेशा स्नेह डाला ही जाता था। ज्ञानेश्वर, नामदेव प्रभृति संतों ने हिंदूधर्म के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, उसी के कारण मुसलमान लोगों के अमल में भी हिंदूधर्म जड़ पकड़ रहा था। बीच के प्रति-काल काल में जो साधु-संत हुए, उन्हीं के उपदेशामृत से महाराष्ट्र अपने विरोधकों से टक्कर लेता रहा। मुसलमानी अमल के नीचे रहते हुए भी ये साधु-संत महाराष्ट्र भाषा की बुद्धि करते रहे और अपने अभिनव महाराष्ट्र-धर्म की ध्वजा फहराते रहे। यवन राजाओं के अधीन रह कर भी दामाजी पंत ऐसे बेदर के सत्पुरुष ने अकाल के समय बादशाही कोठों का अनाज लुटवा दिया और अपनी जान भी जंखिम में डाल कर हज़ारों गरीबों के प्राण बचाए। जनार्दन पंत ने भी अपनी तपस्या में बड़ा भारी काम किया। एकनाथ ने जिस ईश्वर-भक्ति का उपदेश किया, उस उपदेश ने तो भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना करनेवाले भी एक ही भक्ति-मार्ग के अनुयायी कहलाने लगे। सप्तशृंगी पर शक्ति की उपासना करने वाले अंबकराय, चिंचवड़ में गजानन की भक्ति करनेवाले मोरया गोसाईं, शिंगणापुर के शिवभक्त महालिंगदास इत्यादि लोगों को एकत्र संगठित करने का काम श्रीएकनाथ की ही प्रासादिक वार्षी से हुआ। सारांश यह कि सत्रहवीं सदी के आरंभ में इन पूर्वोक्त महानुभावों से भी बड़े-बड़े विभूतियों के अवतार की महाराष्ट्र अपेक्षा कर रहा था।

इसी अवस्था में महाराष्ट्र को अच्छे दिन दिखलानेवाले महात्माओं का जन्म हुआ। श्रीएकनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात् नौ वर्ष से ही तुकाराम और रामदास इन दो भगवद्भक्तों का अवतार हुआ। ये दोनों भगवद्भक्त उन्नत वर्ष के भी न हुए थे कि महाराष्ट्रधर्म-संस्थापक, गोब्राह्मण-प्रतिपालक श्रीशिवाजी महाराज रायगढ़ पर अवतीर्ण हुए। तुकाराम, रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उद्धार करनेवाले तीन महापुरुष हैं। श्रीशिवाजी महाराज ने अपनी उज्ज्वल देशभक्ति से और अनुपम वीरता से महाराष्ट्र को पराधीनता से छुड़ाया। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने धर्म और राजनीति का बड़ा ही मधुर मिलन कर के भगवद्भक्तों को वीर और वीरों को भगवद्भक्त बनाया और श्रीतुकाराम

महाराज ने समाज के नीचे से नीचे लोगों को भी उन्नत कर संपूर्ण देश की सर्वांगीण उन्नति की। ज्ञानेश्वर ने जिस धर्म की स्थापना की, नामदेव ने जिसे बढ़ाया, एकनाथ ने जिसे उन्नत किया, उसी भक्तिपर महाराष्ट्र-धर्म को श्रीतुकाराम महाराज ने अत्युच्च सीमा को पहुँचाया। इस भगवद्भक्त की अभंगरूप वाणी महाराष्ट्र में केवल उस समय ही नहीं गूँज उठी, परंतु जब तक महाराष्ट्र भाषा-भाषी एक भी मनुष्य विद्यमान है, तब तक गूँजती रहेगी। संस्कृत-सी प्रगल्भ भाषा में प्रभुता प्राप्त किए पंडित, अंगरेज़ी-सी उपयुक्त परकीय भाषाएँ पढ़ कर अपनी अस्वलित बकनृता से लोगों को मुग्ध करनेवाले वाग्मी विद्वान्, साधारण ज्ञान प्राप्त कर अपनी जीविका चलानेवाले सामान्य जन, इन से ले कर पुस्तकी ज्ञान से पूर्णतया वंचित केवल लँगोटी पहिनेवाले 'काँचे कमलिया, हाथ में लकड़िया' रखनेवाले समाज के आधारभूत अज्ञ लोगों तक एक भी मनुष्य महाराष्ट्र में ऐसा न मिलेगा, जिस के मुख में श्रीतुकाराम महाराज की अभंगरूप वाणी का कुछ न कुछ अंश वास न करता हो। इन्हीं दिव्य महात्मा का जीवन-वृत्तांत और उन का दिया हुआ दिव्य संदेश नागरी भाषा-कोविद विद्वानों पर विदित करने के हेतु यह ग्रंथ लिखा जाता है।

## द्वितीय परिच्छेद

### तुकाराम का जन्म

नन मन धन में जगत हित  
ईश भक्ति करनार ।  
दुर्लभ ऐसे पुरुष का  
भूतल पर अवतार ॥

श्रीतुकाराम महाराज का जन्म ई० १६०८ में देहू गाँव में हुआ। यह गाँव इंद्रायणी नदी के तट पर बना है। इसी नदी पर आकंदी गाँव है जहाँ श्रीज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए थे। देहू, आकंदी गाँवों के पान में बहते-बहने यह इंद्रायणी आगे जा कर भीमा नदी से मिलती है जिस के तट पर पदरपुर है। जिस प्रकार पंढरपुर पुंडलीक के, आकंदी ज्ञानेश्वर के, गोदावरी-तट पर का पैठण एकनाथ के, उसी प्रकार देहू तुकाराम के कारण प्रसिद्ध हुआ। आज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पवित्र स्थानों में यह एक ममका जाता है, और चैत बंदी दूब से ले कर पाँच दिन वहाँ हजारों भाविक तुकारामजी की निधन तिथि मनाने के लिए जाते हैं। चंद्र से पूना आते हुए घाट बंदने के बाद लोणावला नामक स्टेशन पड़ता है। इसी के पान इंद्रायणी का उद्गम-स्थान है। आगे चल कर तजेगाँव के बाद शेलारवाड़ी स्टेशन लगता है, जहाँ से देहू केवल तीन मील है। देहू गाँव के चारों ओर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पहाड़ हैं। पश्चिम की ओर दो मील पर भंडार, दक्षिण की तरफ छः मील पर गोराना और उत्तर को आठ मील पर भामनाथ नाम



के पहाड़ हैं। इंद्रायणी पूरब की ओर बहती जाती है, पर देहू के पास काशी जी की गंगा सी वह उत्तरवाहिनी हो जाती है। पंढरपुर में श्रीविठ्ठल ईंट पर अकेले ही खड़े हैं। वहाँ उन के पास रखुमाई की मूर्ति नहीं। रखुमा माता का मंदिर वहाँ निराला है। पर देहू में विठ्ठल और रखुमा बाईकी मूर्तियाँ पास-पास ही विराज रही हैं। ये मूर्तियाँ तुकाराम महाराज के आठवें पूर्वज विश्वंभर बाबाजी के हाथ से स्थापित हुई हैं। मंदिर उत्तगभिमुख है। सामने गरुड़ जी हैं। हनुमान भी पास में हैं। पूर्व की ओर विम्वराज विनायक हैं और एक भैरवनाथ का भी स्थान है। दक्षिण में हरेश्वर का मंदिर, उस के पीछे बल्लालवन और वहाँ पर त्रिदशेश्वर का देवालय और उसी के पास श्रीलक्ष्मीनारायण के ऐसं दो देवालय और हैं। ये सब देव-स्थान तुकाराम के जन्म से पूर्व के ही हैं। तुकाराम के एक अभंग में इन सभो का इसी प्रकार से वर्णन है। तुकाराम के कारण देहू प्रसिद्ध हो जाने पर नदी के तीर पर एक पुंडलीक का भी मंदिर श्रव बन गया है। इंद्रायणी यहाँ से मील खेड़ मील तक बड़ी गहरी है। इसी स्थान पर तुकाराम अकेले आ कर ईश्वर-भजन करने बैठते थे। जब तुकाराम की हस्तलिखित कविताओं के कागज़ इंद्रायणी में डुबोए गए, तब यही नदीके किनारे एक बड़ी शिला पर तुकाराम तेरह दिन तक मुख में पानी की बूँद भी न डाले पड़े रहे थे। इसी शिला पर उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था और उन की कविता के डुबाए हुए बस्ते तेरहवें दिन नदी में फूल कर तैरने लगे थे। भगवान् बुद्ध के चरित्र में जिस बोधि-वृक्ष के नीचे उन्हें निर्वाण-ज्ञान प्राप्त हुआ, उस का जो महत्व है, तुकाराम के चरित्र में इस शिला का भी वही महत्व है। तुकाराम के भक्तों द्वारा यह शिला श्रव देहू के विठ्ठल मंदिर में लाई गई है और तुकाराम की ज्येष्ठ पत्नी के नाम से तुलसी जो बूँदावन मंदिर में है, उसी के पास वह श्रव रखली गई है। मंदिर के पश्चिम में तुकाराम का मकान है। जिस कमरे में तुकाराम का जन्म हुआ वहाँ श्रव भक्तों ने एक नई विठ्ठल-मूर्ति की स्थापना की है। इस वर्णन से पाठक अपनी दृष्टि के सामने देहू का चित्र खींच सकेंगे।

देहू गाँव की बस्ती प्रायः मराठा कुनबी लोगों की है। ये लोग जाति के शूद्र होते हैं। इन में से बहुतेरे खेती वारी करते हैं। पर कुछ थोड़े व्यापार भी करते हैं। महाराष्ट्र के इन छोटे-छोटे गाँवों में कुछ-कुछ काम बंश-परपरा में चलते हैं। इन्हीं कामों में से महाजन का एक काम है। बाज़ार में बेचनेवाले और खरीदनेवाले दोनों से महाजन का संबंध आता है। बेचनेवाले के पास माल या खरीदनेवाले के पास रुपया काफ़ी न हो, तो इस महाजन की जमानत पर व्यवहार किया जाता है और दोनों ओर से इसे नियमित प्रती सदी कमीशन मिलना है। देहू गाँव की महाजनी तुकाराम के कुल में थी। इस के लिबाय तुकाराम के पूर्वजों की कुछ खेती-वारी, एक-दो चाड़े और थोड़ी-सी साहूकारी भी थी। थोड़ा-सा व्यापार भी इन के यहाँ होता था। सारांश तुकाराम का कुल देहू के प्रतिष्ठित लोगों में माना जाता था। ब्राह्मण-जाति के न होने के कारण इन्हें यद्यपि वेदाध्ययन का अधिकार न था, तथापि पुराणादि ग्रंथों का ज्ञान तथा महाराष्ट्र भर में उस समय की प्रचलित विठ्ठल-भक्ति और पंढरपुर की वारी इस कुल में चली आई थी।

श्रीविठ्ठल या पांडुरंग की सेवा को तुकाराम महाराज अपने पूर्वजों की बतनदारी कहते हैं और यद्यपि पूर्वजों के दूसरे बतन श्रीतुकाराम महाराज ने न चलाए तथापि इस विठ्ठल-भक्ति के बतन को पूर्णतया चला कर आप ने यह बतनदारी चरम-सीमा को पहुँचा दी।

श्रीविठ्ठल की यह बतनदारी करनेवाले इस कुल की ज्ञात थी शूद्र-कुनबी, धंधा था बनिए का, उपनाम था आँवले और कुलनाम था मोरे। इस कुल में विश्वंभर बाबा नामक एक प्रतिद्व पुरुष हो गए थे। इन के पिता का देहांत बचपन में होने के कारण इन का पालन इन की माता ने ही किया। ययासमय विश्वंभर बाबा का व्याह हुआ। इन की पत्नी का नाम आमामायाई था। विश्वंभर बाबा की छोटी-सी दूकान थी। विठ्ठल-भक्ति सत्यता-पूर्वक व्यापार, अतिथि-सत्कार इत्यादि सदगुणों से विश्वंभर बाबा सब देहवासियों को बड़े प्रिय थे। पर कई साल तक बाबा ने पंढरपुर की बरी न की थी। उन दिनों बारी को जाना आज का सा मुलभ न था। खास कर व्यापारी और पैसे वालों को चोर, लुटेरे तथा डाकुओं का बड़ा डर था। सोना लकड़ी में बाँध काशी से रामेश्वर जाने के आज के से वे दिन नहीं थे। केवल फ़क़्त इतना ही था कि आज कल हमारे पास सोना ही बाँधने के लिए नहीं है और उस समय सोने की कमी न थी। खास कर मुसलमानों का उन दिनों बड़ा डर रहता था। मुसलमान सिपाही हिंदुओं को बराबर लूटा करते थे और मौक़ा पा कर हिंदू भी उस का बदला लेने की ताक में रहते थे। ऐसे दिनों में यदि बहुत दिनों तक बाबा पंढरपुर न गए तो कोई अचरज की बात न थी। पर उन की माता उन्हें बराबर पंढरपुर जाने के लिए कहतीं। अंत में बाबा ने एक कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर जाने की ठानी। अपने गाँव के भाविक लोगों को साथ लिया और 'विठ्ठल, विठ्ठल, जय जय विठोवा रखु माई, जय ज्ञानेश्वरी माडली' इत्यदि भजन करते करते बाबा पंढरपुर गए। वहाँ पहुँचने ही भकों का ठाट देख कर बाबा के आनंद का ठिकाना न रहा। चंद्रभागा के पवित्र जल में स्नान कर, गोपीचंदन का टीका जमा, तुलसी के मणियों की माला गले में पहने हुए हज़ारों वारकरी लोगों की 'पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल' की गर्जना सुन बाबा का शरीर पुञ्जित हो गया। मंदिर में जा कर 'टोपी तिर पर, अर्धर तन पर, तुलसी की माला गले पड़ी, विठ्ठल की मुरती खड़ी' देख कर बाबा के आँखों में अश्रु छा गए और थोड़ी देर उस विठ्ठल-मूर्ति के पैरों पर माथा रख कर बाबा सुध-बुध भूल गए। विश्वंभर बाबा चार दिन पंढरपुर रहे और पूर्णिमा के दिन जो दही-हाँड़ी का उत्सव होता है, वह देख कर घर आने को निकले। पंढरपुर छोड़ने से बाबा को बड़ा दुःख हुआ और 'पुनरागमनाय च' का निश्चय कर के बाबा घर पहुँचे। माता से सब हाल कह सुनाया और साथ ही हर एकादशी को पंढरपुर जाने का अपना दृढ़ निश्चय भी निवेदन किया। माता ने बहुत समझाया पर बाबा का निश्चय देख बेचारी चुप हो रही। विश्वंभर बाबा हर एकादशी को पंढरपुर जाने लगे। बाबा ने आठ महीने में १६ वारियाँ कीं। आने-जाने के आठ दिन और पंढरपुर में रहने के दो दिन जाने पर घर-गिरस्ती के काम देखने को हर पखवारे में बाबा को केवल चार-पाँच दिन रहने लगे। धंधे का नुक़सान होने लगा। लोग भली-बुरी सुनाने लगे। हफ़र चौमासा भी आ पहुँचा था। इन सब कारणों से बाबा का चिचि दुविधे में पड़ा। पर

बाबा की अनन्य भक्ति देख श्रीविठ्ठल ने स्वप्न में आ कर बाबा को दृष्टांत दिया कि 'मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम पंढरपुर आने का कष्ट न उठाओ। तुम्हारे दले में ही रखुमाई के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। मुझे गाँव बाहर के वन में से ले आओ।' विश्वंभर बाबा बड़े आनंदित हुए। स्वप्न में कहे अनुसार बाबा लोगों को ले कर वन में गए। वहाँ एक स्थान पर सुगंधि फूल, अंबीर, तुलसी पड़ी हुई देख बाबा ने वहाँ खोदा तो विठ्ठल और रखुमाई की सुंदर मूर्तियाँ मिलीं। बाबा ने अपने घर के पास ही इंद्रायणी-तट पर मंदिर बनवाया और बड़े समारोह के साथ इन मूर्तियों की उस मंदिर में स्थापना की। अब बाबा को पंढरपुर की वारी करने का कारण नहीं रहा। बाबा के लिए देह ही पंढरपुर बन गया।

विश्वंभर बाबा की संगति से आमाबाई का भी चित्त विठ्ठल-भक्ति में आसक्त था। परंतु बाबा के हरि और मुकुंद दोनों पुत्र बाबा-से सात्विक तथा अल्प संतुष्ट न थे। उन की सांसारिक उच्च आकांक्षाओं के लिए देह सा छोटा गाँव पूरा न पड़ता था। उस समय दक्षिण में विजयनगर का द्विद्वारज्य स्थापित हो चुका था और उस का बोलवाला महाराष्ट्र में भी सुनाई देता था। अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए, विश्वंभर बाबा के पश्चात् हरि और मुकुंद दोनों घर छोड़ विजयनगर पहुँचे और क्षात्रवृत्ति से प्रौढ में नौकरी कर के रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी स्त्रियों तथा माता को भी वहीं बुला लिया। आमाबाई का मन चल-विचल होने लगा। एक तरफ पुत्र-प्रेम और दूसरी तरफ विठ्ठल-भक्ति। घर छोड़ तो विठ्ठल की पूजा-अर्चा कैसे हो, और देह का घर न छोड़े तो पुत्रों का संसार कैसे चँभले। इस झगड़े में पुत्र-प्रेम की जित हुई और आमाबाई विठ्ठल-पूजा का कुछ प्रबंध कर विजयनगर गई। पर उस का चित्त एक-सा देह में विठ्ठल-मूर्ति के पास था। उस का मन उसे टोकता रहता था कि जो कुछ किया वह भला न किया। चित्त में एक-सा यही विचार आता था। एक रात उसे स्वप्न हुआ कि लड़ाई में उस के दोनों पुत्र मारे गए। उस ने लड़कों को सपना सुनाया और उन्हें नौकरी छोड़ देह चलने के लिए कहा। पर धन मान के पीछे पड़े हुए तृण पुत्र बेचारी माता की बात कैसे मानें! नौकरी छोड़ देह में जा कर फिर नमक मिरची बेचने के वे तैयार न थे। अतः माता का स्वप्न ही सच निकला। बहमनी सुलतान फ़ीरोज ने विजयनगर पर चढ़ाई की और उसी लड़ाई में हरि और मुकुंद दोनों काम आए। मुकुंद की स्त्री ने पति के साथ सहगमन किया। हरि की स्त्री गर्भवती होने के कारण बैसा न कर सकी और सास के साथ देह लौटी। बूढ़ा आमाबाई ने ससार छोड़ विठ्ठल की सेवा में ही मन लगाया। हरि की स्त्री का प्रसूती के लिए उस के मायके भेज दिया। वहाँ उसे पुत्र हुआ। आमाबाई की इच्छानुसार लड़के का नाम विठ्ठल रखा गया। पर आमाबाई को पीते का मुख देखने का सीमाग्य न मिला। विठ्ठल छोटा ही था कि आमाबाई बीमार पड़ी। विठ्ठल की माँ को खबर पहुँचाई गई। वह बेचारी गोद में बचा ले दौड़ती आई पर यह दोनों के देह पहुँचने के पहले ही आमाबाई के प्राण-पखेरू उड़ गए थे। विठ्ठल की माँ अपने सब दुःखों का कारण एक ही समझती थी। वह था विठ्ठल-भक्ति को छोड़ देना। उस की भोली भावना यह हो चुकी थी यदि उस का पति और देवर अपने घर पधारे हुए बिठोवा का त्याग न करते, तो यह संकट-परंपरा उन पर न आती।

उस के पास ने जो सपना देखा था, वह भी उसे ज्ञात था। उस के मन में यह बात पूरी-पूरी जम गई थी कि स्वप्न में प्रत्यक्ष श्री विठ्ठल ने आगामी संकट की सूचना दी थी, पर इस लोगों ने अज्ञानवश उस की ओर दुर्लक्ष्य किया और इसी लिए संकट-समुद्र में डूब मरे। विजयनगर से लौटने पर भी आमाबाई ने जो विठ्ठल-सेवा की, उसी का फल इस विठ्ठल-पुत्र के रूप में मुझे मिला है। अतएव अब हमें सिवाय विठ्ठल-सेवा के दूसरी शरण ही नहीं।

मुनीयतां से जो नर्साहत आदमी सीखता है, उसे वह भुलाए भी नहीं भूलता। विठ्ठल के माँ की यह कल्पना और उस की आँखों के सामने उस कल्पनानुसार जो जीता-जगता उर हरण था, इन का अन्तर केवल विठ्ठल के ही मन पर नहीं, किन्तु विठ्ठल के पुत्र पौत्र-दि वंश-जो के भी मन पर खूब पड़ा हुआ दिखाई देता है। तुकाराम की मृत्यु के पश्चात् उन के भाई कान्होबा ने जो विलाप के अभंग रचे हैं, उन में भी वे कहते हैं, “नाथ, हम लोगों पर सकट-परंपरा डाल, आप हमें अपनी सेवा से अविचल रखते हो। अपने पूर्व-माँ का जो हाल हम ने सुना है, वह हम का प्रत्यक्ष उदाहरण है।” इस कारण से विठ्ठल की माता ने अपने पुत्र को उस के बचपन ही से विठ्ठल-सेवा का दूध पिलाया। वह उस से हर प्रकार की विठ्ठल-सेवा कराने लगी। चंदन घिसना, फूल लाना, तुलसी की माला सूँघना, भोग लगाना, आरती उतारना, भजन करना इत्यादि काम बिल्कुल छोटेपन से ही विठ्ठल करने लगा। पर विठ्ठल को मातृ-मुख भी बहुत दिन न मिला। श्रीविठ्ठल ने उस की माँ को वैकुंठ में बुला लिया और देह के मकान में विठ्ठल लड़का और विठ्ठल भगवान के सिवाय और कोई न रहा।

यथा-काल विठ्ठल बड़ा हुआ, उस का विवाह हुआ, वह संसार के धंधे में लगा। उसे पुत्र भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर उस का ध्यान संसार में न जम सका। ऐन जवानी में भी वह निरक्त ही बना रहा और उस का पुत्र पदाजी जैसे ही घर संभालने योग्य हुआ तब ही उस के गने में गृहस्थी बंध वह पंढरपुर की वारियाँ करने लगा। आगे की तीन पीढ़ियों में यही क्रम चला। पदाजी का शंकर, शंकर का कान्होबा और कान्होबा का पुत्र दोल्होबा—ये सब भगवद्भक्त थे, वैश्य-वृत्ति करते हुए भी असत्य न बोलने का इन का व्रत था। पुत्र के संसार का भार संभालने लायक होते ही संसार की धुरा उस के कंधों पर रख भगवद्भक्ति करने के लिए पूर्णतया मुक्त होना यह मानों इन का कुलाचार ही हो चुका था। विठ्ठल के समय से आसाढ़ कार्तिक की वारी इन के कुल में न चूकी। विठ्ठल, पदाजी, शंकर और कान्होबा इन चारों का यही क्रम रहा। जन्म भर ये वारकरी बने रहे। इस अवस्था में यदि तुकाराम महाराज विठ्ठल-सेवा को अपनी वतनदारी बतलावें तो अचरज ही क्या? ईश्वर के पास वरदान माँगते समय भी तुकाराम कहते हैं, “महाराज मैं तो पंढरपुर का वारकरी हूँ। प्रार्थना इतनी ही है कि वह वारी मेरी कभी न चूकने पावे।”

यहाँ पर महाराष्ट्रीय वारकरी-पंथ के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों का समझ लेना अनुचित न होगा। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि इस मार्ग का उपास्य देवता श्रीविठ्ठल है। वैसे तो ये लोग सब देवताओं को मानते हैं पर समय पड़ने पर सब से श्रेष्ठ श्रीविठ्ठल

को ही मानते हैं। तुकाराम कहते हैं—“मेरा पंढरीराज बड़ा ज़बरदस्त है। वह सब देवों का भी देव है। वह जाख़ाई, जोख़ाई, मायराणी, प्लैसाबाई इत्यादि ( ग्रामीण ) देवताओं सा नहीं है। वह न तो मद्यमांसादि खानेवाली रंडी, चंडी, शक्ति-सा है, न रोट खानेवाले भैरव या खंडेराव-सा है। मंजा वा, मैसासुर तो उस के सामने के छोकरे हैं। मुँह काला हो उम बेताल फेताल का ! और तो क्या, लड्डुआ, मोदक, खानेवाले बड़े पेट के गणोबा से भी वह श्रेष्ठ है। वित्त में धारण करने योग्य है तो केवल एक ही है और वह है रखुमाई का पति विठ्ठल।” श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन ये भक्ति के नौ प्रकार हैं। पहली दो प्रकार की भक्तियों में ब्राह्मणों का वेद शास्त्राभिमान आड़ आता है। उन के विद्वानुसार वेदमंत्र केवल उच्चारने का ही नहीं, किंतु सुनने का भी अधिकार सवों का नहीं है। पादसेवन में सख्य तक की भक्ति रीतियों में ईश्वर मूर्ति को छूने का प्ररन उठता है और छुआछूत के भूत से पछाड़े हुए लोग हर एक मूर्ति को छूने का भी अधिकार यच्चयावत् मनुष्य को देने के लिए तैयार नहीं। इन सब बातों का विचार कर इस पंथ ने नामस्मरण पर ही ज़ोर दिया और नवीं भक्ति जो आत्मनिवेदन अर्थात् आत्म-समर्पण है उस का मुख्य साधन नामस्मरण ही बनाया। क्योंकि नाम लेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं कर सकता। कम मे कम वेद-शास्त्रों के अज्ञात विद्वल नाम लेने का तो सवों का एक-ना अधिकार है। इसी कारण ईश्वर के सामान्य नाम राम, कृष्ण, हरि इत्यादिकों की अपेक्षा इस पंथ में विठ्ठल नाम पर अधिक ज़ोर दिया जाता है। और यही कारण है कि पंढरपुरकी वारी का असली आनंद श्रीविठ्ठल दर्शन की अपेक्षा भी चंद्रभागा के बालुकायुक्त तीर पर सब संतों के साथ “विठ्ठल रखुमाई, विठोबा रखुमाई” एक स्वर से कहने में और एक ताल में नाचने में हैं। एका-दशी का उपवास और असाढ़ी कार्तिकी एकादशी का पंढरपुर की वारी, यह इस पंथ का व्रत है। मच और मांस का वर्जन इन का नियम और भीख न माँग कर अपना-अपना काम कर के उपजीविका करना इन का बाना। तुकाराम महाराज साफ़ कहते हैं—“भिच्चा माँगने के त्रिये कटोरा उठाना ! आग लगे ऐपी जीविका के। ऐमे आदमी की तो नारायण को उपेक्षा ही करनी चाहिए। दीन, बेकारे, वन कर दुनिया पर अपना भार डालना इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन सा हो सकता है ? भीख माँगना तो एक ही बात जादिर करता है कि इस भिखमंगे का ईश्वर पर भ्रिया नहीं है। ईश्वर की भक्ति कर के दूसरे पर भार डालना तो एक प्रकार का व्यभिचार है।” भूत-मात्र में भगवान समझ कर शरीर से वाणी से या मन से भी किसी को न दुखाना और सवों को उपयुक्त हो कर जनता-जनार्दन की सेवा करना इस मार्ग का अतम ध्येय है। अन्य मार्गों के समान आज यह पंथ भी थोड़ा-बहुत भिगड़ गया है, पर जिन काल का वर्णन किया जाता है उस समय इस पंथ में सब से अधिक पवित्रता वास करती थी।

ऐसे पवित्र कुल में तुकाराम के पिता बोल्लोबा का जन्म हुआ था। कान्होबा को संसार का काम सुपुर्द कर लेने के बाद बोल्लोबा ने अपना काम बड़ी दक्षता से सँभाला। इन की पत्नी कनकाई पूने के पास के लोहगाँव में रहनेवाले मोके उपनामक कुल

में पैदा हुई थी। यह भी यह कार्य में बड़ी चतुर थी। जब बोलहोवा के पिता कान्होवा का देहांत हुआ तब बोलहोवा विष्कुल तरुण ही थे। पिताजी ने यद्यपि घर के सब व्यवहार इन के सुपुत्र पहले ही किए थे, तथापि पिता के जीवित रहने सब व्यवहार करना एक बात थी और पिता की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी ही पूरी-पूरा जिम्मेदारी पर काम चलाना दूसरी बात थी। पर बोलहोवा बड़े धीरज के पुरुष थे। इन्होंने न केवल घर के ही सब कामकाज संभाले, पर आसाढ़ कार्तिक की वारी भी पिता जी के पीछे उतनी तरुण अवस्था में भी संभाली। इसी समय इधर इन की माता का भी देहांत हो गया। सब घर का काज ही इन दो पति-परिनियों पर आ पड़ा। पर दोनों एक-दूसरे को धीरज देते थे। ठीक इसी समय अर्थात् सन १२७३ में श्रीरुकनाथ महाराज आवंदीगाँव में समाधि का जीर्णोद्धार करने आए हुए थे। उन का कीर्तन वहाँ रोज होता था जो सुनने के लिए बड़े दूर-दूर से लोग जमा होते थे। वेहू गाँव आवंदी में केवल पाँच कोस दूरी पर है। इन्होंने पास श्रीरुकनाथ जी का कीर्तन है इस बात का पता लगने ही बोलहोवा भी कभी-कभी कीर्तन सुनने जाते और घर में अकेली रहना ठीक न समझ कर कनकाई भी इन के साथ जाती। नाथ जी से कीर्तन का प्रपञ्च-परमार्थ दोनों एक साथ साधने का सुंदर उपदेश सुन कनकाई के मन में भी विह्वल-भक्ति टढ़ हुई। बोलहोवा के साथ वारी करने के लिए वह भी कई बार पंढरपुर गई। इस प्रकार बोलहोवा तथा कनकाई के कई साल बड़े आनंद में गुजरे। पति-पत्नी का परस्पर प्रेम, घर में कुछ कमी न होने से चिंता का अभाव और दोनों के हृदय में श्रीविह्वल की भक्ति तथा सेवा करने की अभिलाषा। फिर आनंद की क्या कमी? पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ने लगी, जैसे-जैसे संतान न होने का दुःख दोनों पति-पत्नी का और विशेषतः कनकाई को असह्य होने लगा। बोलहोवा को ज्ञानेश्वर-रुकनाथ के ग्रंथों से अधिक प्रेम था। परंतु कनकाई को नामदेव जी के सीवे-सादे पर प्रेमभरे हृदयस्पर्शी अभंगों की अधिक चाव थी। “हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे प्रेम में मुझे तो जान पड़ता है कि तुम हो आकाश, तो मैं हूँ भूमिका, तुम हो समुद्र, तो मैं हूँ चंद्रिका; तुम हो तुलसी, तो मैं हूँ मजरी, तुम हो अलगूज, तो मैं हूँ बांसुरी; तुम हो चांद, तो मैं हूँ चादनी, तुम बनो नाग, तो मैं बनूँ पछिनी; नामदेव कहें तुम आत्मा मैं शरीर, पर असल में देखा जाय तो तुम और मैं दोनों एक ही हैं।” इत्यादि अभंग कनकाई बड़े प्रेम से गाती और अपने मन की अभिलाषा श्रीविह्वल से निवेदन करती। अंत में बोलहोवा के पिता की मृत्यु के ठीक इक्कीस वर्ष बाद कनकाई को पहला पुत्र हुआ। इस का नाम सावजी। इसी साध्वी के दूतरे पुत्र श्रीतुकाराम महाराज थे। कहते हैं कि नामदेव जी की भगवद्गुण गाने की तथा एक कोटि अभंग रचना करने की अभिलाषा पूरी न हुई थी, जिस पूर्ण करने के हेतु उन्होंने तुकाराम के रूप से फिर अवतार लिया।

अवतारी पुरुष जन्म लेने के लिए शुद्ध कुल हूँ दते हैं। भीम-द्रुगवर्गाता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं “योगी पुरुष का योग पूरा होने के पहले यदि उस का देहांत हो तो वह फिर अत्यंत शुद्ध कुल में जन्म लेता है और वहाँ पर अपने पौर्वदेहिक बुद्धि-सम्भोग को या अपनी योग-सिद्धि करता है।” फलतः अच्छी आने के लिए जैसे बीज और खेत दोनों

अच्छे लगते हैं उसी तरह सत्पुरुषों का सदैव पूर्व-जन्म तथा कुल दोनों अच्छे माने जाते हैं। बीज अच्छा हो, पर यदि वह ऊपर ज़मीन में पड़े तो किस काम का ! भला खेत खूब खुता हुआ बिल्कुल तैयार हो, पर उस में यदि गला-तड़ा बीज बोया जावे तो भी क्या लाभ ! दोनों आवश्यक हैं। मत्कुल सुकृष्ट क्षेत्र का-सा है और पूर्व-संस्कार बीज-शक्ति के से हैं। जहाँ दोनों का मिलाप होता है, वहीं फसल अच्छी आती है। इस लिए यदि नामदेव जी ने तुकाराम के कुल का-मा, एक-दो ही नहीं पर पीढ़ियों की पीढ़ियों श्री विद्वज्-भक्ति में सना हुआ शुद्ध कुल पसंद किया हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। नामदेव के अवतार की कथा को कल्पना भी मानें तो भी यह कहने में बिल्कुल अत्युक्ति न होगी कि प्रिर्वंभर बाबा से ले कर बोलहोवा तक भगवद्रक्ति एक-सा करनेवाला कुल तुकाराम ऐसे सत्पुरुष को जन्म लेने के बिल्कुल योग्य था।

कनकाई का प्रथम पुत्र सावजी था। पुत्र-जन्म की लालसा स्त्रियों के चित्त में स्वभावतः ही अचिक होता है। बिल्कुल बचपन से ही गुड़ियों का खेल खेलने के समय ही से वह प्रतीत होती है। उम पर भी एक-दो नहीं इक्कीम माल राह देख कर जिस पुत्र का लाभ हुआ हो, उस पुत्र-लाभ का आनंद कौन वर्णन कर सकेगा ? सावजी के जन्म में बोलहोवा और कनकाई दोनों बड़े आनंदित हुए। सून घर में दीप जला। किमी ने कहा "देखो बच्चा कैसी चोर की सी नजर में देखना है।" लड़के-संबंधी ये शब्द सुन माँ-बाप दोनों बोल उठे "नहीं, नहीं; चोर न कहे। हमारा नाल तो माव है।" बम, लड़के का नाम सावजी पड़ गया। मावजी तीन ही साल का था कि कनकाई फिर पेट से रही। कई दिनों की राह देख कर चातक को भी जब भगवान् जल देता है, तब केवल एक ही बूँद नहीं देता। फिर कनकाई-सी साथी स्त्री की इक्कीस साल राह देखने के बाद यदि भगवान् पुत्र दे तो वह भी एक क्यों ? एक ही लड़का जननेवाली स्त्री को भी समार में प्रतिष्ठा कदो ? वह तो फाक बंध्या ही कहलाती है। बंध्यात्व का दुःख दूर हुआ तिस पर भी कनकाई को फाक-बंध्यात्व का तो डर था ही। पर जब दूसरी बार वह गर्भवती हुई, तब तो उस के आनंद की सीमा न रही। उस का निश्चय हो गया कि यह सब श्रीविद्वज्भक्ति का तथा नामदेव जी के अभंग गाने का ही फल है। देर में क्यों न हो, पर आखिर भगवान् प्रसन्न हो हुए। इस कारण उस की विद्वज्भक्ति बढ़ती ही गई। घंटा तक वह अपने विद्वज्भक्ति में भगवान् की ओर ध्यान लगा कर बैठने लगी। श्रीविद्वज्भक्ति का नाम लेना, उसको के भजन गाना, उसी का पूजन करना, उसी के परिक्रमा देना इत्यादि बातों में कनकाई को आनंद आने लगा। श्रीनामदेव जी की ओर तो उस का प्रेम कई गुना बढ़ गया। महीगति ने अपने संत-चरित्र नामक ग्रंथ में यही बात रूपकालकार ने यों बखानी है। 'सायुच्यताभुक्तिरूपी स्वाति-नल्लव के समय कनकाई की उदर-शुक्तिका में नामदेव का प्रेम-जल गिरा और नवविध भक्ति के नौ महीने पूरे होने पर उस सीप में से तुकाराम रूपी मोती पैदा हुआ।'

शिशिर श्रुतु समाप्त होने को थी। जाड़े की पीड़ा कम होने लगी थी। आगामी वर्षंत के शुभ-सूचक चिन्हों का प्रकृति धारण कर रही थी। दक्षिणाशा के कारण जो प्रतापशाली भानु निस्तेज हो गया था, वह शनैः-शनैः उत्तरापथ का आक्रमण करने के

लिए झुक कर अपनी सनेजता बढ़ा रहा था। ऐसे समय माघ महीने की शुक्ला पंचमी को अर्थात् चतुर्थ पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में श्रीतुकाराम महाराज का जन्म हुआ। रघु राजा के जन्मसमय का कालिदास महाकवि ने वर्णन किया है कि “दिशा विमल हुई। सुख-स्वर्श वायु बहने लगा। ऋषि-मुनियों के दिए दुर्बिभाग को अग्निदेव अपनी प्रदक्षिण-ज्वाला से ग्रहण करने लगे।” तुकाराम के जन्म-समय भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि इन सब शुभ-सूचक बातों का कारण रघु राजा के विषयों में जो कालिदास ने लिखा है, वह तो रघु की अपेक्षा श्रीतुकाराम महाराज के विषयों में ही अधिक गत्य है। वह कारण कालिदास के मत से था कि—

भदोहि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्

ऐसे लोगों का जन्म निश्चय पूर्वक संसार की उन्नति के लिए ही होता है। निःसंदेह रघु राजा की अपेक्षा तुकाराम अधिक लोकाभ्युदय करने वाले थे। सारा महाराज उन की प्रासादिक वाणी से उन्नत हुआ।

—————



## तृतीय परिच्छेद

### तुकाराम का संसारसुख

देव भक्त को सुख न दे  
दुखाह सदा बहु देत ।  
सुख में न फँसे, दुःख से  
उन्नत हो, यह हेत ॥

निसर्ग से एक वस्तु पैदा होनी है । जब उस के गुणों से मानव-जाति को लाभ पहुँचता है, तब मनुष्य भी कृत्रिम उपायों से उस को उत्पन्न करने लगता है । ऐसी वस्तु के विकास-काल, विकास-क्रम इत्यादि विषयों का पूरा-पूरा लेखा मिल सकता है । पर निसर्गोत्पन्न किसी वस्तु का तो तब तक अन्वित्व ही ध्यान में नहीं आता, जब तक कि उस के गुणों से लुब्ध हो मनुष्य उस की ओर स्वयं दौड़ कर न आवे । उदाहरणार्थ जब किसी बाग में कोई माली आम का पेड़ लगाता है, तब वह लगाया कब गया, उस में पत्तियाँ कब फूटीं, और कब आया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्या थी, उन में से गले कितने, पके कितने, उन के बेचने से कितनी आय हुई इत्यादि सब बातों का पता चल सकता है । परंतु जब कि नैसर्गिक बन में एकाध रसीला आम फूलता-फलता है, तब तो उस की पहिचान ही तब होती है जब कि भाग्यवश कोई पुरुष उस के चौर की सुगंध से या फल के रस से लुब्ध हो उस की ओर दौड़ा आता है । उस के विषय में यह प्रायः अज्ञात ही रहता है कि उस की पहिचान के पूर्व उस की क्या स्थिति थी । इस हालत का जानकार

काई माली नहीं रहता। उस का पता तो शहर-उधर से आने-जाने वाले लोगों से पूछा-पाछी कर या उस आम की अन्य बातों से अनुमान कर के ही लगाया जाता है। अर्थात् ये सब बातें कई अन्य आगंतुक कारणों पर निर्भर रहती हैं। हमारे सौभाग्य से यदि उन में से कुछ समझ में आ जावें तो, अच्छा ही है। अन्यथा उस के विषय में ऐसी बातों की अपेक्षा उस के सौरभ या रस का ही सेवन करना उचित है। अपनी उज्ज्वल कर्ति से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करनेवाले और पूर्वजों के गुणों से प्रसिद्ध नहीं, प्रत्युत पूर्वजों के तथा वंशजों को अपने ही गुणों से प्रसिद्धिप्राप्त करनेवाले भी तुकाराम महाराज के-से सत्पुरुषों के विषय में भी वही हाल है। संसार में इन की प्रसिद्धि होने से पहले का इन का चरित्र बहुत ही थोड़ा ज्ञात है। फिर भी श्रीतुकाराम महाराज के विषय में कई आधारों से जो कुछ थोड़ी बहुत बातें मालूम हैं उन का वर्णन करना चरित्र-लेखक का आद्य कर्तव्य है। क्योंकि इन्हीं बातों के कारण अग्रिम चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता है। इस परिच्छेद में वर्णन करने के लिए तुकाराम के जीवन का बही काल विभाग चुना है जिस में सांसारिक दृष्टि से लोग जिसे सुख कहते हैं, उस की प्राप्ति तुकाराम को हुई। यह काल-विभाग बहुत बड़ा नहीं है। इस का मान केवल सत्रह वर्षों का है। थोड़ा बहुत खाँच कर इसे इक्कीस साल का कर सकते हैं। पहले सत्रह साल में तुकाराम का सांसारिक दुःख से परिचय ही न था। सत्रहवें वर्ष उन के घर में दो मृत्यु हुईं। एक इन के पिता जी की और दूसरी इन की माषज की। अठारहवें साल इन के बड़े भाई घर छोड़, विरक्त हो, तीर्थयात्रा करने चले गए। इन के बाद दो साल तुकाराम महाराज ने अपनी विगड़ती हुई गिरस्ती संभालने की दिलोजाना से कोशिश की पर नाकामयाब हो उन्हें दिवाला निकालना पड़ा। बस, यहाँ से इन के दिन सांसारिक दृष्टि से फिर, परंतु परमार्थिक दृष्टि से ऐसा कहने में कुछ बाधा नहीं कि उन के अग्रजों चरित्र का यहीं से आरंभ हुआ। इन्हीं बातों का इस परिच्छेद में वर्णन किया जावेगा।

तुकाराम का बाल्य बड़े सुख में बीता। ये अपने माता-पिता के बड़े लाड़ले थे। जैसे तो सभी लड़के माता-पिता को प्रिय रहते हैं। पर जब स्त्री-पुरुष के मन में संतान न होने की इच्छा हो या कम से कम संतान होने की अभिलाषा न हो, तब उपजे हुए संतान के प्रति उन का उतना प्रेम नहीं रहता जितना कि उस संतान के प्रति माता-पिता के मन में रहता है, जिस की प्राप्ति संतान-रहित होने का दुःख ध्यान में आने के बाद ईश्वर की कई बार की हुई मनोरथियों के कारण उन्हें होती है। ज्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बड़ा प्यारा था ही। पर तुकाराम भी कुछ कम न था। तुकाराम के जन्म से मातां दोनों माता-पिता का प्रेम ठीक दो जगहों में बाँटा गया। इन दो लड़कों के लिए जो-जो कष्ट उठाने पड़ते, उन्हें भोल्होवा और कनकाई दोनों बड़े सुख से सहते। तुकाराम महाराज के अभंगमें से भली भाँति जाना जाता है कि उन्हें माता के प्रेम का खूब अनुभव था। माता इन की खूब ही खबरदारी लेती थीं। इन्हें छोड़ उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लगता था। भूख के मारे रोने के पहले ही वह इन्हें दूध पिलाती और खेल में ये यदि भूल भूल जाते तो भी इन्हें समझा कर खिसाती। इन के दुःख से उन का चित्त ऐसा छटपटाता मानों भाव में पड़ा हुआ

जवार का दाना हो। इन का वही सुख उन का सुख था। वह इन्हें तरह-तरह के कपड़े और गहने पहनातीं और प्रेमभरी आँखों से इन्हें देखने न आयातीं। फिर एक दम से 'अति स्नेहः पापशंकी' के न्याय से खुद अग्नी ही नजर पड़ने के भय से पैरों पर बिठा काजल का टीका लगातीं और डीठ निकालतीं। मातृ-प्रेम के इन सब प्रकारों का बर्णन तुकाराम के अर्भगों में पर्याप्त पाया जाता है।

तुकाराम का लाड़ करने के लिए केवल माता-पिता ही नहीं, वरन् इन का बड़ा भाई सावजी भी था। पर तुकाराम किन का लाड़ करे? ईश्वर ने शीघ्र ही इन्हें लाड़ करने के लिए एक छोटा भाई भेजा। कनकाई को यह पुत्र हुआ। उस समय तुकाराम पाँच वर्ष के थे। जिस घर में १६०५ तक बोलहोया और कनकाई दो ही मनुष्य थे उनी घर में आठ साल के भीतर भगवान् की दया से तीन पुत्र खेलने लगे। मँझोला भाई होने का दुःख कई जगह लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण के शुनः शेषाख्यान में जब अजीगर्त ऋषि पर लड़का बेचने का प्रसंग आया, तब निता ने बड़े और माता ने छोटे लड़के को बेचने से इन्कार किया। हरिश्चंद्र के यहाँ उस समय बलिदान दिए जाने के लिए बेचारं मध्यम पुत्र पर ही प्रसंग आया। रामायण में तथा भागवत मध्यम व्यायोग में भी यही बात वर्णित है। पर तुकाराम के अर्भगों से जान पड़ता है कि उन्हें मँझोला भाई होने का कंजल सुख ही मिला। बड़े बेटे को हमेशा बड़ा ही रहना पड़ना है और सब से छोटा भाई कभी सब से बड़ा भाई नहीं हो सकता। पर बीच के भाई को बड़ी मीज रहती है। मन माने तब वह बड़ा बन छोटे को दबकाता है और दिल चाहे तब छोटा बन बड़े भाई की चीन्नें हट से छीन सकता है। तुकाराम को यह सुख बचपन में मूँव मिलता रहा। इन के छोटे भाई को दादा का ही नाम अर्थात् कान्होबा का ही नाम दिया गया था। सावजी, तुकाराम और कान्होबा तीनों बालक बड़े आनंद में दिन बिताने और इन की बाल-लीलाएँ देख बोलहोया और कनकाई अपने को बड़े सुखी और कृतकृत्य समझते।

तुकाराम के अर्भगों से जान पड़ता है कि बचपन में तुकोबा बड़े खिलाड़ी थे। अपनी उम्र के लड़कों को इकट्ठा कर ये कई खेल खेलते। प्रायः उन सब खेलों पर जो महागष्ट में उस समय प्रचलित थे, इन्होंने रूपक बना कर अर्भग रचे हैं। इन अर्भगों में उस समय के खेलों का अच्छा ज्ञान होता है—विशेषतः उन खेलों का, जो तुकाराम प्रायः खेला करते। तुकाराम का सब से प्रिय खेल 'टिपरी' जान पड़ता है। इस खेल में १३ या १७ खिलाड़ी रहते जो दो पक्ष में बाँटे जाते। बच्चा हुआ लड़का बीच में खड़ा रहता और गाता। उस गाने के ताल पर अपने हाथों में टिपरियों से—ताल देने के लिए छोटे छोटे लकड़ी के डंडों से—ताल देने हुए, उम बीच के लड़के के चारों ओर चक्कर लगाते। चक्कर के हर एक लड़के के दोनों ओर उस के प्रतिपक्ष के लड़के रहते। जो कोई ताल देने में चूकता, उसे बीच में खड़ा होना पड़ता और बीच का लड़का उस का स्थान लेता। इस खेल का कौशल टिपरियों में एक नाद में ताल बजाने और ताल के साथ पैर उठाने में है। दूसरे खेल का नाम 'विटीदांडू' है। उत्तर हिंदुस्थान के 'गिलीडंडे' का-या यह खेल था। दांडू याने डंडा और विटी याने गिल्ली। यह खेल कर्नाटक की ओर से आया। इस

खेल में जिन बकट, लेंड, मंड इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है और जिन के अनुसार शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर से गिल्ली डंडे से मारी जाती, वे शब्द कर्नाटकी की भाषा के एक, दो, तीन इत्यादि संख्या के दर्शक शब्द हैं। तीसरा खेल 'चेंडूकली'। इस खेल में एक लकड़ी की पट्टी से गेर उछाला जाता है और बाक्री खिलाड़ी उसे ढूँढ़ते हैं। जो ढूँढ़ लाता है उसे उछालने का हक मिलता है। 'हाल' नाम का खेल तुकाराम के समय में और खेला जाता था। इस में दोनों तरफ के खिलाड़ी अपना-अपना नाम रख लेते। उदाहरणार्थ एक पक्ष के खिलाड़ी अपने को तिल कहने तो दूसरे पक्ष के चावल। फिर एक की आँखें बाँधी जातीं। यह दूसरे खिलाड़ियों में से किसी को छूता और साथ ही यह बताता कि वह तिल है या चावल। यदि ठोक बताता तो छुर लड़के की आँखें बाँधी जातीं, अन्यथा पहले को फिर खेलना पड़ता। 'हुबरी' और 'हुमासा' नामक और भी दो खेल थे। पहले में नाक से साँस नोच छोड़ने कहा जाता था 'हुः हुः हुः' और दूसरे में साँस ऊपर को फेंकते कहा जाता 'हं हं हं'। दोनों खेलों में यही जाँच की जाती कि किस खिलाड़ी की साँस जल्दी टूटती है। जिस पक्ष के खिलाड़ी की साँस टूटती उस का स्थान उसी पक्ष का दूसरा खिलाड़ी लेता। अंत में जिस खिलाड़ी का पक्ष रहता, वही जीतता। 'मृदंगपाटी' या 'आटी-पाटी', 'सोवो' और 'हुनू', तीनों खेल तो महाराष्ट्र में आज भी खेले जाते हैं। क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी इत्यादि विदेशी खेलों के साथ साथ इन देशी खेलों की भी मैचें महाराष्ट्र की शाला-पाठशालाओं में होती रहती हैं। आज जिस सुनियमित रीति से ये खेल खेले जाते हैं, उगी रीति से यद्यपि तुकाराम के समय ये नहीं खेले जाते थे; पर खेलने की सामान्य पद्धति वही थी, जो आज है। 'कुरपोडी' नाम का भी खेल उस समय खेला जाता था। इस में एक और के खिलाड़ी एक दूसरे की कमर पकड़ एक के पीछे एक थोड़े की नाई खड़े रहते और दूसरे पक्ष के खिलाड़ी इन थोड़ों पर कूद या लंबी उछाल ले कर सवार की नाई चढ़ बैठते। छोड़े हुए खिलाड़ी अपना बदन हिसा कर सवारों को गिराने का तथा ऊपर के सवार थोड़ों पर जम बैठ कर उन्हें थकाने का प्रयत्न करते। थक जाने का निदर्शक शब्द कुर था, जिस के कर्त ही उस थोड़े के पीठ पर से सवार उतर जाते।

ऐसे खेल-कूदों में तुकाराम का बचपन देखते-देखते निकल गया। साथ ही साथ बोल्होवा इन लड़कों को निखना-पढ़ना, हिमाय लगाना, जमा-खर्च लिखना इत्यादि भी पढ़ाया करते। तुकाराम की दुर्द्धि इतर भी कम न थी। पर सावजी को इन सब बातों से एक तरह की नफरत सी ही थी। माँ-बाप के साथ भजन करना, अरमंग गाना इत्यादि में ही उन्हें अधिक आनंद आता था। पिता के लाड़ले होने के कारण पहले-वहल इन के पढ़ने-लिखने की ओर ज़रा दुर्जल हुआ जिस का फल यह हुआ कि सावजी पढ़ने-लिखने में विशेष प्रगति न कर सके। बचपन से ही उन का मन विरक्ति की ओर मुका हुआ था। बोल्होवा ने विचार किया 'यदि इस का विवाह हो तो संभव है इस का चित्त संसार की ओर आकृष्ट हो।' यह विचार कर सावजी का विवाह उन्होंने ने उन के पंद्रहवें वर्ष में ही कर दिया और विवाह की हल्दी भी पूरी छूटने न पाई थी कि एक दिन उम्र पास बुझा कर उस के गले में संसार के काम डालने का अपना मनोदय उस पर व्यक्त किया। सावजी ने बड़ी नम्रता से पर

निश्चय-पूर्वक स्वर से जवाब दिया। “पिताजी, मेरा मन तो संसार में विल्कुल नहीं लगता। मन में आता है कि घर छोड़ तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँ और इस मनुष्य-देह को सार्थक करूँ।” पिता ने बहुत प्रकार समझाया पर सावजी ने अपना कहना न छोड़ा। ईश्वर-भजन करने के लिए संसार के धंधों से बोलहोवा पूरा-पूरा छुटकारा चाहते थे। सावजी का उत्तर सुन उन का चित्त व्यथित हुआ; पर यह विचार कर कि यदि अधिक बोलूँ तो वह आज ही घर छोड़ कर भाग जाय, वे सावजी से कुछ न बोले। उन्होंने तुकाराम को बुला कर उस पर अपनी इच्छा विदित की। तुकाराम की उम्र उस समय मुश्किल से तेरह वर्ष की थी। तुकोबा ने बोलहोवा की सब बातें सुनी और पिताजा पालन करने का निश्चय किया। तुकाराम बड़े मातृ-पितृ भक्त थे। उन्होंने माता से प्युछा और जब उस की भी वही इच्छा देखी तो माता-पिता को संतुष्ट करने के हेतु इस छोटे वय में भी उन्होंने पिता की आज्ञा मान्य की। बोलहोवा बड़े आनंदित हुए और उनी दिन से धीरे-धीरे एक-एक काम तुकाराम के सुपुर्द करना उन्होंने शुरू किया।

तुकाराम बुद्धि में कम न थे। बड़ी सावधानी से वे सब बातें समझ लेने लगे और दूकान तथा सावकारी का जमा-खर्च जितवने लगे। साल भर के भीतर-भीतर बड़ी-खाते पर से अरनी लेन-देन तथा सांपत्तिक स्थिति भली भाँति समझने तक तुकाराम की प्रगति हुई। इन की होशियारी से चकित हो हर एक आरामी बोलहोवा से कहता कि बोलहोवा लड़का तो बड़ा होनहार है। बाप का नाम अच्छी तरह से चज्ञावेगा। लड़के की तारीफ़ सुन बोलहोवा के हर्ष का ठिकाना न रहता था। वे तुकाराम को साहूकारी के तथा दूकान दारी के रहस्य समझाने लगे। लेन-देन कैसे करनी चाहिए, रुपया उधार देने समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खरीदी फ़ब की जावे, माल किस भाव से बेचा जावे, अपना मुनाफ़ा उस पर कितना चज्ञाना चाहें, खेती-बारी की और ध्यान कैसे देना चाहिए इत्यादि बातें बोलहोवा दक्षता-पूर्वक तुकाराम जी से कहने और उसी के अनुसार चर्च कर तुकाराम अपनी और अपने धंधे की उन्नति करते। अथ तो सावजी से भी तुकाराम पर पिता का अधिक प्रेम जमने लगा। महाराष्ट्र भाषा के प्रसिद्ध कवि मोरोपंत कहते हैं “निधा प्राप्त की, धन भी कमाने लगा, उन पर भी बाप का कड़ा माने और गिरस्ती का भार अपने तिर पर ले, बड़ी पुत्र पिता को अधिक प्रिय होता है।” अथ उन्होंने वे बड़े ठाट से तुकाराम की शादी की। बहू का नाम रत्नमाई रखवा गया। पर थोड़े ही दिनों में यह समझने पर कि इस रत्नमाई को साँभ की धीमारी है, बोलहोवा बड़े दुखी हुए। लड़के के गले में क्या आकृत बाँध दी। इस बीमार लड़की के साथ उस संसार-मुख क्या और कैसे मिले इत्यादि चिन्ताओं से बोलहोवा का जी व्याकुल होता। इन पिता-पुत्रों का और खास कर ऐसी छोटी उम्र में ऐसी चतुरता से और सावधानी से सब काम-काज संभालनेवाले तुकाराम का नाम पूना प्रांत के साहूकारों में खूब प्रसिद्ध हुआ और साथ ही साथ इस विवाह की बात भी चारों ओर फैलने लगी। इस हालत में पूने के अण्णाजी गुठवे नामक एक साहूकार ने अपनी अचली नाम की कन्या तुकाराम को देने का प्रस्ताव जब बोलहोवा के सम्मुख किया तो बोलहोवा ने यह मौका हाथ से न जाने दिया। उन्होंने अण्णाजी का

कहना मान लिया और अपने वय के सोलहवें वर्ष में ही दूसरा विवाह कर के तुकाराम द्विपत्नीक हो गए। उन की इस दूसरी पत्नी का नाम त्रिजाई रक्खा गया।

इस के बाद के दो साल सांसारिक दृष्टि से तुकाराम के जीवन में परम सुख के थे। पिछले सुखपूर्ण जीवन-विभाग की बातें करते हुए भीरामचंद्र के मुख से, पत्थर को भी कलानेवाले भवभूति कवि ने कहलाया है कि “पिताजी के जीवित रहते नव-परिणीत स्त्री के साथ माताजी की देखभाल में जो दिन हम ने सुख से बिताए, वे दिन अब फिर कभी न आवेंगे।” श्रीतुकाराम जी के जीवन में सुखपूर्ण ये दो साल जो बीते उन के विषय में ठीक यही भवभूति की उक्ति जमती है। केवल दो ही साल माता, पिता, भाई, भावज, पत्नी इत्यादिकों से भरे घर में श्रीतुकाराम महाराज ने सुख प्राप्त किया। इन्ही समय रत्नुभाई से इन्हें एक पुत्र-रत्न की भी प्राप्ति हुई। यह समझ कर कि संतों ही की कृपा से यह सब वैभव प्राप्त हुआ, बोलहोवा ने अपने नानी का नाम संताजी रक्खा। अब बोलहोवा को कमी क्या थी? घर में अनुकूल स्त्री, किसी बात की कमी नहीं, विद्या-विनय इत्यादि गुणों से युक्त पुत्र और तिस पर भी पुत्र का पुत्र हुआ! फिर यदि किसी संस्कृत कवि के कथनानुसार बोलहोवा के मन में आने लगा कि अब ‘सुरवरनगरे किमाधिक्यम्’—अब स्वर्ग में क्या अधिक सुख है, तो आश्चर्य ही क्या? पर जान पड़ता है कि दोनों से यह सुख न देखा गया और मानो यह दिखलाने के लिए कि स्वर्ग में क्या विशेष है, वे बोलहोवा को मृत्युलोक से उठा कर स्वर्ग ले गए। उन की उम्र हो चुकी थी। सब प्रकार के सुखों का भी उन्होंने उपभोग लिया था। इस लिए वास्तव में उन की मृत्यु अश्रोण्य ही थी। पर कहावत है कि ‘बूढ़े के मरने का डर नहीं पर काल घर देख जाता है’। और तुकाराम के विषय में यह कहावत बिल्कुल ठीक निकली। जिस काल ने आज लगभग चालीस साल तक बोलहोवा के घर में प्रवेश नहीं किया था, वही काल सन् १६२५ में केवल बोलहोवा ही को न उठा ले गया, पर कुछ ही दिन बाद सावजी की पत्नी को भी ले गया।

पिता की मृत्यु से तुकाराम बड़े दुखी हुए। जिन्हें संतुष्ट करने के हेतु उन्होने ऐसी छोटी उम्र में इतना भार अपने सिर पर लिया था; दिनरात कष्ट उठा कर सब प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों को सहा था, उन के चले जाने पर तुकाराम पर तो मानों आकाश ही फट गया। सिर पर संभालनेवाला अब कोई न रहा। बड़े भाई की तो बात ही क्या! वे तो पहले ही से फूट-धरे थे। घर में रहे तो केवल पिता के अनुरोध से। उन का दिल तो संसार में था ही नहीं। अब तो पिताजी का भी काल हो गया और पत्नी के मरने से विवाह की भी पैरों में से बेड़ी छूटी। अब कोई ऐसा पाश न था जो सावजी को घर में रखे। उन की उम्र तो वैसे बहुत बढ़ी न थी। आजकल तो बीस वर्ष के लड़कों के क्या कई लड़कियों के भी विवाह नहीं होते। यद्यपि वे दिन दूसरे थे तथापि चाहते तो वे फिर विवाह कर सकते थे पर उन्हें संसार की परवाह ही कहाँ थी। कालिदास के कथनानुसार वे उन मूर्ख पुरुषों में से एक न थे जो अपने प्रियजन की मृत्यु को हृदय में चुभे शल्य सा समझते हैं, प्रत्युत वे उन विद्वानों में से एक थे जो अपनी स्थिर बुद्धि के कारण प्रीति को इस संसार में मनुष्य को जकड़नेवाली कील समझते हैं और जो प्रियजन का

नाश होते ही समझते हैं कि वही कील सुलभतया उखाड़ कर वे संसार-पारा से मुक्त हो गए। यही समझ कर सावजी ने तुकाराम और अपनी माता से नीधं करने की अनुमति ली और वे घर में बाहर निकल पड़े। वे फिर कभी घर में आए ही नहीं। श्रींहरेश्वर, नागनाथ, वैतनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, गोहर्षेश्वर, केशरेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, महाबकेश्वर और रामेश्वर का दर्शन कर वे आखिर बाराणसी जा कर रहे और वहीं उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया।

पाठक स्वयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि पिता और बड़े भाई के लूट जाने पर तुकाराम की क्या अवस्था हुई होगी। जन्म से इन्हें दुःख का नाम भी ज्ञात न था। पर जब वह आया तब इस प्रकार से। दुःख के बाद सुख की प्राप्ति ऐसी मालूम होनी है जैसे अंधियार के बाद रोशनी। पर सुख के अनंतर जब दुःख उठना पड़ना है, तब तो बड़ी मुश्किल ही है। खरे धीरजवाले पुरुष की परीक्षा इमी समय होती है। तुकाराम जी इस परीक्षा में पूरे धीरज के उतरे। उन्होंने अपने सब काम बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक संभाले। केवल इतना ही नहीं छोटे भाई कान्होबा का विवाह भी उन्होंने इसी समय किया। यह विवाह बड़े ही समारोह में किया गया। सबमुच कहा जाय तो तुकाराम जी ने इस विवाह में राजसी से अधिक खर्च किया। पर तुकाराम जी करें क्या ? वे बंसे थे। पिता के पश्चान् किया हुआ यह प्रथम कार्य। माता कनकाई अर्द्ध दिन देखी हुई और पत्नी जिजाई तो धनवान की ही पुत्री। माम-बहू दानों की इच्छा के अनुसार खर्च होना था। स्त्रियों के ऐसे प्रसंगों पर इस बात का विचार थोड़े ही रहता है कि किनना खर्च किया जाय। तुकाराम जी की अवस्था बड़ी कठिन थी। बाप की मृत्यु के बाद माता को कुछ कहना भी ठीक न था और यदि वे कहते भी तें माता मानती कब ? खर्च करने के विषय में जिजाई की आँखें तो पहले ही से बड़ी थीं। फिर यदि विवाह में फल खर्च न हुआ हो तो ही आश्चर्य था। और सच पूछो तो सभार में अनभिज्ञ तुकाराम को स्वयं भी इस बात का ठीक ठीक पना कहीं था कि कौन-सा खर्च आवश्यक है और कौन-सा व्यर्थ।

ज्ञान पड़ना है कि दुनियादारों की बातें मालूम न होने के कारण तुकाराम को भी अपनी सांपत्तिक स्थिति का ठीक ठीक अंशज्ञ न था। क्योंकि अगर यह होता तो दुमरे ही साल और बड़े खर्च का जो काम उन्होंने किया, वह वे कदापि न करते। यह काम था माता को साथ ले तीर्थ करना। कनकाई को पदरपुग की यात्रा का आनंद प्रत्यक्ष ही ज्ञात था। नामदेव जी के तीर्थगलि के अभंगों पर ने तीर्थ-यात्रा का आनंद उमे शब्दों में भी विदित था। और अब तो क्या ? प्रत्यक्ष पुत्र ही तीर्थयात्रा के आनंद में भर भूला हुआ था। इस अवस्था में अचरज ही क्या यदि तीर्थ नहाने की और देवों के दर्शन करने की अभिलाषा कनकाई के मन में पैदा हो। माता के अनुरोध से मातृ-भक्त तुकाराम महाराज जननी को साथ ले तीर्थ-यात्रा के लिए निकले। सब में प्रथम समुद्र-मार्ग से वे द्वागका गए। वहाँ भगवान के दर्शन कर गोदावरी तीर नानिक-स्नान आए। पास ही त्र्यंबकेश्वर में निवृत्तिनाथजी के समाधि-स्थान का दर्शन किया। आगे चल कर गोदावरी तीर पर ही पैठण पहुँचे और श्रीकृष्णजी के समाधि-स्थान पर उन्होंने ने पूजा चढ़ाई। फिर मुक्ताबाई

का समाधि-स्थान माणगाँव में देख कर वे देवगिरी गए जहाँ उन्होंने एकनाथजी के गुरु जनार्दन स्वामी की समाधि देखी। ऐसे घूमते-घामते तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। यहाँ के गंगा-यमुना संगम में स्नान कर कौन पुनीत न होना ? त्रिवेणी के तट पर कुछ दिन ठहर श्रीतुकाराम महाराज गया पहुँचे और त्रिष्णुपद पर पितरों के नाम पिंड दे कर उन के श्रद्धों से मुक्त हुए। सब से अंत में वे काशी गए और मणिकर्णिका का स्नान कर श्रीविश्वनाथ की उन्हीं ने पूजा की। इस प्रकार यह लंबी यात्रा समाप्त कर और पास जो कुछ पूँजी थी वह खर्च कर सन् १६२७ के अंत में वे देहू लौटे और फिर से अपना काम संभालने लगे।

महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँवों की साहूकारी बड़ी कठिन है। थोड़े दिन भी दूकान बंद रहे तो दूसरा कोई उत्र के स्थान में जम जाता है। यहाँ के सामान्य लोग बहुत मारीब होते हैं इस कारण साहूकार के बिना उन का चलता ही नहीं। इस लिए थोड़े दिन की अनुपस्थिति भी साहूकार के लिए बड़ी हानिकारक होता है। फिर उपर्युक्त लंबी यात्रा के लिए जो दीर्घकाल लगा उप के बाद यदि तुकाराम को अपनी दुकान बिगड़नी मिली तो आश्चर्य क्या ? फिर भी बड़ी दूकानदारी करनेवाले लोगों का एक यह भी आपत्ति रहती है कि उसी स्थान पर वे छोटी-सी दूकान नहीं चला सकेंगे। ऐसा करने में लोक-लाज आड़ आती है। तुकाराम जी का यद्यपि जान पड़ा कि अपनी सांपत्तिक स्थिति बिगड़ी है, तथापि वे करें क्या ? बीस साल की उम्र, दुनियादारी के दांवपेच से बिल्कुल अनजान, सचाई की पर की नज़र और आदत और जिस वृत्ति में पद-पद पर भूट का काम पड़े ऐसे खोटे लोगों से भरी वैश्य-वृत्ति। उन का जी अकुला उठा। बाहर की बनी-बनाई बात संभालने के लिए अंदर की बात बिगड़ने लगी। घर के गहने बज़ार देखने लगे। उसी में दैव भी प्रतिकूल हो गया। काल किरता है तो सभी बातें किरती हैं। खेती के बैल मर गए और एक-दो अन्धे देनदारों को मृत्यु हुई। जो काम हाथों में ले उसी में घाटा पड़ने लगा। अंत में कर्जों निकालना पड़ा। सखुरे को सिफारिश से कर्जों निकाला, पर कुछ नहीं हुआ। जिधर देखो उधर नुक़सान ही नुक़सान नज़र आने लगा। दुनिया तो दुरंगी ही ठहरी। जो लोग कुछ साल पूर्व तुकाराम जी को तारीफ़ करते थे वे ही अब उन का मज़ाक उड़ाने लगे। लेनदारों का भरोसा उठ गया और सबों ने अपने-अपने कर्जों की रकम माँगना शुरू किया। सबों को एक ही समय दिया कहाँ से जाय ? अंत में एक दिन दिवाला निकला। हाय ! दिवाले से बच कर इज्जतदार आदमी को दूसरी कौन-सी बात दुखदाई हो सकती है ? इस से तो मौत भी बेहतर। असली मौत तो केवल देह को ही बिगाड़ती है पर यह मौत तो केवल शरीर से भी भली कीर्ति को भी कलंकित कर देती है। हो गया, तुकाराम का संसार सुख इस प्रकार समाप्त हुआ !



## चतुर्थ परिच्छेद

### तुकाराम विरक्त कैसे हुए ?

दुःख विरक्ति का मूल है  
शाखा पश्चान्ताप ।  
ईश भक्ति का पुण्य है  
फल है मुक्ति अत्राप ।

गत परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि तुकाराम महाराज को दूकान का दिवाला कैसे निकला । जो लोग पहले ही तुकाराम की निंदा करते थे, उन के बोलने की तो अब सीमा न रही । तुकाराम जी को मुँह दिम्बलाने के लिए भी स्थान न रहा । दुनिया की अनेक आपत्तियों में 'सब से प्रबल जाति अपमाना' की आराति से तुकाराम महाराज के सांसारिक दुःखों का आरंभ हुआ । यहाँ से उन की दुःख-परंरा बढ़ती ही गई और इसी कारण तुकाराम जी का मन संसार में ऊब उठा और उन्होंने परमाथे का पथ ग्रहण किया ये दुःख यदि उन पर न आते, तो तुकाराम का जीवन अन्य सामान्य मनुष्यों की नाईं न्यतीत होता और आज जो महाराष्ट्र भर में इन के नाम का डंका बज रहा है, वह न बजा होता ।

दुःख में एक चट्टा भारी गुण है । वह सुख की निःभारता दिखाता है । जिस सुख के लिए मनुष्य का मन छटपटाता है, जिसे मिलाने के हेतु वह दिन की रात और रात का दिन करता है, वह सुख शाश्वत नहीं है । प्रायः वह सुख मिलता ही नहीं  
२८ ]

और यदि भिलता भी है तो उस के उपभोग के आनंद की इंद्रियों को प्राप्ति होते-होते ही बड़ अदृश्य होने लगता है। संसार के सुखों की निःसारता इस प्रकार समझ पड़ती है और निःसारता समझने से उन के प्रति आसक्ति नहीं रहती। ऐसे अज्ञात सुख मिलाने के लिए फिर मनुष्य भले-बुरे काम करने के तैयार नहीं होता अर्थात् उन के विषय में विरक्ति उत्पन्न होती है। वह विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक समय अवश्य उत्पन्न होती है। केवल दुःख की बात यही है कि यह भावना बहुत काल ठहरती नहीं। अमलतास के मीठे बीज खा कर जुलाबों से पीड़ित बंदर की तरह मनुष्य ये बुरे काम न करने का निश्चय प्रति दिन करता है, परंतु इंद्रियों का और उन के उपभोग विषयों का सक्रिय होते ही धीरे-धीरे अपना निश्चय भूल कर फिर वही कर्म करने लगता है। वैराग्य इस प्रकार उपजता है और फौरन ही नष्ट भी होता है। जो सत्पुरुष दुःख के कारण से पूरे-पूरे विरक्त हो जाते हैं और फिर कभी उन सांसारिक सुखों की ओर जरा भी नहीं देखते, वे ही श्रोतुकाराम महाराज की-वी संसार में प्रसिद्धि पाने हैं और उन्हीं के चरित्र-चित्रण करने के हेतु लेखकों की लेखनी अपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रवृत्त होती है।

दिवाला निकलने के दुःख में तुकाराम महाराज दुखी अवश्य हुए पर सांसारिक सुखों की ओर से पूर्णतया मुँह मोड़ने के लिए केवल इतना ही दुःख पूरा न पड़ा। आज तक क्या कम लोगों के दिवाले निकले हैं, या आज भी हर साल सैकड़ों लोग क्या अपना दिवाला नहीं निकालते ? पर इन के पैसे के दिवाले के साथ ही इन की सारासार-बुद्धि या विवेक का भी दिवाला निकल जाता है। तुकाराम महाराज का दिवाला निकलने में उन का दोष बहुत ही कम था। उन्होंने अपना कर्तव्य-पालन करने में त्रुटि न की थी। इन लिए दिवाला निकलने के बाद फिर से वे छोटी-सी दाल-आटे की दूकान ठाट कर अपना काम करने लगे। इस के बाद की आपत्तियाँ यदि उन पर न गिरती तो बहुत संभव था कि अपनी मिहनत और सचाई से वे अपनी पूर्वस्थिति शीघ्र ही प्राप्त कर लेते। परंतु दूसरे ही साल उन पर एक ऐसा संकट आया जिस के कारण अपनी बिगड़ी रहस्यी सुधारने की उन की आशा मूलतः नष्ट हो गई और उन का चित्त सांसारिक सुखों से पूर्णतया उठ गया।

यह आपत्ति एक घोर अकाल के रूप में आई। जिस साल उन का दिवाला निकला था उसी साल बरसात बहुत कम हुई। इस लिए सभी कीर्तों मँहंगी हो रही थीं। पर दूसरे साल अर्थात् सन् १६३० में मेघराज ने अपनी अर्खें विल्कुल ही मुँह लीं जिस कारण से महाराष्ट्र भर में हाहाकार मच गया। यह वर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में बड़े भारी अकाल के कारण प्रसिद्ध है। उस साल बारिश विल्कुल ही न हुई। हरे घास का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। जानवर मरने लगे। जो कुछ बचे उन में हड्डियों के सिवाय और कुछ न बचा। पानी पीने के लिए भी पर्वत न रहा। अनाज का भाव एक होन को चार सेर यानी आज के दिसाव से रुपया सेर हो गया। अनाज के दाने-दाने के लिए लोग तरसने लगे। रोटी के टुकड़े के लिए जानवर बेचे गए। मवेशियों की तो बात ही क्या, हजारों

माताओं ने अपनी गोद के बच्चे तक बेच डाले। सब तरफ के फल और मूल कूट-कूट कर आटे में मिलाए गए। और तो क्या, हड्डियों को भी कूट-कूट कर लोगों ने आटे में मिलाया। अबदुज हमोर लाहौरी अपने बादशाहनामे में इस अकाल का बयान करते-करते हुए लिखता है कि “आखिरकार अकाल इस हद को पहुँचा कि आदमी आदमी को खाने लगे। पुत्र-प्रेम छोड़ कर अपने बच्चों को खाने में भी लोगों ने कमी न की। मिथर देखें उधर लाशों की ढेर नज़र आने लगी।” श्रीमथरं रामदास स्वामी जी ने भी इस दुर्भिक्ष का यों वर्णन किया है कि “जमीन के सिवाय और कुछ बाकी न बचा। (अर्थात् जमीन पर जितनी चीज़ें दीखतीं, वे सब लोग खा जाते; केवल मिट्टी बाकी बचती।) लोग अपना स्थान छोड़ कर भागे। जो वहीं रहे, उन में से हज़ारों जगह की जगह पर ही मर गए। कुछ लोग स्वधर्म छोड़ विधर्मी बन गए। कई ज़हर खा कर और कई पानी में डूब कर मर गए। प्रेतों को न कोई जलाता न लाशों को कोई दफ़नाता। बैसी की बैसी ही पड़ी रहती।” उपर्युक्त वर्णनों से पाठक स्वयं इस भयंकर दुर्भिक्ष की संभावना कर सकते हैं।

इस भयंकर अकाल में तुकाराम के दुःख की सीमा ही न रही। जहाँ बड़े-बड़े साहूकारों की भी दुर्दशा हो गई, वहाँ बेचारे दाल-आटा बेचनेवाले तुकाराम की बात ही क्या? दिवाला निकल जाने से बाज़ार में उस की साख तो यी ही नहीं। अब तो उसे कोई अपने दरवाज़े पर खड़ा न करता। बाहर इज़त नहीं, घर में खाने के लिए दाना नहीं। इस दुर्दशा में तुकाराम का सब कुटुंब था। उस की प्रथम पत्नी रखुमाई सब से पहले भूख से मरी। पहले ही साँस की बीमारो से वह जर्जर थी। वह जानती थी कि उस के पास से तो तुकाराम को सुख की प्राप्ति थी ही नहीं, केवल था तो उस का भार ही तुकाराम के तिर पर था। एक पुत्र रत्न दे कर वह पति के श्रेष्ठ से मुक्त हो चुकी थी। इस लिए बहुत संभव है कि घर में जो कुछ दाना आता हो वह सब दूसरों को विशेषतः छोटे संताजी को दे, वह खुद भूखी रहती होगी। अंत में बेचारी ने एक दिन राम कह दिया। तुकाराम को पत्नी की इस मौत से बड़ा भारी दुःख हुआ। रखुमाई यद्यपि रोमिणी थी, तथापि स्वभाव से बड़ी सरल और मधुर थी। तुकाराम की उस पर बड़ी प्रीति थी। इस अकाल में तुकाराम ने उ.उ. की जो पुत्र-प्रीति देखी, उस का वर्णन उन्हों ने एक अंश में किया है। वे कहते हैं, “लड़का माता के प्रति निश्चुर होता है, पर वह उस की ओर प्रेम से ही देखती है। खुद प्यास-भूख सब सहती है, पर उस को संतुष्ट रखती है। उस के दुःख से घबरा कर अपनी जान देना चाहती है, और उस के नाम से दौड़ आ कर अपने प्राण छोड़ देती है।”

रखुमाई की मृत्यु के बाद संताजी के विषय में तुकाराम को बड़ी चिंता आ पड़ी। मातृहीन बच्चे को संभालना मुलम काम नहीं था। दिन भर तो किसी न किसी प्रकार कुछ न कुछ खाने को जुटाने की चिंता और रात में संताजी को संभालने की क्लिष्ट। लड़का हमेशा माँ का नाम ले कर रोता और तुकाराम के गले लग कर माँ के पास ले जाने का इठ भरता। इतने छोटे बच्चे की सम्भक ही क्या? अगर कोई कहता कि ‘माँ देव के घर गई’

तो वह भी कह उठता कि 'मुझे भी वहीं ले चलो'। पर कोई उसे ईश्वर के यहाँ ले कैसे जावे ! उस के दुःख को देख और माता के बिना उसे छूटपटाता देख तुकाराम जी का मृदु हृदय, पानी-पानी हो जाता। अंत में ईश्वर को ही उस पर दया आई और वही उसे माता की मेंट करने के लिए उठा ले गया। अब तो तुकाराम के दुःख का ठिकाना न रहा। तुकाराम का प्रेम इन्हीं माँ-बच्चे पर था। माँ के मरने से तो दुःख हुआ ही था, पर अब बच्चे के मरने से तो मानों जीवन-सर्वस्व ही नष्ट हो गया। जिस के हाथों से अपनी उत्तर-क्रिया की आशा करनी चाहिए उसी पुत्र का अंत्यविधि करने का प्रसंग तुकाराम पर आया। तुकाराम जी के धीरज की मानों ईश्वर सब प्रकार से परीक्षा ले रहा था।

कहते हैं कि मनुष्य पर जब संकट आ गिरते हैं, तब वे एक साथ ही आ गिरते हैं। प्रिय पत्नी और प्राणों से भी प्रिय पुत्र का दुःख तुकाराम जी भूले भी न थे कि काल-पुरुष ने इन पर और एक आघात किया। जो तुकाराम को ईश्वर-स्वरूप थी, जिसे संतोष देने के लिए तुकाराम दिन-रात यत्न करने थे, जिस ने उन का सब प्रकार पालन-पोषण किया था, जिस से विद्वल-भक्ति का आनंद प्राप्त होता था और जिस की सेवा तुकाराम अपना परम धर्म समझते थे, वह उन की प्रिय माता कनकाई उन्हें छोड़ स्वर्गलोक सिधारी। इस प्रकार एक वर्ष के भीतर तुकाराम के घर में तीन मौतें हुईं। इस का परिणाम यह हुआ कि मानवी जीवन की नश्वरता तुकाराम भली-भाँति समझ गए। ईश्वर की भी मानों यही मनीषा थी। क्योंकि इस के बाद तुकाराम के जीने जी उन के घर में एक भी मृत्यु न हुई। इन सब दुःखों का असर नष्ट होने के बाद, इस जीवन-विभाग का सिंहावलोकन करते हुए तुकाराम जी के मुख से एक अभंग निकला, जिस में आप ने इन सब मौतों का उल्लेख कर यह दिखाया है, कि हर एक मृत्यु का उन के मन पर क्या परिणाम हुआ था। आप कहते हैं, "जब पिता जी मरे, तब तो मुझे न कुछ ज्ञान था न संसार की कुछ फिक्र थी। स्त्री मरी तो बेचारी मुक्त हो गई। ईश्वर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया। लड़का मरा तो उस से भी अच्छा हुआ क्योंकि उस से मैं पूरा-पूरा प्रीति-रहित हो गया। जब अंत में मेरे देखते-देखते माता भी मर गई, तब तो सारी ही चिंता दूर हो गई। विठोबा, अब तो राज्य केवल तुम्हारा हमारा ही है। यहाँ अब दूसरे किनी का काम नहीं है।"

इस प्रकार पाँच ही साल के भीतर तुकाराम जी के सब सांसारिक दुःखों की होली जल गई। जिस तुकाराम को अपनी उम्र के सोलहवें वर्ष तक दुःख की कलक भी न लगी था, वही तुकाराम पाँच वर्षों में सब प्रकार के सांसारिक तारों से जल उठा। द्रव्य और मनुष्य दोनों की हानि हुई। पैसा गया, इच्छत भी गई और पिता, पत्नी, पुत्र और माता सदा के लिए ही छोड़ गईं। घर में केवल तुकाराम और उन की दूमरी स्त्री जिजाई तथा कान्होबा और उन की स्त्री—इतने ही लोग रह गए। तुकाराम पर प्रेम करनेवाला कोई न रहा। यदि जिजाई मृदु स्वभाव की तथा प्रेमभरी होती, तो इस समय वह तुकाराम को अपनी मधुर, रसभरी वाणी से समझाती और संसार से कँदराया हुआ तुकाराम का मन पुनश्च संसार की ओर खींच लाती। पर जिजाई का स्वभाव बड़ा मानी, तीला और कठोर था। धनी पिता की पुत्री और अपनी अपेक्षा शरीर घर में न्याही हुई। जिजाई को प्रति

द्वय पिता के घर के सुखों की याद आती और साथ ही इस घर के दुःख दीखते। मन ही मन इन सुख-दुःखों की यह तुलना करती और विचार करती कि ये दुःख के दिन कैसे मिटें, और फिर सुख कैसे मिले। तुकाराम का चित्त संसार से उठता हुआ देख वह बड़ी दुःखी होती। इसी दुःख से वह तुकाराम को कठोर बातें कहती। हेतु यह कि तुकाराम का चित्त ठिकाने पर आवे। पर इस की कर्ण-कटु बातें सुन उन का जी बहलने के बजाय अधिक ही बहकता। श्री के तीये भाषण सुन तुकाराम मन में बड़े दुखी होते और विह्वल-विह्वल करते बैठ जाते। श्रीविह्वल के चरणों पर उन का मन एक-सा आसक्त कराने का पुण्य अधिकांश में जिजाई ही को है। कई बार जिजाई के हृदय-मेदी शब्दों के कारण वे लजाते और धीरज बाँध कुछ न कुछ करने का निश्चय करते।

अंत में दूकान का काम कान्दोषा के सुपुर्द कर, स्वयं एक व्यापारी का गहला दूसरे गाँव को पहुँचाने का काम तुकाराम जी ने करने का निश्चय किया। बैलों पर बोरियाँ लादी गईं और बैलों के हाँकने-हाँकते तुकाराम महाराज घर से निकले। आखिरी दिन समय काटने के हेतु श्रीविह्वल का भजन गाना शुरू किया और गाते-गाते उम्मी में तुकाराम महाराज की लौ लग गई। पर इतने में या तो कोई एक बैल पर की बोरियाँ उड़ा ले गया या बैल ने ही वे कहीं गिरा दीं। मुकाम पर पहुँच कर देखने लगे तो एक बैल खाली। माल पहुँचाने का भाड़ा मिलने के बजाय उलटे बोरियों के दाम ही गाँठ से देने पड़े। बाहर लोग इन की बेकूफी की और इन विह्वल-भजन की हँसी उड़ाने लगे और घर में जिजाई जान खाने लगी। तुकाराम ने निश्चय किया कि अब ऐसी गारिबी न करनी चाहिए। पर अब इन्हें माल पहुँचाने के लिए देवे कौन ! आखिर एक बार धर-उधर से थोड़ा पैसा जमा कर इन्होंने मिरच खरीदी और घाट के नीचे कोंकण में बेचने ले गए। कोंकण प्रांत महाराष्ट्र में मय से निर्धन है। सिवाय चावल के यहाँ और कुछ नहीं होता और वह भी इतना कि मुश्किल से छः महीने पुरा पड़े। बाक़ी सब माल घाट पर से ही आता है। ऊपर का माल नीचे कोंकण में ले जा कर बेचने का काम हज़ारों घाटी लोग करते हैं। पर कोंकण के लोगों से व्यवहार करने में बड़ी चतुरता चाहिए। उन्हें तो एक-एक पैसा बड़ी कीमत का होता है और इसी कारण पैसे-पैसे का फ़ायदा वे ताकते रहते हैं। तुकाराम-सा सीधा-सीधा आदमी उन के साथ व्यवहार कैसे करे ? इन संमिरच का भाव पूछा गया। सच्चाई से दूकानदारी करने गले तुकाराम महाराज ने सब भाव बतलाया। खरीददार फ़ौरन ताड़ गया कि मामला पोला है। घाट ऊपर की तौल और कोंकण की तौल में फ़रक रहता है। भाव और तोल दोनों में धोख दे कर उस उत्पाद ने इन्हें खूब ही फँसाया। साथ ही जो कीमत देनी थी वह नक़द हानों में न दे सोने के रूप में दी। समझाया गया कि होनों की अपेक्षा उसी कीमत का सोने का कड़ा ले जाना कम फोले का है। सीधे तुकोबा इस बान को मान सोने का कड़ा ले घर आए। पर देखते हैं तो कड़े का ऊपरी भाग सोने का पर भीतर भा पीतल। इस प्रकार इस व्यवहार में भी ऋज्विहत के सिवाय कुछ हाथ न लगा। जिजाई ने बाक़ुपणों से महाराज की खूब पूजा की और उन्हें कई नेपथ्य पाठ पढ़ाए।

थोड़े ही दिनों में तुकाराम जी के एक लड़की हुई। उस का नाम काशी रखला गया। काशी का जन्म पूने में आने नाना के घर में हुआ। वहाँ तुकाराम के विषय में पिता-पुत्री में कई बातें हुई होंगी। अप्पाजी तो तुकाराम के विषय में बिल्कुल निराश ही हो बैठे थे। वे जान चुके थे कि सासारिक बातों में जमाई परे वे-अकल हैं। पर उन के सामने जिजाई यह बात कैसे मानती ! वह स्वयं तुकाराम को मनमाना कहती पर दूसरों के, खास कर मायघर के लोगों के वे ही शब्द उसे बुरे लगे। तुकाराम की तरफ़दारी उस ने की; घर की कठिनाइयाँ बखानी। अंत में पिता ने फिर से व्यापार करने के लिए जिजाई के नाम से दो सौ होन कड़ा दिए। जिजाई ने घर आने बाद तुकाराम को बहुत कुछ समझा बुझाकर उस मूलधन का नमक खरीदा और तुकाराम को दूर कर्नाटक की ओर वह नमक बेचने भेजा। फिर से एक बार तुकाराम नमक लाद कर निकले। इस समय बड़ी मावधानी से तुकाराम जी ने वह नमक बेच कर सवाई मुनाफा मिलाया। दो सौ का माल ढाई सौ में बेचा। बड़ी खुशी में आनंद से विठ्ठल का भजन करते-करते लौटे। रास्ते में एक जगह एक गरीब ब्राह्मण इन्हे मिला और उस ने इन्हे अपनी कष्ट कहानी सुनाई। उस की दुःख-पूर्ण कथा सुन कर इन का हृदय पसीज उठा। इन्होंने स्वयं दुःख का पूरा पूरा अनुभव लिया ही था। इसी कारण उस के दुःख से ये दुखी हुए और पास का धन बहुतांश में उस की आपत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया। घर आते समय फिर कोरे के कोरे रहे। जिजाई से सब हाल विस्तार-पूर्वक कह सुनाया। आप समझते थे कि वह भी यह बात पसंद करेगी। इस समय तो वे फँसे नहीं थे। कुछ खो भी नहीं आए थे प्रत्युत सत्याच का दान दे पुण्य ही जोड़ कर आए थे। पर जब जिजाई की भली-बुरी बातें सुनी तब आप समझे कि वह कृत्य जिजाई को पसंद न आया। जिजाई का भी क्या दोष था ! और किसी का देना होता तो और बात थी। पर यह था आप का देना। स्त्री को सब से बड़ा दुख होता है मैहर में अपने पति की बुराई सुनने का। अपने घर तो वह खुद मज़दूरी भी करती, पर घर की बात न खोजती थी। उस में भी इस समय डींग मार पिता के पास से पैसे वह लाई थीं। उस ने तुकाराम को खूब ही बातें सुनाईं। तुकाराम भी गुस्से में आ गए और दोनों पति-पत्नी का खूब फगड़ा हुआ। फल यह हुआ कि तुकाराम पूरे-पूरे विरक्त बन, घरवालों के विषय में बेहिक बन गए।

तुकाराम महाराज ने अपने एक अभंग में इन सब बातों का जिन के कारण उन का चित्त ईश्वर-भजन में स्थिर हुआ, यथायोग्य वर्णन किया है। तुकोवा कहते हैं “हे देव विद्वान्, बहुत अच्छा हुआ कि दिवाला निकल गया, बहुत अच्छा हुआ कि दुर्भिक्ष के कारण इतना दुःख हुआ। बड़ा भला हुआ कि स्त्री कर्कश स्वभाव की मिली, भला हुआ कि लोगों में फ़जीहत हुई। बड़ा अच्छा हुआ कि संसार में अपमान हुआ, अच्छा हुआ कि द्रव्य, पशु सब का नाश हुआ। ठीक हुआ कि लोकलाज की परवाह न की और भस्ती-भाँति तेरी शरण आया। इन सब दुःखों के कारण जो परचाचाप हुआ उसी से तेरा चित्तन एक-सा करता रहा और उसी के कारण यह संसार धूँक-सा जान पड़ा।”

वहाँ पर तुकाराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना अनुचित न होगा। इस का ज्ञान न होने के कारण तुकाराम के चरित्र पर कई लोगों की ओर से विवंगति का दोष लगाया जाता है। कई पाठकों को यह देख कर आश्चर्य मालूम होता है कि जिस तुकाराम का हृदय पराई पीर से दुखता था वही तुकाराम अपनी स्त्री के तथा पुत्रों के दुःख की ओर दुर्लक्ष कैसे कर सकता था। जो तुकाराम कामादि षड्विकारों को जीव चुका था उन्हीं को एक के पीछे एक छः अपत्य कैसे हुए। तुकाराम का सब से छोटा पुत्र तो इन के निर्वाण के बाद ही पैदा हुआ था। जो तुकाराम अपने शत्रुओं को भी दुस्तर करना उचित न समझता था, वही तुकाराम अपने अभगों में बिल्कुल प्राम्य और अश्लील शब्दों से अभक्त तथा बुराचारी लोगों को सीधी गालियाँ कैसे सुनाना था। इन सब बातों में से एक भी बात मिथ्या नहीं। पर इस की तुकाराम के टीकाकारों की-सी न तो निंदा करने की आवश्यकता है, न भक्तों का समर्थन करने की। इस ऊरी विवंगति का कारण तुकाराम जी के स्वभाव में है। उन का स्वभाव विचार-प्रधान न था, किन्तु भावना-प्रधान—अत्युत्कट भावना-प्रधान था। जो भावना जिस समय प्रबल होती थी उसी के अनुसार इन का वर्तन होता था। पिता को संतुष्ट करने की भावना जब प्रबल थी तब अपने छोटे बच्चे का विचार न कर उन्होंने संसार का भार अपने तिर ले लिया। माता को संतुष्ट करने की भावना में कान्होबा का विवाह तथा काशी-यात्रा में चाहे जितना रुपया खर्च करने में क्लेश न किया। उस समय यह विचार कि आगे क्या होगा इन के हृदय को स्पर्श भी न कर सका। जब तक कान्होबा छोटे थे और सब का भार तिर पर होने की भावना प्रबल थी, सब प्रकार के दुःख सहन किए और स्त्री की भी मज्जी-बुरी बातें सुन लीं। पर जिस समय यह भावना उठी “कि अब इतना दुख सहने की आवश्यकता नहीं, कान्होबा सब संभाल सकेंगे, मुझसे ये सांसारिक काम ठीक न होंगे, बेहतर है कि अब ईश्वर भजन ही करें” उठे और चल दिए। तुकाराम के चरित्र का यह रहस्य है और यह उन के चरित्र के पद-पद पर दिखाई देता है। इस में संदेह ही नहीं कि तुकाराम महाराज ने काम-क्रोध लोभादि षड्विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया था। पर इस का यह अर्थ न समझना चाहिए कि उन के ये विकार पूर्णतया नष्ट ही हो गए थे। जिस समय ये महाराज उन से लड़ने के लिए खड़े रहते अर्थात् यह निश्चय जानते कि फलाने विकार इस समय मन में न आवे, क्या मजाल थी उस विकार की कि वह उन के सामने दिखाई भी दे। किन्तु अन्य समय जब कि इन के प्रादुर्भाव से कुछ कूपरिग्राम होने का संभव न था वहाँ पर ये उन की ओर दुर्लक्ष्य करते और उन्हें अपना कार्य करने देते।

तुकाराम महाराज ने अपना यह अन्योन्य-विकर स्वभाव एक अभंग में बड़े अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। आप कहते हैं—“हम विष्णुदास मोम से भी गुलायम हैं पर बज्र से भी कठिन हैं। मरे भी हम जिंदा हैं और सोते भी जागते हैं। जो पुत्र जो वस्तु हम से माँगे उसे हम वही दें। भलाई के साथ कोई चाहे तो हमारे कमर की लँगोटी भी खोल ले। पर कोई बदमाश करे, तो उसे लाठी भी फटकारें। मा-बाप से भी अधिक प्रेम करें, पर साथ ही शत्रु की अपेक्षा भी अधिक घात करें। हमारी अपेक्षा न जो

अमृत अन्निक मीठा होगा, न जहर उपादा कड़वा । हैं तो हम सिर से पैर तक मीठे, पर जो जिन की इच्छा हो, वही यहाँ पूरी होगी । भावना-प्रधान पुरुष का यही लक्षण है । जो धुन उस के मन में सवार होती है, उसी के अनुगार वह चलता है । प्रायः सभी बड़े-बड़े लोग भावना-प्रधान ही होते हैं । विचार-प्रधान मनुष्य सामान्य केटि का होता है । वह न इस सिरे पर जाता है न उस भिरे पर । मामूली लों में का-सा साधारण कार्य किए जाता है । पर भावना-प्रधान पुरुष मर्दुरि के कथनानुसार या तो लोगों के सिर पर विराजते हैं या दुनिया के पैरों से कुचले जाते हैं । भगवान् रामचंद्र के विषय में यह देखिए कि जिस सीता के लिए वे वन-वन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी उन्होंने कमी न किया, और त्याग करने के बाद भी उन्हीं का शाक करते रहे, वानंती के मुख से भवभूति ने कहलाया है कि लोकेश्वर पुरुषों के चित्त कौन जान सकता है ? वे वज्र से भी कठिन पर कुसुमों से भी कोमल होने हैं । ठीक यही हाल तुकारामादि सत्पुरुषों का है । जब तक स्त्री की सुनते रहे, तब तक ठीक, पर जब छूटके तो ऐसे कि घर से बाहर निकल गए ।

तुकाराम महाराज घर से निकले, तो सीबे इद्रायणी उतर आठ मील दूरी पर जो भामनाथ का पहाड़ है, वहाँ जा बैठे । वहाँ एकत में विचार किया कि "इस कुटुंब की सेवा-चाकरी करते-करते सांसारिक दुःखों से खूब तपा, पर यह न समझा कि इन से कैम छुटकारा पाऊँ । भीतर बाहर जहाँ देखता हूँ, वहाँ चोर ही चोर नज़र आते हैं । अर्थात् सब अपना ही फायदा तकते हैं, मुझ पर क्या कोई भी नहीं करता । एक दो नहीं कई दिन इन लोगों ने मुझ से मिहनत कराई और मुझे लूटा । मैं तो अब बिल्कुल धवरा गया हूँ । इस लिए हे पांडुरंग, अरी मेरी माँ, अब तो तुम्हारे ही चरणों की याद कर तुम्हारे ही शरण आया हूँ । अब तो तुम्हें ही मुझे उबारना होगा, क्योंकि दीनों को तारने का तुम्हारा प्रण है ।" भामनाथ पर पड़े-पड़े तुकाराम जी एकत में पंद्रह दिन इसी का विचार करते रहे । अंत में उन्हें समझ में आया कि "संसार खोटा है । जब तक उन से लोगों का मुख-प्राप्ति की आशा है, तब तक उन्हें यही तकलीफ बनी रहेगी । पर यदि वे एक बार इस पाश को तोड़ डालें तो न किसी बात की झक-झक पीछे रहेगी, न सिर पर कुछ भार रहेगा । अब तो यही समझना ठीक था कि सब ठीक-ठाक हो गया और यह बलाय टल गई । एक बार इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की अंतर फिर से न फिरेंगे, आप्र का निश्चय कौन फेर सकता था ?

इधर जिजाई भी कुछ कम न थी । वह बोलने में तो फटफटी थी पर साथ ही पतिव्रता भी थी । तुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे बड़ी बेचैनी हुई । प्रायः भड़-भड़े लोगों की यही हालत होती है । मन में जो आया फाड़-काड़ बोल डाला पर पीछे कुछ नहीं । बादल आए, बरस गए, फिर आकाश साफ़ का साफ़ । जिजाई का वह स्वभाव उस के जन्म भर रहा । वह तो भोली-भाली सांसारिक स्त्री थी । उसे न तो तुकाराम की भगवद्भक्ति समझ में आती थी न उन का परोपकार । वह तो एक मात्र यह जानती थी कि उस के पड़ोसियों का संसार जैत्रे होता था, जैसे उस का होना चाहिए । पिता के घर में जिस सुख में वह थी, उन्हीं प्रकार के सुख की वह तुकाराम से आशा करती थी । उस सुख की प्राप्ति



न होती देख उस का जी जलता और वह तुकाराम से खूब लड़ती। हेतु यह कि तुकाराम महाराज भी अन्वय संसारी पुरुषों की तरह संसार के धंधे अधिक सावधानी से करें। पर तुकाराम के प्रति उस की भक्ति कम न थी। वह भी पराकोटि की थी। विसंगति की दृष्टि से देखा जाय तो जिजाई के ही स्वभाव में वह दोष अधिक था। इधर खूब मनमाना बोलना और इधर तुकाराम भूले रहे, तो स्वयं भी भूखा रहना। यह क्रम उम साध्वी का आखीर तक रहा। इस लिए तुकाराम के निकल जाते ही वह बड़ी बेचैन हुई। वह जानती थी कि तुकाराम के पास खाने-पीने के लिए या ओढ़ने-पहिनने के लिए कुछ न था। इस कारण उसे बड़ी चिंता पड़ी और उस ने तुकाराम जी को सब जगह तलाश करवाया। इद्रायणी का तीर, बल्लाल का बन, भंडारा और गोराडा पहाड़ सब स्थान ढूँढ़वाए। अंत में भामनाथ पर तलाश करने के लिए कान्होबा को भेजा। कान्होबा से और तुकाराम से भेंट हुई। बड़े भाई ने अपना निश्चय प्रकट किया। यह मोच कि इस समय बोलने में कुछ लाभ नहीं, कान्होबा चुप हो रहे और उन्हें घर ले आए। जिजाई को आनंद हुआ।

कुछ दिन ऐसे ही गए। अब तुकाराम रहने तो घर में पर वं पर का काम कुछ न करते। उन का कार्य क्रम अब निश्चित-सा ही था। प्रातःकाल उठ कर श्रीविठ्ठल का पूजन करना, कहीं एकान्त स्थल में जा कर ज्ञानेश्वरी या नाथ भागवत का पारायण करना, और रात को जहाँ-कहाँ हरिकीर्तन हो वहाँ जा कर हरिगुण और हरिदासों का प्रवचन सुनना। संसार का अब एक भी काम वे न करते। कुछ दिन जिजाई न धोली। पर धीरे-धीरे फिर बोलना शुरू हुआ। परंतु अब गिनति पलट गई थी। इस विचार से कि ये फिर उठ कर न चले जायें, वह कम बोलती। इधर तुकाराम को भी अब उस के बोलने से न लज्जा आती न क्रोध। अगर आती तो केवल हँसी। जिजाई भी उन्हें अब और कुछ न कहती। यदि कहतीं तो बोलोना के समय जो लोग इन के यहाँ से कर्ज ले गए थे, उन के यहाँ से केवल कुछ धन वसूल कर लाने को कहतीं। कभी-कभी तुकाराम यह काम करते भी।

पर यह काम करते हुए इन का मन दुःखित होने लगा। एक तो धन का विचार मन में अधिक आने लगा। दूसरे देनेदार लोग या तो इन से मुँह छिगाने लगे या झूठ बोलने लगे। यह देख तुकाराम महाराज के मन में विचार उठने लगे कि “यह काम बड़ा बुरा है। ईश्वर की बजाय धन का चिंतन तो मुझे करना ही पड़ता है, पर साथ ही लोगों को झूठ बोलने में भी मैं प्रवृत्त करता हूँ। देने का अनुभव मुझे भी स्वयं है। कर्ज के बोझ ने तो देह भी भारभूत जान पड़ती है। ईश्वर ने मुझे देह दिया है। क्या यह मैं वे ईश्वर से उधार नहीं लिया है? इस कर्ज की अदाई में ही कैसे कर रहा हूँ? जब तक मैं स्वयं इस ऋण से मुक्त न हुआ, तब तक लोगों से उन के कर्ज की अदाई माँगने का मुझे क्या अधिकार?” इस प्रकार के विचार प्रबल होते ही तुकाराम जी ने निश्चय किया कि ये सब कर्जलत इद्रायणी में डुबो दिए जावें। नैराश्य का सुख और आशा का दुःख आप खूब जान चुके थे। इस लिए यह भावना पैदा हुई कि कागज पत्र डुबो देने पर अपना किसी पर हक ही न रहेगा और फिर यह किंक कि वह देगा या नहीं, मन को व्यग्र

न करेगी। जब जिजाई और कान्होबा ने यह निश्चय सुना तब जिजाई तो कुछ न बोली, पर कान्होबा नम्रनापूर्वक बोले, “दादा, आप तो साधु होना चाहते हो। पर मुझे तो अमी परिवार चलाना है। ये सब कागज़ डुबो कर आप मेरा क्या नुक़सान कर रहे हो।” कान्होबा की यह बात सुन तुकाराम चुप हो गए। पर अंत में ख़ुब विचार कर यह निश्चय हुआ कि कागज़ दोनों भाइयों में बाँटे जावें। कान्होबा अपने हिस्से के कागज़ अपने पास रखें और उन के दाम वसूल करें। उन के बाँटे के कागज़ डुबाने का इन्हें अधिकार न था। पर जो कागज़पत्र इन के ख़ुद के हिस्से में आवें, उन पर तो इन का पूर्ण अधिकार था। ये चाहे उस का दाम वसूल करें, चाहे उन्हे नदी में फेंक दे। यह सोच कि ‘सबो को नहीं तो कम से कम मेरे देनेदारों को मैं श्रृणुमुक्त क्यों न करूँ’ तुकाराम जी ने अपने हिस्से के कागज़ लिए और उन्हे इंद्रायणी में डुबो दिया। जिजाई ने सोचा कि कहीं से इन महाराज को वसूलियत का काम करने को कहा !

अब तुकाराम महाराज के पीछे जंजाल सब छूट गया। न इन से कोई कुछ कहता, न ये किसी से कुछ बोलते। ख़तों के कागज़ डुबो देने के बाद तुकाराम जी ने कमी धन को स्पर्श ही नहीं किया। यह व्रत उन्हों ने अंत तक निभाया। जब शिवाजी महाराज ने इन्हे बुलाया और इन को लिया लाने के लिए घोड़ा भेजा और इन्हें कुछ जवाहिर नज़र किया तब भी आप ने वह सब वापस कर जो अमंग श्रीशिवाजी राज को भेजे उन में लिखा कि “धन तो हमें गो-मांस-सा त्याज्य है।” कागज़ डुबो देने के बाद शीघ्र ही तुकाराम महाराज की देह-वासियों पर छाप पड़ गई। वे इन्हें साधु समझने लगे। कुछ सांसारिक लोग तो अवश्य ऐसे थे जो इन के इस कृत्य को बेवकूफी के सिवाय और कुछ न कहते। पर अधिकांश लोगो पर इस का असर अच्छा हुआ। प्रायः जिन लोगों के दस्तावेज़ महाराज ने डुबो डाले थे, उन में से बहुतेरों ने इन का कर्ज़ा श्रदा किया। किसी न किसी रूप में घोड़ा-बहुत कर, जैसा बना, वैसा उन लोगों ने जिजाई को पहुँचाया। जिजाई ने भी इस के बाद तुकाराम से कोई धर का काम करने के लिए कमी न कहा। वह स्वयं ही सब काम देखने लगी। मन में कुट्टती तो अवश्य, जब कमी दुःख असह्य होता तो बोलती भी। पर अब उस बोज़ने में निदा का विष भरा न रहता था। अब उस में अरना दुखड़ा रोने का ही सुर रहता। तुकाराम जी ने तो अब इस विषय में चिंता करना ही छोड़ दिया था। उन का तो निश्चय हो चुका था कि जिस ने ज़ोच दी है, उस ने चुगने के लिए दाना पहले ही पैदा कर रक्खा है। मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं; सब टैव पर निर्भर है। “दैव से ही धन मिलता है और दैव से ही मान। प्रारब्ध से ही सुख होना है और दुःख भी प्रारब्ध से ही मिलता है। इस लिए रे मन, इन बातों के पीछे क्यों पड़ा है, तू तो पंढरीनाथ का भजन कर। दैव ही से तो पेट भरता है, और इसी लिए तुकाराम कमी नहीं चिल्लाता।” वे तो अब इन सब बातों से छुटकारा पा चुके थे। उन्हों ने इस के बाद खाने-पीने की कमी परवाह न की। जो मिले, उसी पर गुज़ारा किया। अब तो इन का भार स्वयं श्रीविठ्ठल ने उठाया था। इन के खाने-पीने की चिंता सदैव जिजाई करती। दोनों बेर जैसा बने, वैसा रक्खा-रक्खा वह उन्हें खिलाती। ये जब पहाड़ों पर जा बैठते, तब भी इन का खाना

स्वयं वहाँ ले जाती या किसी के हाथ भिजवाती। परंतु बगैर इन के साथ खुद कर्मा न खाती।

अब तुकाराम जी को केवल एक ही काम रहा और वह था एक भाव से श्रीविठ्ठल का नाम लेना। तुकाराम समझते थे कि नाम ही ईश-प्राप्ति का साधन है और नाम ही उस का फल है। दोनों साधन तथा साध्य का मूल्य एक नाम ही वे समझते थे। वही नाम लेते हुए वे बड़ी भक्ति से चिल्लाते 'आ री मेरी माँ, आ री मेरी बिठाई'। इस नाम-स्मरण से ही उन को सब कुछ मिला। यह क्या और यह कैसे मिला, इस की साख उन का चरित्र दे रहा है। शठकों को स्वयं ये बातें धीरे-धीरे समझ में आएँगी। यहाँ पर केवल इतना ही कहना है कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देहू के लोगों की तिरस्कार-बुद्धि हो गई थी, वह इंद्रायणी में कानाज बुधाने से बदल गई और वे ही लोग तुकाराम जी की ओर दूसरी दृष्टि से देखने लगे।

---

## पंचम परिच्छेद

### तुकाराम की साधना

तपबल रचह प्रपंच विधाता ।  
तपबल विष्णु सकल जग प्राता ॥  
तपबल संशु करहिं संघार ।  
तपबल सेस धरहिं महि भारा ॥  
तप अघार सब सृष्टि भवानी ।  
करहु जाइ अस तप जिय जानी ॥

वेदांत-शास्त्र में जीवों के चार भेद किए हैं— बद्ध, सुमुक्त, साधक और सिद्ध । जब तक जीव को यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह संसार के पाशों से बंधा हुआ है, जन्म-मृत्यु के भ्रमण-चक्र में फँसा हुआ है, और सांसारिक क्षणिक सुखों से भिन्न कोई नित्य साधन सुख है, वह बद्ध कहलाता है । ईश्वर की माया ऐसी है कि बहुधा जीवों को यह ज्ञान होने ही नहीं पाता । परवशता में सदियों से पड़े हुए लोगों को जिस प्रकार प्रथम यह ज्ञान ही नहीं होता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हैं, प्रत्युत जिस प्रकार वे उस परवशता के अधीन हो अपनी स्थिति के सुख की नाद उमकते हैं, उसी प्रकार अनादि काल से इन संसार पाशों में बँधे जीव को यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह बद्ध है । सांसारिक सुखों में पड़े हुए जीव को प्रायः यह ज्ञान नहीं होता । परंतु जब सांसारिक दुखों की आँच लगती है, चारों ओर जलते हुए वन में जाल में फँसे हरिण की नाईं जब इस जीव पर सभी ओर से दुख आने लगते हैं

और उन से छुटकारा पाने का उपाय उसे नहीं सूझता, तभी यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि वह बद्ध है। तब उस की माया-नींद खुलती है। पर नींद के खुलते ही उस को बद्ध दशा नष्ट नहीं होती। केवल यह ज्ञात होने से कि हम पर-वश हैं, परार्थीनता की अवस्था से मनुष्य या राष्ट्र नहीं छूटता। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या प्राप्त करना है। वह जीव जिसे यह समझता है कि वह बद्ध है और उसे मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुक्षु कहलाता है। तब उस के मन में इन पाशों से छुटकारा पाने की बुद्धि उदित होती है। यह होते ही जिन बातों को वह अपनी बद्धावस्था में हितकर मानता था, वे ही अब उसे दुखकर और त्याग्य मालूम पड़ती हैं। उसे अब ज्ञान होता है कि सामान्य संसारी जीव जिसे सुख समझते हैं, वह अंत में दुःख ही है और मोक्ष चाहनेवाले जिसे सुख समझते हैं वही सांसारिक लोगों की ओर से दुःख माना जाता है। इसी विपरीत बात के विषय में भगवान् कहते हैं, कि “सब प्राणियों की रात में संयमी पुरुष जागता है और जिन स्थिति में प्रायः सब प्राणी जागते हैं, अर्थात् खुला हुआ पुरुष उसी स्थिति में नींद लेता है।” इस दृष्टि-परिवर्तन के बाद स्वाभाविकतया ही मुमुक्षु जीवबंधन-कारक बातों को छोड़ मोक्ष-दायक बातों का ही सेवन करने लगता है। इसी दशा में उम माधक कहते हैं। अंत में माधना करते-करते जब वह पूरी मुक्त-दशा को पहुँचता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। श्रीतुकाराम महाराज इन चारों अवस्थाओं से गुज़रे। पिता की मृत्यु होने तक वे बद्धता की रात में सेते थे। उस के बाद दिवाला निकलने के दिन से इंद्रायणी में काशीज डुबाने के दिन तक वे मुमुक्षु अवस्था में थे। उस के बाद उन्होंने ने साधक दशा में प्रवेश किया। इस अवस्था में सिद्ध-दशा को पहुँचने के लिए उन्होंने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार इस परिच्छेद में करना है।

इस विषय में पाठकों को दूसरे किमी के कथन पर विश्वास लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं श्रीतुकाराम महाराज ने अपने कुछ अभंगों में बतलाया है कि उन्होंने ने क्या साधन किया। यह सब कहने का कारण यह था कि एक बार संनौ ने उन से प्रश्न किया कि “महाराज आप इस स्थिति को कैसे प्राप्त हुए ?” किसी महात्मा को देखते ही सामान्य लोगों को—विशेषतः उन को जो उसी मार्ग से जाना चाहते हैं, यह जानने की स्वाभाविक मनीषा होती है कि किन बातों के आचरण से उस महात्मा को यह महत्त्व प्राप्त हुआ। उन बातों को जान, यथाशक्ति स्वयं आचरण कर, उच्चता को पहुँचने की महत्त्वाकांक्षा ही इस जिज्ञासा का मूल है। यद्यपि हर एक श्रोता उन बातों को आचरण में ला वैसा ही महात्मा नहीं बना सकता है तथापि यह इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है और थोड़ा-बहुत लाभ भी केवल इन बातों को जानने से भी अवश्य होता है। इसी कारण महात्माओं को अपने ही सुख से अपना ही वृत्त कथन करने की इच्छा न होने भी वह कहना पड़ता है। श्रीतुकाराम महाराज तो स्पष्टतया आरंभ ही में कहते हैं कि “ये बातें कहना उचित तो नहीं, पर जब आप ऐसे सज्जन ऐसे निर्वेष से यह पृच्छा करते हैं तो आपकी बात माननी ही चाहिए।” यह निवेदन कर श्रीतुकाराम महाराज ने अपना साधन-मार्ग बताया है। संभव है हर एक पाठक को यह मार्ग पूर्णतया उचित न जान पड़े, या कुछ ऐसी बातें जिन पर तुकाराम जी ने

अधिक भार डाला है बड़े महत्व की न प्रतीत हों। परंतु यहाँ पर ऐसे मार्ग का विचार नहीं करना है जिन से हर एक पाठक के चित्त का समाधान हो या जिस को अनुसरण कर हर एक मनुष्य तुकाराम बन सके। ऐसा सर्व-साधारण मार्ग न कोई विद्यमान है न किसी का उस मार्ग में जाने की प्रबल इच्छा है। जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग आप से आप ही देख पड़ता है। यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि श्रीतुकाराम महाराज ने मित्रावस्था प्राप्त करने के लिए क्या साधना की।

सांसारिक लोग जो काम सुख के समझ कर करते हैं, उन्हें छोड़ देने पर भी इस का निश्चय करना आवश्यक ही है कि क्या करना चाहिए। गीता के कथनानुसार कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अर्थात् एक प्रकार के कर्म न किए जाए तो दूसरे किस प्रकार के करने चाहिए ! उक्त प्रश्न का उत्तर भक्ति-मार्ग यी देता है। जिस प्रकार सांसारिक दशा में हर एक मनुष्य हर एक काम अपने सुख को या अपने कुल को सुख देने के लिए करता है, उसी प्रकार भक्ति की साधक दशा में हर एक काम अपने उपास्य देवता को संतुष्ट करने के हेतु करना चाहिए। इस साधकावस्था में केवल मन से ही ईश्वर कहना पर्याप्त नहीं होता; क्योंकि यह बात इतनी महल नहीं है। यदि एक क्षण भर के लिए ही सांसारिक मनुष्य मन से ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न करे, तो इन बात की कठिनता उस के ध्यान में प्रौरन् आ जायगी। इन्द्रियों का और उन के विषयों का गनिकर्ष होते ही उन का परिणाम मस्तिष्क द्वारा मन पर हुए बगैर नहीं रहता। इसी कारण क्षण-क्षण में मन के चिंतन में बाधा पड़ती है। मन और शरीर का अत्यंत निकट संबंध होने के कारण एक का दूसरे पर परिणाम हुए बिना नहीं रहता। और सामारिक कृत्यों में आसक्त रहने के कारण जो आदमों शरीर को पड़ जाती है उन्हीं का परिणाम मन पर अधिक होता है। अर्थात् यदि दुर्निग्रह और चंचल मन को अपनी इच्छा के अनुचार वश में रख कर इष्ट-कार्य में प्रवृत्त करना हो तो प्रथम शरीर को संभालने से ही आरंभ करना पड़ता है। योग-शास्त्र में यम नियमादिकों का प्राधान्य इसी लिए माना जाता है। इन के साहाय्य से शरीर को वश में लाने के पश्चात् चित्त-वृत्ति का निरोध करना सुगम्य होतः है। भक्ति-मार्ग में भी इसी प्रकार प्रथम शरीर, वाणी और फिर मन को वश में लाना पड़ता है।

श्रीतुकाराम महाराज के मन में भी प्रथम यही आया कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिस से शरीर एक-सा श्रीविठ्ठल की सेवा में मिहनत करता रहे। अतएव उन्हीं ने श्रमना विठ्ठल-मंदिर सुधारने का काम सब से पहले शुरू किया। विरवंभर बाबा के समय में इस मंदिर की दुकस्ती न हुई थी और बीच के दुर्भिक्ष और दुर्दैव के दिनों में तो इस की ओर किसी का ध्यान ही विशेष रूप से न गया था। मंदिर पुराना हो चुका था और कई स्थान पर गिरने का हुआ था। श्रीतुकाराम महाराज ने स्वयं सब प्रकार के कष्ट उठा कर इस मंदिर की मरम्मत करने का निश्चय किया। उन्हीं ने पत्थर जमा किए, मिट्टी ला कर उस का गारा बनाया और सुबह से शाम तक मिहनत कर मंदिर की मरम्मत की। भित्तें नई बनाई, चारों तरफ का अज्ञात तैयार किया और सब स्थान साफ कर नया-सा कर डाला।

इस प्रकार मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही उन्होंने अपनी चित्तवृत्ति को भी सुधारा। भक्ति-मार्ग से काम करने का यही बड़ा भाव है। उदाहरणार्थ यही देखिए। जब कोई पुरुष अपना मकान बनवाता है, तब उस का चित्त उन बातों में अधिक आसक्त रहता है, जो उस घर में आगे होनेवाली हों। इसी प्रकार मंदिर बनाते समय तुकाराम के मन में भी भविष्यत्कालीन दृश्य ही आते होंगे। यहाँ पर भजन करेंगे, यहाँ बैठ पूजन करेंगे, यहाँ संतो के साथ चर्चा करेंगे इत्यादि विचारों में ही उन के दिन बीते होंगे। अर्थात् मकान बनाने का एक ही कृत्य होते हुए, एक का मन सांसारिक बातों से भरा रहता है तो दूसरे का परमार्थिक बातों में। एवं मंदिर बाँधते-बाँधते श्रीतुकाराम महाराज के चित्त में पारमार्थिक विचार, बायीं से हरिनाम का उच्चार और शरीर से ईश्वरार्पित आचार तीनों बातों साथ ही साथ हुईं।

स्वयं मिहिनत कर के मंदिर की मरम्मत करने से उस मंदिर के प्रति तुकाराम जी को अधिक ममत्व मालूम होने लगा। अपनी इच्छानुसार अब भजन-पूजन करना, एकांत में बैठ ईश्वर का ध्यान करना, ज्ञानेश्वरी प्रभृति ग्रंथों का पाठ करना इत्यादि कार्यों के लिए उन्हें अब कहीं दूर जाने का विशेष कारण न रहा। विशेष एकांत के लिए वे कभी-कभी किली पहाड़ पर जा बैठते थे, पर प्रायः उन का बहुत-सा काल अब इसी विद्वल-मंदिर में बीतता था। मंदिर की मरम्मत करने के पश्चात् उन्होंने वहाँ पर एकादशी की रात में कीर्तन करना शुरू किया। एकादशी का केवल उपवास करना तो इन के कुल में पहले ही से था। पर अब वही बात अधिक नियम के साथ और अधिक निष्ठा से होने लगी। जिस प्रकार सभी धर्मों में कुछ न कुछ दिन उपवास के लिए नियत हैं, उसी प्रकार इस वारकरी संप्रदाय में एकादशी की तिथि उपवास के लिए निश्चित है। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन एकभुक्त रह कर, एकादशी के दिन कुछ न खा कर रात भर हरि-कीर्तन भजन कर के द्वादशी को सूर्योदय होते ही भगवान् को नैवेद्य समर्पण कर उपवास छोड़ना होता है। जान पड़ता है कि तुकाराम जी एकादशी के साथ सोमवार का भी व्रत करते थे। क्योंकि उन के ग्रंथों में ये दो व्रत न करनेवालों की कई बार निंदा पाई जाती है। दिन भर निराहार रह कर शाम को शिवपूजन कर सोमवार व्रत की धारणा की जाती है। आज-कल केवल आरोग्यविषयक दृष्टि से ही उपवास की ओर देखा जाता है, परंतु तुकाराम महाराज के समय ये उपोषण के दिन उपासना-विषयक दृष्टि से देखे जाते थे और आज भी भाविक लोग उपोषण व्रत की ओर इसी दृष्टि से देखते हैं। भक्तिमार्ग की दृष्टि से भजन-पूजन के आड़ आनेवाले आलस्य, निद्रा और चित्तविक्षेप को दूर करने में उपवास का बड़ा उपयोग है।

श्रीतुकाराम महाराज ने एकादशी के दिन कीर्तन करना आरंभ किया। आज तक वे अन्य हरिदासों के कीर्तन सुनने जाते थे पर अब उन्होंने ने स्वयं कीर्तन करना शुरू किया। इस का एक कारण तो यह था कि प्रायः बहुत-से कीर्तनकार कीर्तन कर के ही उप-जीविका चतानेवाले होने के कारण केवल बगला भगत होने थे। उन लोगों का चित्त हरिसंजन में रत न होने के कारण उन के कीर्तन का उन के परित्याग भोवाओं के मन पर

इस प्रकार से नहीं होता था। तुकाराम महाराज कहते हैं “प्रायः वक्ता आशाओं से बँधा रहता है और भोता के मन में डर रहता है कि वक्ता कहीं भोता की निंदा न करे। इस का फल यह होता है कि वक्ता खुद ही नहीं समझता कि वह क्या कह रहा है। वह तो खाली इसी लिए गला सुखाता है कि उसे कोई कुछ दे दे। लोभ का विलौटा बन यह घर-घर भील माँगता फिरता है। अगर दोनों—भोता और वक्ता—का मन लोभ से ही भरा है तो वह भजन किस काम का ? यह तो वैसा ही हुआ जैसे बहरे और गूँगे एक जगह ही जमे हों। अनाज तराजू से तौला जाता है और बोरी में भरा जाता है, पर उस का स्वाद न तराजू जानता है न बोरी।” इस प्रकार के कीर्तनों से आरंभ-आरंभ में यद्यपि तुकाराम जी को कुछ आनंद हुआ होगा, पर थोड़े ही दिनों में इस प्रकार के भाड़े के कीर्तनकारों के कीर्तनों से कँदरा गए होंगे। इसी कारण उन्होंने अपने विद्वल-मंदिर में एकादशी के दिन स्वयं कीर्तन करना आरंभ किया। इस विषय में आगे चल कर तुकाराम महाराज ऐसे निपुण हुए कि आप के कीर्तन की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई और श्रीशिवाजी महाराज के-से लोग भी इन का कीर्तन सुनने के लिए आने लगे। इन के कीर्तन का आनंद लोहर्गाव के लोगों ने खूब लूटा। पाठक यहाँ न भूले होंगे कि लोहर्गाव तुकाराम जी की माता कनकाई का जन्मस्थान था। तुकाराम-चरित के लेखक महीपति जी ने लिखा है कि “जिस प्रकार कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा होते भी कृष्ण-प्रेम का आनंद गोकुल के लोगों को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुकाराम महाराज के जन्म-स्थान देहू की अपेक्षा तुकाराम जी के कीर्तनों का आनंद लोहर्गाववालों ने ही अधिक उठाया।” कीर्तन कर के उस के बदले में धन लेनेवाले लोगों के विषय में तुकाराम जी के मन में आखिर तक बड़ा अन्याय रहा। यहाँ तक कि आप ने एक अमंग में साफ साफ कह दिया है कि “कीर्तन के बदले में जो धन लेते हैं वे और उन्हें जो धन देते हैं वे, दोनों नरक के अधिकारी हैं।”

तुकाराम स्वयं कीर्तन करने लगे। इस का एक कारण और भी था। शिक्षक का काम करनेवाले हर एक मनुष्य का यह अनुभव है कि कई ऐसी बातें जो स्वयं पढ़ते हुए उस ने न समझी थीं, जब वह शिक्षक का काम करते हुए विद्यार्थी-वर्ग को समझाने के लिए पढ़ता है, उसे अधिक अच्छी रीति से समझ में आ जाती हैं। इस का कारण यह है कि स्वयं सीखते समय उम ग्रंथ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना कि सिखाने के समय देना पड़ता है। इस के सिवाय यह भी है कि जो बात खुद को अच्छी समझी हुई भी हो, वह भी समझने से अधिक दिन याद रहनी है। विद्यार्थी-दशा में प्रायः यह देखा जाता है कि जो विद्यार्थी अपने सहापठियों को समझाता रहता है, उस का विषय अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक तैयार रहता है। मतलब यह कि स्वयं पठन करते हुए किसी बात का जितना विचार होता है, उस से कई गुना अधिक वही बात दूसरों को समझाने के समय होता है। पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाने के काम में इसी लिए अधिक विचार करना पड़ता है। तुकाराम महाराज कीर्तन करने में प्रवृत्त खास कर इसी लिए हुए कि ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘एकनाथी भागवत’ इत्यादि ग्रंथों पर स्वयं पाठ करने या मनन करने की अपेक्षा अधिक विचार हो। आप ने अपने एक अमंग में कहा है कि “ये शब्द केवल गौरव के नहीं पर मेरे स्वयं अनुभव से भरे हुए हैं कि



भक्ति को कीर्तन केवल पैदा ही नहीं करता बरन् उसे बढ़ाता भी है और अंत में निज पद को भी पहुँचाता है।" आप अपने प्रवचनों में ब्रह्मज्ञान या वेदांत की अपेक्षा भक्ति-मार्ग का ही विवरण अधिक करते। खास कर आप श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं का ही वर्णन अधिक करते और भोत्रु-समूह को खूब भजन कराते। श्रीविठ्ठल-भजन पर ही आप का अधिक मन रहता और नाम-स्मरण की महिमा आप सदा प्रतिपादन करते।

पूर्वोक्त चरित्र से पाठकों को भोत्रुकाराम महाराज के विषय में यह बात विदित ही है कि आप ने किसी ग्रंथ का विशेष अध्ययन न किया था। पिता के पास तेरह वर्ष तक केवल पढ़ना, लिखना, हिसाब करना इत्यादि व्यावहारिक बातें ही सीखी थीं। बाद को भी उन्हें अभ्यास करने का मौक़ा न आया। उन की बुद्धि तीव्र तो अवश्य थी, पर केवल बुद्धि की तीव्रता से अभ्यास नहीं होता। प्रायः यही देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि और दृढ़ अभ्यास क्वचित् ही साथ पाए जाते हैं। तुकाराम जी ने तो स्पष्ट ही अपने विषय में कहा है कि "कीर्तन प्रारंभ करते समय मेरा चित्त अभ्यास में बिल्कुल न था।" ऐसी दशा में एकदम कीर्तन करने को प्रवृत्त होना एक प्रकार का साहस ही था। पर ऐसे बुद्धिमान् पुरुषों को साहस ही अभ्यास में प्रवृत्त करता है। वही हाल यहाँ भी हुआ। कीर्तन के लिए केवल समझने से थोड़ा ही काम चलता है। उस के लिए तो कई बातें जिज्ञास रहनी चाहिए। इस लिए सब से प्रथम आप ने संतों के प्रासादिक वचन का मुख-पाठ करना शुरू किया। मुख-पाठ करने की प्रथा भारतवर्ष में बड़ी पुरानी है। "अग्निमीले पुरोहितं" से ले कर 'शमानीय आकृतिः' तक ऋग्वेद के सब मंत्र ही नहीं; उन मंत्रों के पद, क्रम, जटा इत्यादि प्रकार के पाठ, ब्राह्मण-ग्रंथों के तथा शिक्षादि षडंग ग्रंथों के साथ, अर्थ न समझते हुए भी मुख-पाठ करनेवाले वेद-पाठी ब्राह्मणों का आज भी अभाव नहीं है। छापेखाने न होने के कारण जिन समय ग्रंथ दुष्प्राप्य थे तथा विधर्मी लोग उन ग्रंथों को जलाने या नष्ट करने पर उद्यत थे, वेदों की पाठपरंपरा-पूर्वक रक्षा इन्हीं ब्राह्मणों की बदीलत हुई है। भारतवर्ष में प्राचीन पंडितों का तो आज भी यही विचार है कि "पुस्तक-पोथियों में ही जो विद्या रहती है तथा दूसरों के ताबे में जो धन रहता है, वे दोनों किसी काम की नहीं। क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न वह विद्या काम आती है, न वह धन।" कीर्तन के समय कीर्तनकार काग़ज़ पढ़ कर तो प्रवचन नहीं कर सकता। उस के लिए तो मुख-पाठ करना आवश्यक ही है। मुख-पाठ करने में एक और लाभ यह होता है कि यदि अर्थ समझता हो, तो वाणी और मन दोनों का उस क्रिया में एक-सा योग रहता है। कीर्तन के लिए भोत्रुकाराम महाराज ने इसी कारण संतों के कई प्रासादिक और सुभाषित-स्वरूप वाक्य मुख-पाठ किए।

आप लिखते हैं कि "अज्ञा और आदर-भाव मन में रख कर मैं ने संतों के वचन का मुख-पाठ किया।" इस वाक्य का प्रथम भाग बड़ा महत्व-पूर्ण है। जो वचन भोत्रुकाराम महाराज ने याद किए, उन के प्रति आप के मन में आदर तथा भ्रद्धा उपस्थित थी। आज कल की शिक्षा से मन प्रायः भ्रद्धा-हीन होता है। जिन ग्रंथों का अध्ययन करना हो, उन के लेखकों के प्रति यदि आदर-भाव न हो, तो उन के कथन में भ्रद्धा भी नहीं उत्पन्न होती।

इस 'किं युग' में हम हर एक बात की 'क्यों' में ही कँस जाते हैं। इन क्यों और कैसे के बाहर ही नहीं जा सकते। जहाँ देखो वहाँ संशय और शंकाओं का ही साम्राज्य नजर आता है। इस कारण अवली ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती और अंत में भीमद्भगवद्गीता के कथनानुसार 'अज्ञ, अज्ञाहीन और संशयात्मा बन कर, अंत में नाश के ही प्राप्त होते हैं।' जैसे हर एक बात अंध-अज्ञा से नहीं माननी चाहिए वैसे ही हर एक बात में संशय ले कर अज्ञाहीन बनने से भी तो काम नहीं चलेगा? लोकमान्य तिलक जी के 'गीता-रहस्य' के उपोद्घात में त्रिंशे अनुसार अज्ञा का आधार लिए बिना काम ही नहीं चल सकता। एन् ओ नो का अर्थ नहीं, मानने के लिए भी प्रथम अर्थ यतलानेवाले के प्रति अज्ञा ही होनी चाहिए। भूमिति-शास्त्र के आरंभ करते समय विद्यार्थी के प्रथम बिंदु या रेखा का व्याख्याएँ माननी ही पड़ती हैं। एक बार उन्हें अज्ञापूर्वक मानने के बाद जैसे-जैसे वह उस शास्त्र में प्रगति किए जाता है, वैसे-वैसे उन व्याख्याओं की या परिभाषाओं की सत्यता उसे प्रतीत होने लगती है। पर यदि आरंभ ही से संशय ले कर वह बैठ जाय, तो वह कुछ प्रगति ही न कर सकेगा। भारतीय धर्म-शास्त्र में अज्ञा और मेधा दोनों को एक-सा ही प्राधान्य दिया है। केवल इतना ही नहीं, दोनों का तुल्य प्राधान्य दिखलाने के लिए अज्ञा मेधा की जोड़ देवना मानी गई है। तुकाराम जी ने केवल अपनी बुद्धि के बल पर ही अभ्यास न किया, पर अज्ञा और आदर-पूर्वक अभ्यास किया। इस अभ्यास का क्या परिणाम हुआ, यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

अतुकाराम महाराज ने अपनी बुद्धि ने एक-दो ही नहीं, कई ग्रंथ पढ़े। मराठी के आंतरिक हिंदी और संस्कृत के भी कुछ ग्रंथ उन्होंने ने देखे थे। कबीरदास के दोहे तो उन्होंने ने याद किए थे। इस बात का दर्शन महीपति जी ने किया ही है। इन दोहों की छाप इन के अग्रंगों पर कई स्थानों पर पड़ी हुई नजर आती है। केवल इतना ही नहीं, स्वयं तुकाराम की हिंदी-भाषा में जो रचना है, उस में कुछ दोहरे भी हैं। कबीर के सिष्याय तुलसीदास, सुरदास और मीराबाई के कवित्व की भी कुछ-कुछ छाया इन के अग्रंगों में दीखती है। तुकाराम की हिंदी-कविता से उन का हिंदी-भाषा का ज्ञान-विशेष नहीं जान पड़ता। पर हिंदी के पूर्वोक्त संत कवियों के कवित्व प्रायः कीर्तनकारों के प्रवचनों में प्रचलित थे। इसी कारण हिंदी भाषा उन की परिचित भाषा थी। फिर तुकाराम जी के समय पूना प्रांत पर मुसलमानों का ही शासन बहुत समय तक था, जिस के कारण भी वे हिंदुस्तानी भाषा से परिचित थे। पर हिंदी के ग्रंथों का आप ने अध्ययन किया हो ऐसा नहीं जान पड़ता। केवल कुछ कविताएँ याद की होंगी। कई संस्कृत ग्रंथों की भी प्रतिध्वनि आप की कविता में सुनाई देती है। ज्ञानेश्वरी के साथ गीता का तो उन्होंने ने अच्छा ही अध्ययन किया था। भागवत भी आप ने स्वयं मूलरूप में पढ़ा था। पुराण और दर्शन-ग्रंथ तो पढ़ने का उल्लेख अपने अग्रंगों में उन्होंने ने स्वयं किया है। महीपति जी के कथनानुसार उन्होंने ने योग-वासिष्ठ का भी मननपूर्वक अर्थ समझ लिया था। इस से जान पड़ता है कि तुकाराम जी ने संस्कृत-भाषा का कुछ अध्ययन अवश्य किया था। पुण्यदंत-कृत महिम्न स्तोत्र तथा शंकराचार्य जी के षट्पदी ग्रंथ का भी राग कहीं-कहीं उन के अग्रंगों में सुनाई

देता है। वे ग्रंथ पढ़ने के बाद वेद पढ़ने की भी इच्छा आप के मन में अवश्य हुई होगी, पर शूद्र-जाति में जन्म होने के कारण यह पूरी न हुई। जान पड़ता है कि यह बात उन के मन में खटकती रही। संभव है इसी कारण आप ने कई स्थान पर वेद-पाठ का अधिकार न रहने की बात पर दुःख प्रगट किया है। पर साथ ही आप से यह बात भी छिपी न थी कि जिन ब्राह्मणों को वह अधिकार था, वे वेद का अर्थ कुछ भी न समझते थे। अनेक जगह आप ने लिखा है कि “वेद का अर्थ तो हम ही जानते हैं, अन्य लोग तो केवल सिर पर बोझ उठातेवाले हैं”, “वेद जिसे गाते हैं, वह तो हमारे ही साथ हैं”, “वेदों का जटिल अर्थ वेद-पाठकों की समझ नहीं और दूसरे लोगों को अधिकार नहीं” इत्यादि। इस के सिवाय पुराण और अन्यान्य ग्रंथों में जो वेद का उल्लेख उन्होंने पाया था, उस से उन का अनुमान हो चुका था कि वेदों में क्या लिखा है। और उसी के आधार पर आप ने कई जगह वेद-मंत्रों का भावार्थ दिया भी है। परंतु आप का खास अध्ययन मराठी संत-कवियों के ग्रंथों का था। ज्ञानेश्वर के श्रमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी तथा एकनाथ की ‘भावार्थ रामायण’ और ‘भागवत’ के आपने कई पारायण किए थे और उन के अर्थ को आत्मसात् कर लिया था। नामदेव के तो कई अमंग माता कनकाई के मुख से सुन कर इन्हें बचपन से ही याद थे और कीर्तन-भजन के लिए सब से पहले आप ने इन्हीं अमंगों को याद किया। नामदेव के प्रायः जिन-जिन विषयों पर अमंग पाए जाते हैं, उन सब विषयों पर तुकाराम महाराज के भी अमंग हैं।

भाविक पुरुष को ग्रंथाध्ययन करते समय एक बड़े संकट का सामना करना पड़ना है। अनेक ग्रंथ देखने पर अनेकों के अनेक मत ध्यान में आ कर बुद्धि चकरा जाती है। इस विषय में चित्त का संदेह होने लगता है कि सच क्या है और झूठ क्या। ऐसे समय यदि मन का दृढ़ निश्चय न हो या सत्यासत्य का निर्णय करने की सामर्थ्य बुद्धि में न हो तो बड़ी आपत्ति आ पड़ती है। परंतु तुकाराम महाराज में ये दोनों गुण थे। किए हुए निश्चय में उन की बुद्धि स्थिर थी और उन की तीव्र बुद्धि सार-ग्राहिणी थी। वे स्वयं कहते हैं कि “सत्य और असत्य के निर्णय में मैं अपनी बुद्धि की गवाही लेता और अन्यान्य मतों को न मानता।” किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय आप का विचार हंसखीर न्याय से होता था। आप ने मुख्य सार एक ही निकाल रक्खा था। आप कहते हैं कि “वेद ने अनंत बातें कहीं पर सब शब्दों से एक ही अर्थ बतलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर एक ही बात का निश्चय किया। अठारह पुराणों का सिद्धांत देखा जाय तो उन का एक ही हेतु है।” तुकाराम कहने यह हैं “विठोबा की शरण जाना चाहिए।” तुकाराम महाराज की पाठांतर शक्ति असाधारण थी और साथ ही आपकी स्मरण-शक्ति भी दुर्बल न थी जैसी कि प्रायः तीक्ष्णबुद्धि पुरुषों की होती है। एक बार का याद किया आप प्रायः भूलते न थे। इस का कारण महीपति की भाषा में कहा जाय तो यह था कि “दिन रात मनन करने के कारण अक्षर मानो स्वयं आ कर मुख में वास करने लगते।” इस प्रकार महाराज ने बड़े परिश्रम के साथ भक्ति-विषयक ग्रंथों का अध्ययन कर और उन का सार निचोड़ कर मन में रक्खा। फल यह हुआ कि उस समय के भक्तजनों में आप की प्रतिष्ठा होने लगी।

साधक दशा में सब से बड़ा संकट उस समय सामने आता है, जिस समय मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। जैसे योगियों की राह में ऋषियादि विद्विष्यं आड़ आती हैं वैसे ही साधक साधक के मार्ग में सम्मान और प्रतिष्ठा का बड़ा संकट आता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्तुतिप्रिय होता है। उस पर भी जब वह केवल अपने ही परिश्रम से, किसी दूसरे का साहाय्य न ले कर, ऊँचे पद को पहुँचता है तब तो उस में अभिमान की मात्रा अधिकांश में उत्पन्न होने की बहुत संभावना रहती है। न किसी को उन्ने सम्मान का अधिकार रहता है, न किसी का कहा वह मानता है। तुकेना को भी इस अभिमान से खूब ही मगड़ना पड़ा। आप खूब जानते थे कि यह अभिमान मन को बहिर्मुख करता है। अभिमान या अहंकार के उत्पन्न होते ही, चित्त की अतर्मुख बृत्ति नष्ट होती है। उन्ने अपने दोष नहीं दीखते। केवल दूसरों के ही दोष नज़र आते हैं। आप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “यह काले मुँह का अभिमान ज़बरदस्ती झँवेरा दिल जाता है। मुख में मिट्टी डाल जो कुछ तम्हें मित्रा हो उसे हाथ के हाथ उठा ले जाता है। बनी-बनाई बात बिगाड़ने के लिए यही लोक-लाज के रूप से पीछे पड़ता है। इस प्रकार बिगड़े हुए लोगों की आखिर कभीहत ही होती है।” इस अहंता से बचने के लिए आप ने लोक-लाज को कभी अपने पास फटकने भी न दिया। लोकलज्जा अहंता का ही एक सूक्ष्म स्वरूप है। इस लिए उसे छोड़ आप सदा बड़ी दिनता धारण करते थे, और अभिमान को दूर भगा देते थे। उदाहरणार्थ जिन कीर्तनकारों के कारण आप को स्वयं कीर्तन की इच्छा हुई, उन्हीं के पीछे आप साथ करने के लिए खड़े रहते। अर्थात् उन के मन में इन के प्रति सद्भाव रहता और इन के मन में अहंता न आती। आप ने अपने आत्म-चरित्र पर अभंग में कहा है कि “मैं ने भक्तिपूर्वक युद्ध चित्त कर के आगे गानेवालों का गाय किया, संतों का पादोदक सेवन किया और लाज को दूर रख जैसा बना वैसा पोष-कार किया।” ऐसे मन में अभिमान को प्रवेश न दे कर और लाज छोड़ कर तुकाराम महाराज ने गन्त्रता धारण की और अपना साधना-व्रत निवाहा।

तुकाराम महाराज ने एक अभंग में साधक-स्थिति का वर्णन किया है जिस से उन की साधना की कल्पना भली-भाँति की जाती है। “साधक की स्थिति उदास होनी चाहिए। भीतर-बाहर किसी प्रकार की उपाधि उसे न रखनी चाहिए। शरीर की सुल-लोलुपता तथा निद्रा दोनों को नीत साधक को खाना बहुत थोड़ा खाना चाहिए। अकेले जहाँ कोई न हो वहाँ खियों के साथ कंठस्थ-प्राण होते भी संभाषण नहीं करना चाहिए। सत्संगति, नामस्मरण और कीर्तन दिनरात होना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं जो कोई ऐसे साधनों से रहता है, उसी को शान और गुरु-कृपा प्राप्त होती है।” और एक जगह दो साधनों पर या साधक-स्थिति के दो शत्रुओं से बचने के विषय पर आप ने कहा है कि “अगर कोई साधना चाहे तो उस के लिए दो ही साधन हैं। उसे पर-द्रव्य और पर-नारी दोनों को विल्कुल अस्पृश्य मानना चाहिए।” तुकाराम जी ने ये दोनों साधन यावज्जीवन पाले। धन के विषय में तो आप निरिच्छ थे ही। पर एक अभंग से जान पड़ता है कि एक मौक़ा आप को ऐला भी मिला था जब कि एक ली इन्हें लुभाने के लिए

हम के पास आई। पर आप न मनोजयपूर्वक उसे जवाब दिया कि “मा, यहाँ तो कमी का निश्चय हो चुका है कि पर-स्त्री रखमाई सी है। जाओ यहाँ व्यर्थ कष्ट न करो। हम विष्णुदास बेसे नहीं। न तेरा पतन मुक्त देखा जाता है, न तेरा दुष्ट वाक्य सुना जाता है। और अगर तुम्हें पुरुष की ही आवश्यकता है, तो दूसरे क्या थोड़े लोग हैं !” बेचारी क्या सोचती हुई वहाँ से गई होगी !

साधकावस्था चार स्थितियों में विभक्त की जाती है। भवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। साधक पहले किमी साधन की केवल बातें सुनता है। फिर उस का आचरण करते-करते वह मनन करता है। मनन स्थिति में वह देखता जाता है कि उस की साधना पूरी हुई या नहीं। साधनों का आचरण करते-करते साध्य प्राप्ति का विचार दिनरात सर्वकाल उस के मन में बना रहता है। इसी को निदिध्यासन कहते हैं। अंत में जब उन साधनों का आचरण होते-होते अहोरात्र साध्यप्राप्ति का विचार मन में रहता है, तब साक्षात्कार होता है। तुकाराम की साधन-दशा पहली तीनों अवस्थाओं में से जा चुकी थी। यी। साक्षात्कार सुलभ नहीं है। श्रीतुकाराम महाराज की सब साधना श्रीविठ्ठल के अब केवल साक्षात्कार की और शरण जाने की थी। वे पूर्णतया शरण हुए, उन्होंने न संसार छोड़ा कनक और कामिनी के मोह को त्याग दिया, भवण, मनन और निदिध्यासन किया। अब केवल भगवत्स्वरूप का साक्षात्कार होना बाकी था। जहाँ न शब्दों की तथा न मन की दौड़ पहुँचती है, ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर यदि तुकाराम महाराज के उपासक होने, तो ‘मैं ब्रह्म हूँ’ इस ज्ञान से उन का समाधान हो जाना। पर वे थे सगुणोपासक। उन के परमात्मा तो भक्तों के साथ हैं, स्नेहते, काम करने, भक्तों के सकट दूर करने के लिए बैकुंठ छोड़ दौड़े आते थे। अर्थात् तुकाराम महाराज इसी प्रकार के साक्षात्कार के भूले थे। ज्ञान-ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, कर्णार, एकनाथ, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान में ला कर और उन के लिए सगुण परमेश्वर ने जो साक्षात्कार किए थे उन्हें मन में लाते। “जिन संतों के मूर्तिमान् श्रीविठ्ठल के दर्शन हुए, वे या हुए हैं, उन की योग्यता तक मैं अभी न पहुँचा” इस विचार से आप का चित्त बड़ा उद्विग्न होता। आप फिर फिर मन में निचारते कि अपनी साधना में क्या दोष रहा।

विचार करते-करते आप के ध्यान में आया कि “यदि मेरी साधना में कुछ दोष है या कुछ कमी है, तो यही कि मुझे अभी तक किसी गुरु का उपदेश नहीं हुआ।” उप-निषदों में आप ने अवश्य ही पढ़ा होगा कि “जिसे गुरु मिला है, उसी को ज्ञान होता है;” “जिसकी देव के विषय में उत्कट भक्ति होती है, और जैसे देव के वैसे ही गुरु के विषय में, उसी को वे सब योग्य समझते हैं।” श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्यादि लीला-विग्रहधारी परमेश्वर ने भी गुरु-सेवा की थी। ‘गुरु बिन कौन बतावे याद’ इत्यादि कबीर के पद भी आप को याद होंगे। पुराणों और संतों के विषय में तो आप ने स्वयं लिखा ही है कि ‘व्यास ऋषि पुराणों में कहते हैं कि ‘सद्गुरु के बिना मनुष्य प्रेत रूप है। किसी प्रकार से उस का छुटकारा नहीं हो सकता। उस का शरीर भूट से भरा रहता है। पुराणग्रंथ तो ऐसा कहते ही हैं और संतों के बचन भी ऐसे ही हैं।’ अतएव आप की यह कल्पना हुई कि किसी

गुरु की शरण जाना चाहिए। पर तुकाराम ऐसे तीक्ष्णबुद्धि तथा परम चिकित्सक भाविक को गुरु मिलना सहज न था। उन के आसपास ऐसे गुरु तो बहुत थे जो 'न तो शास्त्राधार जानते थे, न पात्रपात्र का विचार करते थे। परकेवल उपदेश दे कर गुरुदक्षिणा रूपी धन पर ही हाथ चलाते थे।' पर तुकाराम ऐसे खरे परीक्षक के सम्मुख ऐसे खोटे सिक्के चलनेवाले न थे। आप के मतानुसार तो 'ऐसे गुरु और उन के शिष्य दोनों नियोगति के ही अधिकारी थे।' पीछे कहा ही गया है कि केवल ब्रह्मज्ञान पर आप का विश्वास न था। आप जानते थे कि 'घर-घर ब्रह्मज्ञान है, पर जहाँ देखो वहाँ उस में मेल है।' सगुण-भक्ति की अपेक्षा करनेवाले ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के प्रति आप की भक्ति न थी। आप का तो साफ-साफ ऐसा मत था कि "गुरु के मुख से ब्रह्मज्ञान हो सकता है पर, विटोवा के प्रेम की पहचान नहीं हो सकती। विटोवा का प्रेमभाव वेदों से पृच्छना चाहिए और पुराणों से विचारना चाहिए। ज्ञान से आनेवाली थकावट छोड़ केवल मंत्र ही वह पहचान जान सकते हैं।" इस लिए किसी दाम्भिक गुरु ने आप उपदेश लेने के लिए तैयार न थे। पर दिन-रात श्रीविठ्ठल की प्रार्थना करने रहने कि कोई अन्धका गुरु मिले और उस के उपदेश से आप कृतार्थ हों। इस निदिध्यासावस्था में आप को प्रायः लोगों का उपसर्ग सहन न होता और घर के बाहर, पहाड़ों पर आप रात की रात श्रीविठ्ठल की प्रार्थना करते-करते गुज़ारते। अंत में एक माघ शुक्ल दशमी गुरुवार की रात को आप ऐसे ही भजन कर रहे थे कि आप की आँखें ऋषिकी और आप को निम्नलिखित दृश्य दिखाई दिया। आप इंद्रायणी पर स्नान को जा रहे थे कि राह में आप को एक सत्पुरुष का दर्शन हुआ। तुकाराम जी उन के पैर पड़े और, उस सत्पुरुष ने इन्हें हाथ पकड़ कर उठाया। बड़े प्रेमभाव के साथ इन के पीठ पर सं हाथ फेरा और आशीर्वाद दे कर कहा कि 'कुछ चिंता न करो। मैं तुम्हारा भाव पहचान गया हूँ।' इतना कह कर उस सत्पुरुष ने इन के सिर पर हाथ रक्खा और कान में 'राम कृष्ण हरि' मंत्र का उपदेश किया। उसी ने अपना खुद का नाम बाबा जी बतलाया और अपनी परंपरा 'राघव चैतन्य, केशव चैतन्य' बतलाई। सत्पुरुष का दर्शन, स्वर्शन, संभाषण और उपदेश होने के कारण श्रीतुकाराम महाराज बड़े आनंदित हुए उसी आनंद में 'राम कृष्ण हरि', 'राम कृष्ण हरि' जोर-जोर से कहने लगे कि आप की ऋषिकी खल गई। देखते हैं कि केवल 'राम कृष्ण हरि' 'राम कृष्ण हरि' शब्द मुख से निकल रहे हैं। आप का निश्चय हो गया कि आप को गुरुपदेश का साक्षात्कार हो चुका। यह तिथि स्वयं श्रीतुकाराम महाराज ने अपने अभंग में दी है, और संशोधक विद्वानों का निश्चय हुआ है कि अंग्रेज़ी वर्ष के हिसाब से उस दिन ई० सं० १६३३ के जनवरी मास की दसवीं तारीख थी।

भाविकों की दृष्टि से जो साक्षात्कार कहलाता है, उसे ही अभाविक लोग केवल मनःकल्पित कल्पना कह सकते हैं। यहाँ भी कोई इस प्रकार कह सकता है कि इस स्वप्न में साक्षात्कार कौन-सा है? यह तो केवल मन का खेल है। 'मन में अपने, देखा सपने।' यह कहावत यद्यपि ठीक है तथापि जब तक फ़लाँ ही सपना पढ़ने का कारण या दृष्ट स्वप्न दृष्टा देखने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं आई हो, तब तक भ्रष्टायुक्त लोग ऐसे स्वप्न दृश्य

को भी साक्षात्कार ही समझेंगे। भद्रवान् भाविक भक्तों पर तो इन साक्षात्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चा रात के समय अँधेरे में जाने से डरता है। वह मा को साथ आने के लिए बुलाता है। मा जगह पर ही बैठी-बैठी 'मुजा, मुजा' पुकारती है। बच्चे का विश्वास हो जाता है कि माता पास है और वह अँधेरे में चला जाता है। कई बार तो मा पुकारती भी नहीं। यह केवल भावना कि वह जागती है उसे निर्भय करने में समर्थ होती है। ठीक यही बात साक्षात्कारों की है। साक्षात्कार के कारण भाविक के मन में जब एक बार यह भावना उदित होती है कि ईश्वर उसे सहाय कर रहा है, उस की भोली भक्ति अधिक बढ़ती है, उस की भद्रा दृढ़तर होती है और वह अपनी साधनाओं में अधिक निश्चय से प्रयुक्त होता है। तुकाराम जी के मन पर यही असर हुआ। सद्गुरुपदेश के विश्वास से अब आप ने 'राम कृष्ण हरि' मंत्र का नियमपूर्वक जप आरंभ किया। आप का निश्चय हो गया कि अब आप को भगवद्दर्शन अवश्य होगा। पर भगवान् का दर्शन ऐसा सुलभ योद्धा ही है? चित्त में जब तक तीव्र उत्कण्ठा न हो, जीव उस के बिना बिल्कुल ऐसा न तड़फे जैसी कि जल-बिन मछली, चित्त की पूर्ण एकाग्रता नहीं होती और बिना एकाग्रता के साक्षात्कार भी नहीं होता। कुछ दिन के बाद तुकाराम जी का ठीक यही हाल हुआ। अब आप केवल अपने मन से ही नहीं प्रत्युत अन्य सतों से भी पूछने लगे कि "भाई सज्जनों, इस प्रश्न का उत्तर दे कर मेरे चित्त का समाधान करो। क्या मेरा उद्धार होगा? क्या नारायण मुझ पर कृपा करेंगे? क्या मेरे पल्ले ऐसा पुण्य है जिस के प्रभाव से मैं भगवान् के चरण गहूँ, वह मेरे पीठ पर से हाथ फेरें और भगवान् का यह प्रेमभाव देस मेरा गला भर आवे? चारों पहर मुझे यही चिन्ता है, दिन रात मेरे दिल को यही लगी है। मेरी सामर्थ्य ऐसी नहीं जान पड़ती कि उस के बल से यह फल मुझे मिल जाय।" ऐसा बोल कर आप शोक में फूट-फूट कर रोते। ऐसी साधना और फिर ऐसी निरभिमानता। फिर भगवान् दूर क्यों रहेंगे? एक रात इसी अवस्था में तुकाराम को दूसरा साक्षात्कार हुआ। आप सो रहे थे कि नामदेव जी श्रीविठ्ठल को ले कर आए और आप को जगा कर बोले "आज से व्यर्थ न बोलो। अभंग रचने लगे। मेरा शतकोटि अभंग-रचना का प्रण पूरा न होने पाया था। उस में जो कुछ कसर रही है उसे तुम पूरी कर दो। डरने का काम नहीं। यह हमारी आज्ञा है। गल्ले की गाड़ी पर जैसा तौलनेवाला तरजू से तौलता चला जाता है उसी प्रकार से तुम रचना किए जाओ। तौला हुआ गल्ला जिस प्रकार अपना पल्ला पसार हुमा ल भरता जाता है उसी प्रकार यह श्रीविठ्ठल तुम्हारी कविता की सँभाल करेंगे।" आज्ञा सुन श्रीतुकाराम जी ने दोनों के चरण गहे। श्रीविठ्ठल ने पीठ ठोकी और दोनों अंतर्धान हुए। श्रीतुकाराम जी को आनंद हुआ। उन की साधना पूरी हुई। उन का पुण्य फूला। मनोरथ पले। साक्षात् श्रीविठ्ठल का दर्शन हुआ। उन की अभंग रचना का आरंभ हुआ।

## षष्ठ फरिच्छेद

### तुकाराम जी की कसौटी

इस दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा होने के पहले कुछ काल अज्ञात दशा में रहती है। बाद को जब वह अदृश्य रूप में दृश्य रूप में बदल जाने के कारण आँखों को नजर आती है, तब पहले-पहल उस की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस दशा में कुछ दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसे बढ़ती देख कर लोगों का ध्यान उस की ओर खिंच जाता है और जिन्हें वह पसंद हो, वे उसे बढ़ाने के लिए और जिन्हें वह नापसंद हो, वे उस का नाश करने के लिए भर सक कोशिश करते हैं। विल्कुल आरंभ से ही जिन्हें पोषक ही पोषक मिलते हैं, उन का प्रायः अधिक विकास नहीं होता, पर जो नाशक द्रव्यों के घोर विरोध में भी जीते और बढ़ते हैं वे ही अंत में ऊँचे पद को पहुँचते हैं। श्रीतुकाराम जी महाराज की साधना पूरी हो जाने तक उन का घोर विरोध किसी ने न किया था। पर जब से वे अभंगों की रचना करने लगे, तब से उन की दिन ब दिन अधिक प्रसिद्धि होने लगी और कुछ प्रसिद्ध लोगों की आँखों में—विशेषतः उन की, जो कि भक्तिमार्ग के सदा से विरोध करनेवाले वैदिक कर्ममार्गी थे—यह लुभने लगी। जब उन्होंने ने सुना कि एक पच्चीस-तीस वर्ष का नौजवान, जिसे अपनी दूकान तक सँभालने का शऊर न था, जो अपनी जोर से लड़ कर अपने घर से कुछ दिन भाग गया था, और जिसे थोड़े ही साल पहले कुछ भी ज्ञान न था, कविता बनाता है और कहता है कि उसे स्वप्न में ही गुरुदेव का दर्शन हुआ और स्वप्न में ही परमेश्वर ने उसे कविता बनाने की आशा दी तब उन में से कुछ तो हैंसी

[ ५७ ]



उड़ाने लगे। पर वे लोग जो कि तुकाराम के पास थे और जिन के स्वार्थ में श्रीतुकाराम जी के कारण हानि पहुँचना संभव था, उन का विरोध करने लगे। अब पाठकों को यह बतलाना है कि इस विरोध में श्रीतुकाराम महाराज की क्या दशा हुई और इस से पार उन्होंने कैसे पाया। गत परिच्छेद के अंत तक पाठकगण यह देख चुके हैं कि तुकारामरूपी सोना स्थान में से बाहर कैसे निकला, और उस में मिला हुआ कड़ा-कचरा, मिट्टी बूर होने पर वह कैसा चमकने लगा। अब अपनी शुद्धता लोगों को पूरी-पूरी ममकाने के लिए उसे ध्याग में जल कर, बिना काला पड़े बाहर निकलना वाज़्ही था। प्यारे पाठको, अब आप को यही बतलाना है कि यह कार्य कैसे हुआ।

वैदिक कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग का विरोध बहुत ज़माने से होता ही आया है। पहले-पहल इन मार्गों में केवल साधन-भेद का ही झगड़ा था। कर्म-मार्गी लोग यज्ञ-यागादि कर्मों की आवश्यकता मानते थे तो भक्तिमार्गी लोग इन बातों की ज़रूरत न समझते थे। कर्ममार्गियों में ब्राह्मण-वर्ण का महत्व माना जाता था। यज्ञ-यागादि काम ब्राह्मणों के बिना न हो सकते थे और इन कामों की दक्षिणा भी ब्राह्मण लोगों को ही दी जाती थी। क्योंकि याजन और प्रतिग्रह अर्थात् दूसरों के घर यज्ञ करना और उन से दक्षिणा लेना—ये दो काम ब्राह्मणों के ही हक के समझे जाते थे। भक्तिमार्ग इन बातों को न मानता था। इस लिए जब उस की बाढ़ होने लगी, तब केवल इन्हीं कृत्यों पर जिन का पेट पलता था, ऐसे ब्राह्मणों को भक्तिमार्ग का विरोध करना पड़ा। उस ज़माने में साधनभेद और जातिभेद के ही तत्वों पर विरोध था। काल के साथ ये विरोध के कारण बढ़ते गए। संस्कृत-काल में भाषा-भेद न था। सभी संस्कृत बोलने तथा समझते थे। पर प्राकृत-काल में जाति-भेद के तत्व के साथ ही भाषा-भेद का भी एक तत्व और भीतर घुसा। कर्म-मार्गी लोगों के सब मंत्र तथा उन की धर्म पुस्तकें संस्कृत भाषा में ही होने के कारण, जब वे ग्रंथ प्राकृत भाषा में प्रकट होने लगे, तो कुछ मंत्रों की पोल खुलने लगी। इसी प्रकार जब संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद प्राकृत में होने लगे, तब संस्कृत भाषा के अभिमानी कर्ममार्गी पंडित लोगों का जी धराने लगा। महाराष्ट्रीय संतों ने पूर्ण प्राकृत विह्वल देवता का ही माहात्म्य बढ़ाया। जिस श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकांड पंडितों की शरण लेनी पड़ती थी, उसी गीता का श्रीज्ञानेश्वर जी के महाराष्ट्र भाषा में अनुवाद और विवरण करते ही पंडित ब्राह्मणों का हृदय हिल उठा। तब से ले कर उस हर एक महाराष्ट्रीय संत को जिस ने मराठी में कुछ लिखा, ब्राह्मणों से थोड़ा-बहुत विरोध करना ही पड़ा। एक-नाथ जी ने तो साफ-साफ कहा कि “ईश्वर को भाषाभिमान नहीं है। उसे संस्कृत-प्राकृत दोनों एक-सी ही हैं। ज्ञान और प्रार्थना किसी भाषा में की जाय, उस से परमात्मा एक-सा ही संतुष्ट होता है।” पर फिर भी इस प्रकार के ग्रंथ लिखनेवाले प्रायः ब्राह्मण-कुल के ही थे। पर तुकाराम जी के समय इस झगड़े में यह बात भी और बढ़ गई कि तुकाराम जाति के शत्रु थे। अर्थात् जब श्रीतुकाराम महाराज की दिव्य वाणी से पूर्ण प्राकृत में शुद्ध भक्ति-भाव का संदेश सुन सब जाति के भाविक लोग उन्हें गुरु समझने लगे, तब अपने गुरुपदेश से लोगों को लूटनेवाले और उसी पर अपना पेट पालनेवाले ब्राह्मण तथा कर्म-

मार्ग-अवर्तक विद्वान् पंडित तुकाराम जी को बुरी नज़र से देखने लगे ।

इन्हीं कर्ममार्ग-प्रवर्तक विद्वानों में रामेश्वर भट नाम के एक महापंडित कन्नड ब्राह्मण थे । बदासी गाँव से इन के पूर्वज महाराष्ट्र में बाघोली नामक ( देहू के पास ही ) एक गाँव में आ बसे थे । पाँच-चार गाँवों के जोशी का हक भी इन्हीं के कुल में था । वेद-विद्या इन के घर में परंपरा-प्राप्त थी । ये श्रीरामचंद्र जी के परम उपासक थे । बाघोली के व्याघ्रेश्वर नामक महादेव के मंदिर में इन्होंने वेद का पारायण किया था और उसी का ये रोज़ रुद्राभिके करते थे । श्रीतुकाराम महाराज की कीर्ति सुन इन्होंने ऐसी तजवीज़ की कि तुकाराम जी देहू से ही बाहर निकाले जावें । उन्होंने प्रामाधिकारी को यह समझाया कि "तुकाराम पारखंडी है । अपने कीर्तनों में नाम-माहात्म्य का वर्णन कर वह भोले लोगों को अनादि काल से चले हुए वैदिक धर्म से प्रचलित करता है । उसी तरह ईश्वर-दर्शन की गप्ये मार गरीब लोगों को फँसाता है ।" उस अफ़सर ने यह बात देहू के पटेल से कही और उस के द्वारा श्रीतुकाराम महाराज को देहू गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म भेजा । देहू तुकोबा की जन्मभूमि थी । वहाँ वे छोटे से बड़े हुए थे । वहाँ के विद्वल के प्रति उन का प्रेमभाव खूब ही बढ़ा हुआ था । ऐसी दशा में यह हुक्म सुन कर अपने देहू गाँव को अर्थात् पर्याय से अपने प्राणप्रिय श्रीविद्वल को छोड़ जाने का श्रीतुकाराम महाराज को बड़ा भारी दुःख हुआ । जब उन्होंने यह समझा कि इस हुक्मनामे के मूल-कारण रामेश्वर भट हैं, वे स्वयं बाघोली गए । मन्शा यह थी कि रामेश्वर भट जी को कीर्तन सुनाया जावे और उन की प्रार्थना कर उन्हीं के सिफ़ारिश से वह हुक्म फेरा जावे । जब आप वहाँ पहुँचे तो रामेश्वर भट वेद-पारायण कर रहे थे । आप ने दंबवत-प्रणाम किया और आप के सामने व्याघ्रेश्वर के मंदिर में ही कीर्तन का आरंभ किया । सज्ज स्फूर्ति से महाराज अभंग गाने लगे । स्वाभाविक तौर पर रामेश्वर भट के-से विद्वान के सम्मुख किए हुए कीर्तन में जो प्रवचन किया तथा जो अभंग गाए उन में वेद-शास्त्रों का अर्थ भर हुआ था । कीर्तन सुन कर रामेश्वर भट अवाक रह गए । पर आप ने तुकाराम जी से कहा "तुम्हारे अभंगों में श्रुतियों का अर्थ आता है । तुम शूद्र जाति में पैदा हो । अतएव तुम्हें श्रुत्यर्थ का अधिकार नहीं । क्या तुम जानते नहीं हो कि 'अशिष्टद्विजबंधुर्ना त्रयी न श्रुतिगोचरा ।' ऐसा करने से तुम स्वयं अपने को और अपने भोताओं को दोनों को केवल पाप का भागी बनाते हो । इस लिए आज से अभंग-रचना बंद कर दो ।" श्रीतुकाराम महाराज बोले "मैं श्रीविद्वल की आज्ञानुसार कविता करता हूँ । आप ब्राह्मण देवों को भी बंध हैं । आप की आज्ञा मुझे प्रमाण है । मैं आज से अब अभंग न रचूँगा । पर रचे हुए अभंगों का क्या किया जाय ?" जवाब मिला, "यदि किए हुए अभंग नदी में डबा दो और फिर से अभंग न रचो तो मैं हुक्म वापिस फेरने की सिफ़ारिश करूँ ।" "जैसी आप की मर्जी" कह कर तुकोबा देहू आए और अपने अभंगों का बस्ता उठा नीचे ऊपर पत्थर बाँध इंद्रायणी में बड़ास से फेंक दिया ।

किसी साधारण लेखक का मामूली लेख भी यदि किसी संपादक महाशय की ओर से नापसंद हो वापस आता है, तो भी उस लेखक को बड़ा दुःख होता है । फिर तुकाराम

महाराज के-से अभंग-रचयिता को अपने खुद के अभंग अपने ही हाथों से पानी में फेंक देने के कारण कितना दुःख हुआ होगा इस की-कल्पना सहज में की जा सकती है। आप की कल्पना के अनुसार साक्षात् श्रीविठ्ठल ने वे अभंग रचने की उन्हें आज्ञा दी थी। उन अभंगों के रूप से आप ने अपने मन में उमंगते हुए विचारों को ही बाहर निकाला था। उन अभंगों के सुनने से सैकड़ों भाविक लोगों के कान तृप्त हुए थे। ऐसे अभंगों को नदी में फेंक देना अपने जीते-जागते लड़के को पानी में फेंक देने के बराबर ही था। पर श्रीविठ्ठल के विषय की भीति से आप यह कठोर कर्म भी कर बैठे। दुःख से भरे हुए मन से ही आप बाधोली से लौटे और उसी जोश में अपना बस्ता ले कर इंद्रायणी में फेंक दिया। परंतु फेंकने के बाद जब कई लोगों के मुख से यह सुना कि “जो किया, बड़ा बुरा किया। एक बार कर्जखतों के कागज फेंक स्वार्थ दुबोया, अब श्रीविठ्ठल की आज्ञानुसार किए अभंग फेंक परमार्थ भी दुबोया। एवं दोनों मार्ग दुबो दिए। ‘दोनों ठौर से गए पंडे। न हलुआ मिला, न मिले मंडे” आप का जोश खट से उतर गया। दिल ने पलटा खाया। भावना का जोर कम हुआ और विचार का जोर बढ़ा। वहीं नदी-किनारे बैठे-बैठे विचार करने लगे। जैसे-जैसे विचार करते गए, कानों में यही अक्षर गूँजने लगे कि ‘जो किया बुरा किया।’ आप का विचार दृढ़ हो गया कि अब जीने से क्या लाभ ? जीने में अगर न स्वार्थ है न परमार्थ है, तो वह जीना मरने के ही बराबर है। आप ने वहीं नदी के तीर एक पत्थर पर बैठ प्रायोगवेशन से जान देने का निश्चय किया।

जब कोई मनुष्य अपने खुद के हाथों से अपने पैरों पर पत्थर गिराता है, तब उस की बड़ी दुर्दशा होती है। अपना दुःख हलका करने के लिए न वह दूसरों से कुछ कह सकता है, न किसी का कुछ सुनने की उस की इच्छा रहती है। इस अवस्था में हृदय फूटने लगता है, मुख से शब्द नहीं निकलता, किसी दूसरे को आँखों से देखने की भी इच्छा नहीं होती, एकांत ही प्रिय लगता है, न खाना सूझता है न पीना। सारांश यह कि एक प्रकार की उन्मादावस्था आ जाती है। श्रीतुकाराम महाराज की यही स्थिति हुई। फिर भी मन की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह उसी काम को करने के लिए दौड़ता है जिसे करने के लिए उसे रोकना पड़े। श्रीविठ्ठल की आज्ञा समझ कर तुकोबा सदा अभंग रचने की ही धुन में रहते थे। अब जब रचना करने की मुमानियत हुई तो हठात् उन के मुख से उस उन्मादावस्था में जो विचार शब्द रूप से बाहर पड़ने लगे वे अभंगों के ही रूप में बाहर आने लगे। उन के कुछ अभंग उस समय उन के भक्तों ने लिख लिए। वे आज भी प्रसिद्ध हैं। इन अभंगों से तुकाराम की मनःस्थिति पूरी-पूरी जानी जाती है। इन्हें पढ़ कर खाली कल्पना हो सकती है कि महाराज के मन में क्या क्या विचार उभड़ रहे थे। इन विचारों में कभी स्वनिंदा, कभी ईश्वर की आज्ञा के विषय में अविश्वास और कहीं ईश्वर को भी चार भली-बुरी बातें सुनाई गई हैं।

इस स्थिति में तुकारामजी एक दो नहीं तेरह दिन पड़े रहे। न कुछ खाना न कुछ पीना। बीच-बीच में जब मन की जलन अधिक बढ़ती तो अभंगरूप से उन विचारों का उच्चार होता है। आप कहते “हे हरे, इसे तो बड़े अचरज की बात कहनी चाहिए कि

हमारे घर में आ कर लोग हमें तकलीफ दें। अगर भक्ति के कारण ऐसे दोष उदरग्न हो तो भक्ति की क्या ही कहनी चाहिए! दिन-रात जागने का क्या फल! मिली तो दिल की जलन। तुकाराम तो, इन सब बातों से बही समझता है कि उस की सेवा निष्कल ही गई।” “लेकिन हे पंडरीनाथ, जरा विचार कर कहिए तो सही कि मैं आप का दास कैसे नहीं हूँ? आप के पैरों को छोड़ और किस लिए मैं ने अपने संसार की होली जला दी? ऐसी सत्यता में यदि धीरज न हो तो बह देना चाहिए या उसे उलटा जला ही बालना चाहिए? तुकाराम के लिए तो इस दुनिया में, स्वर्ग में, तेरे सिवाय कुछ नहीं है।” “ऐसी स्थिति में रखिए नाथ, अपना सब अपने ही पास रखिए। मुझे उस से क्या करना है? मेरे मन में शांति है कि मैंने अपना काम किया। अब मैं क्यों फ़ज़ल विरोध करूँ? जो कुछ करूँ उस में तकलीफ़ ही बढ़ कर यदि मेरे लिए केवल कष्ट ही बचें तो आप पर क्रुद्ध हो कर तुकाराम अपने हिस्से का सुख क्यों छोड़े?” “अनन्य पुरुष तो सब प्रकार से एक ही बात जानता है। उस के मन में उस एक के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं आता। अगर इस दशा में मेरी ही इच्छा पूरी न हो और मेरा देश निकाला हो, तो क्या यह आप को सुहावना मालूम देता है? बच्चे का तो सब भार माता के सिर पर रहता है। वह अगर उसे दूर भी करे तो भी बच्चे को फ़िक्र क्या? तुकाराम का कहना है कि आप ऐसे समर्थ हो कर फिर इतनी देर क्यों?” “पर आप को समर्थ भी तो कैसे और किस के सामने कहूँ? आप की कीर्ति भी कैसे बखानूँ? मिथ्यास्तुति से क्या लाभ? इस से तो यही बेहतर है कि आप की पोल जैसे ही रहने दूँ। अगर दास कहलाऊँ तो उस की पहचान मेरे पास नहीं। मेरे पास है केवल दुर्दशा और फ़जीहत। अब तो आप की ओर मेरी ही मुँहमारी है। तुकाराम तो निर्लज्ज ही बन कर आप को टेर रहा है।” “पर मैं क्यों हठ करूँ? आप की डु-डुगी तो फ़ज़ल ही बज रही है। यदि प्राण अर्पण करूँ तो क्या होगा? पर मेरे इन शब्दों से यह तो बताओ कि आप को क्या लाभ होगा? राजा अगर अपनी पोशाक न दे तो कम से कम भूखे को खाना तो उसे देना ही चाहिए। अब अगर आप मेरी उपेक्षा करें तो फिर यह दूकानदारी किस काम आवेगी?” “अपनी किसी बात से मैं कंदराया नहीं हूँ। मुझे तो डर इस बात का है कि आप के नाम की क्लीमत् नहीं रहती। हे गोविंद, आप की निदा इन कानों से सुनी नहीं जाती। तुकाराम को लाज काहे की? वह तो अपने मालिक का काम करता है।” “अगर आप मेरा कहा सुनते ही नहीं है तो फिर भूसे का व्यर्थ क्यों छानूँ? अब तो ऐसा करूँगा कि घर-बैठे आप मुझे समझाने के लिए मेरे पास आवें। जितने उपाय वे सब कर चुका। अब कहाँ तक राह देखूँ? तुकाराम तो समझता है कि आप की आज्ञा ख़तम हो चुकी। अब तो सीधा हो कर आप के पैरों पर ही पड़ा रहूँगा।” मन में ऐसे विचार करते हुए और मुख से विडल नाम का स्मरण करते हुए तुकाराम जी उस शिलातल पर तेरह दिन पड़े रहे।

अब तो भगवान् पर सचमुच ही बड़ा संकट आ पड़ा। तुकाराम जी की जान चली जाती, तो उन की क्या हानि थी? उन का मन तो हरिचरणों में लीन हो ही चुका था। पर लोगों में सब जगह यह बात फैल जाती कि श्रीविडल के लिए तुकाराम जी ने

अपना देह छोड़ दिया। जिन लोगों की भक्तिमार्ग पर भ्रष्टा थी और जो तुकाराम को भगवद्भक्त मानते थे, उन की भ्रष्टा पर बड़े जोर से बार पड़ता और संभव था कि उन में से कुछ पुरुषत्वया नास्तिक बन जाते। यदि तुकाराम का कुछ दोष होता तो बात और थी। पर उस का दोष तो रत्नी भर मीन था। उस का पद्म पुरुष सत्यता का था। अर्थात् सच और झूठ, भक्ति तथा अभक्ति, न्याय और अन्याय इत्यादि सद्गुणों के ऋग्ड़े का मौक़ा था और इस ऋग्ड़े की हार-जीत पर कई बातें निर्भर थी। तुकाराम जी की तो सब ही बात बिगड़ गई थी। घरवार की लाक पहले ही उड़ चुकी थी। जिसे वह परमार्थ समझते थे, वह भी अब स्वार्थ के साथ ढूँढ़ चुका था। और दोनों तरफ़ के लोग उन की निंदा ही करते थे। इतना भी हो कर जिस भ्रष्टा के आधार पर उन का जीवन था, उसी भ्रष्टा का नाश होने का समय आ पहुँचा था। उन्हें या तो ईश्वर-साक्षात्कार इत्यादि बातें—स्वयं ईश्वर का अस्तित्व भी—झूठ मानना पड़ता था उसी भ्रष्टा के लिए जान देनी पड़ती। इसी पंच में भीतुकाराम महाराज तेरह दिन पड़े थे। इस अवकाश में उन की प्रकृति बिल्कुल सीध हो गई थी। शरीर थक गया था। हाथ पैर हिलाने की भी ताकत न बची थी। तेरहवें दिन रात को आप को खूब ही म्लानि आई। पर आप का बराबर श्रीविठ्ठल का स्मरण तथा चिंतन चल रहा था। जब फोर सुने तो 'राम कृष्ण हरि' 'राम कृष्ण हरि' के शब्द बुनाई देने थे। लोग समझ चुके कि अब इन का अंतकाल समीप आ पहुँचा है। पर स्वयं भीतुकाराम जी को विद्वल-दर्शन हो रहा था और आप कह रहे थे कि "महाराज यह चिंत तो आप के स्वरूप में आसक हो, आप के पैरों से जा लिपटा है। आप का सुंदर मुल देखते ही अब दुःख का दर्शन हो नहीं सकता।।। सब इंद्रियाँ, जो इधर-उधर घूमते-घूमते चुकी हो रही थीं, आप के अंग-संग से पुरुषत्वया आराम पा चुकीं। तुकाराम को ईश्वर की मेंट होते ही उस के सब संसार-बंधन छूट गए।"

भक्तवत्सल भगवान् कहीं दूर थोड़े ही रहते हैं। वे तो भक्तों के हृदय में ही बसते हैं। उन्हें देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अपने हृदय-दर्पण में ही उन्हें देखना होता है। अज्ञान के तथा अहंता के पटल जब तक उस दर्पण पर हैं, तब तक वह आत्मस्वरूप किसी को नहीं दीखता। पर अनुतापयुक्त आँसुओं के जल से वह मल का पटल धुलते ही उस में आत्मस्वरूप परमेश्वर का दर्शन होने लगता है। तुकाराम जी का यह पटल दूर होते ही उन्हें परमात्मा बालकृष्ण के स्वरूप में दिखाई देने लगे। इसी के साथ-साथ जल, थल, लकड़ी, पत्थर सब पदार्थों में वर्तमान परमात्मा का कमी-कमी कुछ चमत्कार दिखाते पड़ते हैं—जिन बातों को सामान्य प्रकृति-नियमों के अनुसार हम नहीं देख सकते। ऐसी बातें देखने पर जड़-प्रकृतिवादी वैज्ञानिक उन्हें 'प्रकृति की मनमानी करतूत' समझते हैं। भाविक लोग जब कभी ऐसी आश्चर्यजनक बात देखते हैं तो वे उसे 'भगवान् की अतर्क्य करनी' मानते हैं। ऐसी ही एक अतर्क्य बात इस समय हुई। तुकाराम जी के कुछ भक्तों को स्वम आया कि 'तुकाराम जी के अमंगों का बस्ता इंद्राक्षणी में पानी पर तैर रहा है।' जगते ही वे लोग दौड़े आए। देखते हैं तो इधर तुकाराम जी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं और उधर पानी में कुछ फूली हुई चीज़ तैर रही है। ऋद से दो-बार आदमी

कूद पड़े और बस्ती को निकाल लाए। देखा तो पत्थर कूट गए हैं। उधर का कपड़ा भीम गवा है, पर भीतर अभंग लिखे हुए कागज़ ज्यों के त्यों हैं। अब तो भक्त लोगों के आनंद की सीमा न रही। वे भीविडल नाम की गर्जना करते हुए तुकाराम के पास आए। महाराज की दर्शन-समाधि खुली ही थी और वे आँखें खोल ही रहे थे कि इन लोगों की आनंद गर्जना उन के कानों में आई। लोग कहते थे “महाराज उठिए। आप की भक्ति से प्रसन्न हो परमात्मा ने आप के अभंग पानी में भी बचाए हैं। उठिए, देखिए।”

श्रंतःकरण में सगुण परमात्मा का साक्षाद्दर्शन होने का आनंद और बाहर लोगों द्वारा बस्ता खोल कर निकाले हुए सूखे अभंगों के कागज़ देखने का आनंद। हुक्का भीतर-बाहर आनंद से ही भर गए। आप का जी भर आया। आँखों से आनंदाशु बहने लगे। ‘आहा! परमात्मा ने मेरे अभंग पानी में भी बचाए अर्थात् परमात्मा को मेरे लिए तेरह दिन पानी में रहना पड़ा।’ इस भोली भावना की लाभदायक कल्पना से ही, उन फूलों से भी कोमल मन के भक्तराज का हृदय पिघलने लगा। इसी सुख-दुःख मिश्रित प्रेम की अवस्था में आप के मुख से सात अभंग निकले। अभंग रचने की मनाही होने पर केंके हुए अभंग पानी में तेरह दिन सूखे रह कर निकलने के बाद पहले ही पहले मुख से निकले हुए ये सात अभंग भक्तों ने उसी वक्त उतार लिए। अब आप की अभंग-वाणी को ईश्वर-प्रसाद का साथ मिलने से विशेष महत्व प्राप्त था। इस के बाद प्रायः आप के अभंग अन्यान्य लेखकों के ही हाथ के लिखे मिलते हैं। पर इन अभंगों की मृदुता कुछ और ही है। ये सातों अभंग प्रेम-रस में सने हुए हैं। इन पर से उस समय की तुकाराम महाराज की मनःस्थिति साफ़-साफ़ दिखाई देती है। आप कहते हैं—“महाराज, मैंने बड़ा अन्याय किया। मैंने आप का श्रंत देखा। लोगों के बोलने से अपना चित्त दुखाया। मुझ-से नीची जाति के अधम के लिए मैं ने आप को तकलीफ़ दी और आप को थकाया। तेरह दिन अपनी आँखें मूँद मैं यहाँ पड़ा रहा। भूख, प्यास और मन की इच्छा तीनों का भार आप पर डाला और अपना योग-क्षेम आप से ही कराया। पानी में कागज़ आप ने बचाए, मुझे लोक-निंदा से बचाया और इस तुकाराम के लिए आप ने अपना प्रण निबाहा।” “पर ऐसी क्या मेरे सिर पर तलवार पड़ी थी या पीठ पर बार आया था कि मैं ने इतना बखेड़ा मचाया। यहाँ मेरे पास और वहाँ पानी में दो जगह आप को खुद खड़ा रहना पड़ा और इधर और उधर दोनों जगह मुझे आप ने ज़रा भी धक्का न लगने दिया। लड़का थोड़ा भी अन्याय करे तो माँ-बाप उस की जान लेने तैयार होते हैं। फिर यह तो ज़रा-सी बात न थी। पर ऐसी बात को तो आप ही सह सकते हो। हे कृपावान् आप-सा दाता कौन है? कहाँ तक आप के गुण बखानूँ? तुकाराम की वाणी तो अब नहीं चलती।” कोई मेरी नर्दन काटे या दुष्ट तकलीफ़ दें, पर अब आप को कष्ट हो ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझ ऐसे चंडाल के हाथ से एक बार भूल हो गई। आप को पानी में खड़ा कर अपने अभंगों के कागज़ बचवाए। इस बात का विचार न किया कि मेरा अधिकार क्या। मैं न समझ सका कि समर्थ पर भार कितना डालना चाहिए। हो गया सो हो गया। उस बारे में अब कुछ बोलना व्यर्थ है। अगले मौकों पर तुकाराम ये सब बातें ध्वान में रखेगा।” “हे पुरुषोत्तम,

माता से भी कामल, चंद्र से भी शीतल और पानी से भी पतला तू प्रेम की कलोल है। तेरी सुसरी क्या उपमा हूँ ? तेरे नाम पर से बार जाऊँ। अमृत तूने मधुर बनाया। सो तू अमृत से भी मधुर है। पंच-तत्वों का उत्पादक और सब सत्ता का नायक तू ही है। अब बिना कुछ बोले तेरे चरणों पर सीप धरता हूँ। हे पंढरीनाथ, तुकाराम के सब अपराधों को क्षमा करो।”

इस प्रसंग से तुकाराम की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। यह वार्ता कि परमेश्वर ने पानी में से, तुकाराम जी के अभंग बचाए, सब लोगों को हात हो गई। जिस समय यह वार्ता रामेश्वर भट जी के कानों पर पड़ी, उस समय वे कहाँ थे ? आप ने ये वार्ता आकंदी में सुनी। उस समय आप आकंदी अपनी देह-पीड़ा निवारण करने के हेतु से अनुष्ठान कर रहे थे। आप के देह में जलन होती थी। यह जलन पैदा होने का कारण यों हुआ। तुकाराम जी ने अपने अभंग सचमुच नदी में फेंक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेश्वर भट मन में दुखी हुए। वे स्वभाव से दुर्जन नहीं थे। लोगों के भड़काने से भड़क गए थे। इस लिए वह जोरा कम होते ही आप को बुरा लगा। पर अब क्या ? होना था सो हो चुका था। इसी मन की अबस्था में आप एक बार नागनाथ महादेव के दर्शन को गए। यह स्थान पूने में आज भी विद्यमान है। उस समय पूना बड़ा शहर न था। वह ‘पुनवाड़ी’ नाम की एक छोटी सी बस्ती थी और उस का ‘लोहगाँव’ कसबे में ही समावेश होता था। नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेश्वर भट जी नहाने के लिए एक बावली में उतरे। यह बावली आज तक भी पूने में मौजूद है। इसी बावली पर अननघइराह नाम का एक फ़कीर रहता था। उस ने रामेश्वर भट जी से मना किया, पर आप ने न माना। स्नान करते ही आप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ। दर्शन कर आप वापस गए, अनेक उपाय किए, पर जलन होती ही थी। इस जलन की शांति करने के हेतु से आप आकंदी जा कर अनुष्ठान कर रहे थे। शरीर तथा मन दोनों दुखी रहते हुए ही रामेश्वर भट जी ने यह तुकाराम के अभंग नदी में से सूखे निकलने की वार्ता सुनी। अब तो आप को अधिक ही बुरा मालूम होने लगा। इसी अबस्था में आप के स्वप्न में भीमनेश्वर महाराज ने आ कर तुकाराम की क्षमा माँगने के लिए कहा। आप ने अपने एक शिष्य के हाथ तुकाराम जी के पास अपना क्षमा-पत्र भेजा। तुकोबा ने उस शिष्य का सत्कार कर पत्र को बंदन किया और पत्र पढ़ने के बाद उत्तर में एक अभंग लिख भेजा। अभंग का अर्थ यह था कि “अगर चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। उसे बाप या साँप खा नहीं सकता। उस के लिए विष भी अमृत बनता है, आघात हिलकर होते हैं और बुरी बातें भी भली बन जाती हैं। दुःख भी सब प्रकार से सुख देने लगता है। आग की ज्वालाएँ ठंडी पड़ती हैं। वह प्राथिमात्र को प्राणों से भी प्रिय होता है और उस के भी मन में सभी के प्रति एक ही भाव रहता है। तुकाराम समझता है कि नारायण की कृपा इसी अनुभव से जानी जाती है।” इस उत्तर को पढ़ते ही रामेश्वर भट जी के देह की जलन शांत हुई। थोड़े ही दिनों में रामेश्वर भट जी स्वयं भी तुकाराम महाराज के भक्त बन गए। महाराज भी आप का बहुत आदर करते और कई बातों में आप से सलाह लेते।

पहले दो साक्षात्कारों की अपेक्षा इस साक्षात्कार का महत्व अधिक था। तुकाराम की ईश्वर के प्रति जो भक्ता थी वह तो इस साक्षात्कार से बढ़ ही गई, परंतु इस साक्षात्कार के कारण तुकाराम जी के प्रति जो लोगों की भक्ता थी वह भी बढ़ गई। इस के बाद भी तुकाराम के कुछ लोगों ने कष्ट दिए, पर उन कष्टों की तुलना इस आपत्ति के साथ नहीं हो सकती। इस आपत्ति से तुकाराम जी के भक्तादि सब गुण कसौटी पर प्रखरे गए और लोगों को ज्ञात हो गया कि यह माल बिल्कुल खरा है। भक्ता के अतिरिक्त तुकाराम जी का अब अधिकार भी बढ़ गया। अब आप अनुभव-युक्त वाणी से उपदेश करने लगे। परमात्मा भाव-भक्ति से दर्शन देता है, भक्तों का संकट निवारण करता है, संतों का प्रतिपाल करता है, असंतों को सज्जन बनाता है इत्यादि बातें उन के मुख से निकलते समय अब केवल केरी शब्दों में न रहतीं। अब उन में अनुभव की सामर्थ्य रहती और इसी कारण वे शब्द अब केवल श्रोताओं के एक कान में से भीतर घुस दूसरे कान में से सीधे बाहर निकल जाते पर ठेठ हृदय को स्पर्श कर उसे जगाते। अगली वारी के समय पंढरपुर में सब संतों में भी आप का बड़ा आदर हुआ। शानेश्वर, नामदेव और एकनाथ के साथ भक्त लोग संतों में तुकाराम का भी नाम लेते लगे।

इस प्रकार से भीतुकाराम महाराज संकटों की कसौटी पर परखे गए। इस के बाद भी उन के श्रोत्र की परीक्षा दो बार हुई पर दोनों बार आप पूर्णतया विजयी हुए। पहला प्रसंग आप पर लोहगाँव में आया। पहले एक बार हम कह आए हैं कि भीतुकाराम महाराज के कीर्तन लोहगाँव में बहुत होते थे। इस गाँव के लोगों की भीतुकाराम पर इतनी भक्ति थी कि उन की मृत्यु के पश्चात् लोहगाँव के लोगों ने वहाँ भीतुकाराम जी का मंदिर बनाया। लोहगाँव छोड़ अन्यत्र कहीं भी आप का मंदिर नहीं है। महाराष्ट्र की तीन विभूतियों में से भीसमर्थ रामदास स्वामी जी के कई मंदिर पाए जाते हैं पर भी शिवजी महाराज का केवल मालवण में और भीतुकाराम महाराज का केवल लोहगाँव में। इस गाँव में भीतुकाराम जी पंढरी से लौटते समय प्रायः कुछ दिन ठहर कर कीर्तन करते थे। यहाँ पर शिवजी कासार नाम का एक लोहे-तांबे के बर्तनों का व्यापार करनेवाला एक दूकानदार रहता था। यह बड़ा मालदार था। इस के पास सामान लादने के लिए पांच सौ से अधिक बैल थे। यह स्वभाव से बड़ा कृपण, कुटिल और निर्दय था। लोहगाँव के सब लोग भीतुकाराम जी का अमृत से भी मधुर कीर्तन सुनने जाते पर शिवजी कभी भूल कर भी न जाता। उलटा घर बैठ तुकाराम की हँसी उड़ाता और निंदा करता। इस की स्त्री भी इसी के स्वभाव की, बल्कि कुछ बातों में इस से भी सवाई थी। एक दिन कुछ लोगों के बड़े आग्रह से शिवजी कीर्तन सुनने गया। कीर्तन में तुकोबा की प्रासादिक वाणी से प्रेम-भरा प्रवचन सुन शिवजी का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन फिर गया। उस का भक्तिभाव बढ़ता ही गया और एक सप्ताह के भीतर ही वह तुकाराम जी का भक्त बन गया। एक दिन उस ने संतों को तुकाराम जी के साथ भोजन का निमंत्रण दिया। शिवजी तो बदल गया था पर उस की स्त्री न तो कीर्तन सुनने गई थी न मन में पसंदी थी। इस बरबार डुबोनेवाले तुकाराम जी का भक्त बन अपना पति भी बरबार



न बुझो दे, इस भीति से और क्रोध से उस महामाया ने तुकाराम जी को नहलाते समय उन के शरीर पर उबलता पानी डाला। महाराज के शरीर के रोम सब मुलस गए और जहाँ पानी की धार पड़ी वहाँ फफोले निकल आए। शरीर में बड़ी दाह होने लगी। तुकाराम जी को शिवजी की स्त्री के विषय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहा भी था और थोड़े-बहुत विरोध की आप ने अपेक्षा भी की थी। पर इस राक्षसी कृत्य की कल्पना किसी को न थी। पर इस हालत में भी केवल श्रीविठ्ठल का नामस्मरण करने के सिवा आप ने कुछ भी क्रोध न किया। शिवजी का जी व्यथित हुआ पर बेचारा क्या कर सकता था। अपने ही दाँत और अपने ही आँठ। तुकाराम जी मुक्काम खतम होने पर देह चले आए। पीछे कुछ दिनों के बाद उस स्त्री के शरीर पर कुछ के दाग दिखाई देने लगे। यह बहुत चबराई और मन में समझी कि उस की दुष्टता का ही वह दंड था। अंत में रामेश्वर भट जी की सलाह से जिस स्थान पर तुकाराम जी को नहलाया था वहाँ की मिट्टी बदन में मली गई और वे दाग गायब हो गए। शिवजी के साथ उस की स्त्री भी तुकाराम की भक्त बन गई और श्रीविठ्ठल की सेवा करने लगी।

पाठक इस से यह न समझ लें कि तुकाराम जी को कुछ सिद्धि प्राप्त हुई थी; या उन के शाप से ही ये बातें हुई थीं। यद्यपि रामेश्वर भट जी के तथा शिवजी की स्त्री के विषय में यह कल्पना की जा सकती है, तथापि इस कल्पना में सत्यता का बहुत अंश नहीं। इस दुनिया में जो अनेक अतर्क्य बातें होती हैं, उन्हीं में से ये थीं। शाप की कल्पना भी तुकाराम के विषय में की नहीं जा सकती। उस शांत और ज्ञानशील भगवद्भक्त ने क्रोध पर विजय पाई थी। जहाँ क्रोध नहीं, वहाँ शापवाणी मुल से कैसे निकले! इस की अपेक्षा तो यही कहना अधिक उचित होगा कि ईश्वर को उन की बुद्धि बदलनी थी और उसे बदलने के लिए ये बातें निमित्तमात्र हुईं। या ऐसा कहें कि उन की दुष्टता उस चरम सीमा को न पहुँची थी, जहाँ कि सुधार असंभव है। उन्हीं के मन में एक प्रकार का अनुत्पाप हुआ जिस से कि वे शुद्ध हो कर सुधर गए। पर सभी दुष्ट इस प्रकार से सुधरते नहीं हैं। कुछ दुष्ट लोगों की दुष्टता इस हद को पहुँच जाती है कि वहाँ ईश्वर को भी हाथ मल कर चुप रहना पड़ता है। इसी प्रकार का एक ब्राह्मण देह में ही विलकुल तुकाराम के पड़ोस में रहता था। उस का नाम मंवाजी बुवा था। यह देह में महंत समझा जाता था और लोगों को मंत्रोपदेश तथा अन्य दार्भिक प्रकार से भुला कर उन से पैसे कमाता था। श्रीतुकाराम जी की कीर्ति बढ़ती हुई देख और रामेश्वर भट जी के-से विद्वान् ब्राह्मणों को उन का शिष्य बना हुआ देख यह मन ही मन में जलता। यह प्रायः हर एकादशी को तुकाराम का कीर्तन सुनने जाता और कई बार उसे तुकोबा भी उसे बड़े आदर से बुलाते। पर इस के मन पर उस कीर्तन-वचन का कुछ भी असर न होता। ठीक ही है। यदि बड़ा नीचे को मुँह कर आँधा ज़मीन पर रक्खा जावे, तो चाहे कितनी भी पानी की वर्षा ऊपर से क्यों न हो, उस के भीतर एक बूँद भी न जाने पावेगा। मंवाजी तुकाराम की यथेष्ट निंदा करता, तुकाराम के कीर्तन में आनेवाले लोगों से लड़ता, उन्हें तकलीफ़ देता और अपना ही उपदेश लेने की सलाह देता। सारास, जितना कुछ हो सकता था, सब करता। पर एक दिन उसे ऐसा

मोक्ष मिला कि उस के मन का अरमान भी पूरा हो गया और तुकाराम जी की शक्ति भी पूरी कसौटी पर परखी गई ।

हम पीछे कह चुके हैं कि तुकाराम जी के घर के सब काम विजाई और कान्होबा देखते थे । तुकाराम जी को एक और पुत्र हुआ- वा जिस का नाम महादेव था । इस लड़के को दूध पिलाने के लिए जिजाई अपने घर से एक भैंस ले आई थी । एक एकादशी के दिन वह भैंस मंबाजी बुवा की फुलवाड़ी में घुस गई । वह फुलवाड़ी तुकाराम जी के घर के पास थी और फुलवाड़ी और घर के बीच में से हो कर भीविडल-मंदिर को जाने की राह थी । फुलवाड़ी के चारों ओर कटि लगे थे ताकि जानवर भीतर न जावे । पर तुकाराम जी की भैंस ने उन काँटों की परवाह न कर उस दिन उस फुलवाड़ी में प्रवेश किया और मंबाजी बुवा के फूल के पेड़ों में से कुछ खा डाले और कुछ कुचल डाले । जब उसे फुलवाड़ी में किसी ने हाँका तो दूसरी ही जगह से भागी और उस के दौड़ने से रास्ते भर वे काँटे फैल गए । एकादशी का दिन था, रात को कीर्तन होनेवाला था, और कीर्तन के मार्ग में भैंस ने काँटे फैला दिए ; यह देख श्रीतुकाराम महाराज खुद जा कर कटि काड़, रास्ता साफ़ कर रहे थे कि मंबाजी बुवा घर आ पहुँचे । उन्हें भैंस के अत्याचार की खबर दी गई । क्रोध से भभूके हो कर फुलवाड़ी में आ कर देखा तो कई पेड़ों का नाश नज़र पड़ा । क्रोध का ठिकाना न रहा । उसी रास्ते में तुकाराम जी की मूर्ति काँटे साफ़ करती हुई नज़र आई । क्रोध दिखलाने के लिए स्थान मिल गया । मंबाजी ने उन्हीं काँटों में से एक काँटे की छड़ी उठाई और तुकाराम जी की खुली पीठ पर फटकारना शुरू किया । हाथ से फटकार और मुख से गालियाँ । तुकाराम जी शक्तिपूर्वक वहीं खड़े रह गए । चार-पाँच फटकार मारने पर कई जगह से जब लोहू बहने लगा, तब मंबाजी का क्रोध शांत हुआ और वे अपने घर चले गए । इधर तुकाराम जी महाराज चुपचाप विडल-मंदिर में आए और मन की बातें भीविडल से अमंग रूप में कहने लगे । आप ने कहा—“हे विठोबा, कुछ भी तकलीफ़ जान पर आ पड़े, पर तेरे चरणों को मैं न छोड़ूँगा, न छोड़ूँगा, न छोड़ूँगा । इस देह के कोई शस्त्र से काट कर सौ-सौ टुकड़े क्यों न करे पर मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि इस तुकाराम ने अपनी बुद्धि पहले ही से सावधान कर रखी है ।” आप ने आगे कहा—“हे विठोबा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि मेरी ज़मा की सीमा देखने के लिए मुझे काँटों से मरवाया । गालियों की तो कुछ मर्यादा ही न रही । कई प्रकार से मेरी फज़ीहत हुई, पर यह बहुत अच्छा हुआ कि क्रोध के हाथ से मुझे छुड़ा लिया ।” इस का नाम ज़मा और इसी का नाम साधुता है क्रोध या दुःख रहा दूर, ऊपर आनंद इस बात का कि क्रोध के हाथ से छूट गए । पर धन्य है मंबाजी के भी क्रोध को और दुष्टता को कि आप ने तुकाराम के से शक्ति-सागर से भी फहलाया कि “हे देव, अब ऐसे दुर्जनों की संगति बहुत हुई ।” इस के प्रायश्चित्त में कि वेसे भी शब्द मुख से निकल गए, आप ने जा कर उलटी मंबाजी की ही ज़मा-साधना की और उसे आदरपूर्वक कीर्तन में बुला लाए । मंबाजी ने केवल इतना ही कहा कि “पहले ही ज़मा माँगते तो इतना बखेड़ा क्यों होता !”

मन्वाजी ऐसे पुरुषों का या शिवजी की स्त्री ऐसी स्त्रियों का विचार मन में कर के और उन के द्वारा तुकाराम ऐसे सत्पुरुषों को दिए हुए दुःख का दृश्य आँसुओं के सामने आते ही चित्त उद्विग्न हो जाता है। मन में ऐसा भी विचार आए बिना नहीं रहता कि विधाता ने इन लोगों को दुनिया में क्यों पैदा किया। पर विचार अधिक करने से यह पूर्वोक्त विचार ठहरता नहीं है। यदि दुनिया अच्छे ही अच्छे लोगों से भरी होती, तो सृजनों की कोई भी क्रूरता न करता। आज गुणों को जो महत्व प्राप्त हुआ है, वह केवल दोषों के ही कारण है। जब तक बुरी बात आँसुओं के सामने नहीं आती, तब तक अच्छी बात की क्रीमत्त ही ध्यान में नहीं आती। तुकाराम महाराज ने बहुत ठीक कहा है कि “बुरे के कारण भले की और कमजोर के कारण अतल की क्रूरता होती है। एक के बिना दूसरे की कुछ क्रीमत्त नहीं। यह व्यर्थ है। विष अमृत की योग्यता बढ़ाता है। उसी प्रकार कड़वा मीठे की और हानि लाभ की। अँधेरे के कारण प्रकाश को और रात के कारण दिन को महत्व है। ऊँचा, नीचा, पत्थर, हीरा इत्यादि पदार्थ एक के बिना एक व्यर्थ हैं। तुकाराम कहते हैं कि “बुर्जनों ही के कारण सृजन पहचाने जाते हैं।” पर फिर भी अत मे यह कहे बगैर नहीं रहा जाता कि परमात्मा ऐसे लोगों से बचावे।

---

## सप्तम परिच्छेद

### सिद्धावस्था और प्रयाग

सग जाने सग ही की भाषा

सासारिक पुरुषों की दृष्टि से श्रीगुकाराम महाराज की जीवनी उन के सिद्ध होते ही समाप्त हो चुकी। सिद्धावस्था को पहुँचने के बाद गुकाराम जी ने जो कुछ किया उस की ओर दो दृष्टियों से लोग प्रायः देखते हैं। एक भक्तों की दृष्टि से और एक सांसारिक दृष्टि से। भक्तों को गुकाराम जी में और ईश्वर में कुछ भेद ही न दीखता था। वे उन को ईश्वर स्वरूप ही मानते थे। अतएव उन सब बातों में, जो कि सृष्टि के नियमों के अनुसार अतर्क्य समझी जाती थीं और जिन के लिए किसी न किसी प्रकार से गुकाराम जी निमित्त कारण थे, भक्त लोग उन्हें ही मुख्य कारण समझते हैं। पश्चात्तर में उन सब बातों के लिए जो कि सृष्टि नियमों के अनुसार हो रही थीं, और जिन के लिए भी गुकाराम जी केवल निमित्त मात्र ही थे, अभक्त लोग उन्हें ही दोष देते हैं। उदाहरणार्थ गुकाराम के भावी चरित्र में जो कुछ दैवी चमत्कार हुए उन का कारण भक्त लोग गुकाराम को ही समझते हैं, तो पर वार की फिक्र न करना, पर एक के पीछे एक सतान पैदा करते ही जाना, उन के पेट की, लड़कों की शिक्षा की या लड़कियों के विवाहों की कुछ फिक्र न करना इत्यादि बातों का दोष अभक्त लोग गुकाराम जी के ही सिर पर मढ़ते हैं। पर वास्तव में देख जाय तो श्रीगुकाराम महाराज न पहले प्रकार की बातों के लिए न दूसरे

प्रकार की बातों के लिए जवाबदार समझे जा सकते हैं। उन की दृष्टि से जब सब संसार स्वप्न-सा मिथ्या था तो संसार में जो कुछ बातें हो रही थीं वे भी सब मिथ्या थीं और इस कल्पमिथ्या के ऋगड़े में वे यदि सदा सत्य का ही पक्ष लेते और झूठी बातों की परवाह न करते तो उस में उन का क्या दोष था ! मंत्राजी के हाथ से काँटों की छड़ी पीठ पर पड़ते हुए उन का देह जैसे अचर्य लोहू से भर गया जैसे ही स्त्री समागम के समय उन के देह को सुख भी मिला। परंतु जिस प्रकार पहले देह-दुःख से उन्होंने ने अपना मन न दुखाया, प्रत्युत जो कुछ ईश्वरी इच्छा से हुआ उसी में सुख ही माना, उसी प्रकार संतति को देख भी उन्होंने ने अपने मन को उस में न लुमाया। वे तो पूर्ण विरक्त स्थिति से इस संसार में रहते थे। ईश्वर-स्वरूप का दर्शन हो कर हृदय-गदल पर का मल दूर होते ही वे मुक्त हो चुके थे। पर जब तक देह था, देह के धर्म सृष्टि नियमों के अनुसार ही रहे थे। उन कामों के लिए या उन से प्राप्य फलों के लिए न उन की इस प्रकार की इच्छा थी न उस प्रकार की। सुख तथा दुःख दोनों विषय में वे एक से ही अनासक्त थे। अर्थात् एक प्रकार के कामों के लिए न उन की स्तुति की जा सकती है; न सिद्धावस्था में किए हुए दूसरे प्रकार के कामों के लिए निंदा। अतएव इन सब प्रसंगों पर कुछ भी टीका-टिप्पणी न करना ही उचित है। जो प्रसंग भले या बुरे आ गुजरे उन का निषेध न भक्त कर सकते हैं न अमक्त। बातें यही हैं, केवल भेद है इस विषय में कि तुकाराम जी पर उन के गुण-दोष कितने लाये जा सकते हैं। सो इस ऋगड़े में न पड़ दोनों प्रकार की कुछ बातों का संक्षेप में लिख कर और उन के प्रयाण का वर्णन कर यह जीवन-खंड से भरा हुआ पूर्वार्द्ध पूरा करने का विचार है।

सब से पहले जिस संसार को तुकाराम भूट समझते थे उसी संसार में उन के यह-कृत्यों का विचार करें। गत परिच्छेदों में तुकाराम की दो सतान का उल्लेख आ चुका है—कन्या काशी और पुत्र महादेव। जिजाई के और भी चार संतान हुई। अर्थात् कुल मिला कर छः संतान थीं जिन के नाम क्रम से काशी, महादेव, भागीरथी, विडल, गंगा और नारायण थे। काशी सब से बड़ी थी और घर के कामों में जिजाई की बड़ी मदद करती थी। यह जिजाई की आत्मानुसार चलती और कई बार तुकाराम जी के लिए खाने-पीने की चीजें ले कर उन्हें भंडारा के पहाड़ पर पिता के पास पहुँचा आती। जिजाई तो संसार-दुःख से कँदरी थी ही। कई बार अपने संसार की ओर दुर्लक्ष्य करने के विषय में वह तुकाराम से बोलती। पर नींद में बकवाद करनेवाले के बकने पर जैसा कोई जागता पुरुष ध्यान नहीं देता, वैसे ही उस के बोलने पर तुकाराम जी कुछ न ध्यान देते। उलटे हैंसते और उसे संसार का मिथ्यात्व समझाते जो उसे कभी न समझ में आता। काशी के आठ-दस साल की हो जाने के बाद एक दिन जिजाई उस के विवाह के विषय में तुकाराम के पीछे पड़ी। आप ने सुना और एक दम उठे। बाहर आ कर कुछ लड़के खेलते थे उन में से दो लड़कों का हाथ पकड़ घर में ले गए और चार ब्राह्मणों को बुला कर काशी और भागीरथी की हस्ती चढ़ाई और टीका निश्चित किया। तुकाराम जी के समधी होने का माग्य समक उस लड़कों के माता-पिताओं ने इन्कार नहीं किया और दोनों विवाह हो गए। महादेव

और बिहल दोनों दिन भर बाहर खेलते रहते। उन्हें शिक्षा देने का किसी ने प्रबंध न किया। दिन-रात जिजार्ई की बातें सुनते-सुनते कुछ आश्चर्य नहीं कि उन के मन में तुकाराम जी के विषय में कुछ आदर न रहा हो। तुकाराम जी के पश्चात् इन दोनों का भी नाम विशेष सुनने में न आया। गंगू का भी विवाह इसी प्रकार से हो जाता अगर वह बड़ी होती। उस का विवाह तुकाराम की मृत्यु के पश्चात् हुआ। तुकाराम जी के इन तीनों दमादों के कुल-नाम मोके, गाड़े और जांबुदकर थे। लड़कियों में केवल भागीरथी पितृ-भक्त तथा भगवद्भक्त थी। उस का पति मालाजी भी तुकाराम जी का भक्त था। तुकाराम जी ने उसे एक गीता की पोथी दी थी जिस से वह नित्य गीता-पाठ करता। तुकाराम जी के पुत्रों में सब से कनिष्ठ नारायण था। इस का जन्म पिता की मृत्यु के चार महीने पश्चात् हुआ। अर्थात् इस ने पिता का मुख भी न देखा था। परंतु तुकाराम जी के पश्चात् इसी पश्चात्जात लड़के ने उन का नाम चलाया। भीशिवाजी महाराज से इस ने फिर देहू गाँव की महाजनी के अधिकार प्राप्त किए और मंदिर के इनामी गाँवों की तथा मंदिर की देख-भाल इसी ने अपने हाथों में ली। आज भी देहू का मंदिर तथा वहाँ के अधिकार इसी के वंशियों के हाथ में हैं।

अब जो कुछ चमत्कार तुकाराम जी के चरित्र में पाए जाते हैं, उन्हें भी संक्षेप में पाठकों को सुनावें। इंद्रायणी के तीर पर तुकोबा प्रायः भजन करने बैठते। एक बार पास के ही खेतवाले ने इन से कहा, 'महाराज, आप भजन करने बैठते ही हो। मेरा खेत भी यहीं पास है। अगर आप यहाँ बैठे-बैठे खेत की निगरानी करें, तो मैं आप को बीस सेर जवार दूँगा।' महाराज ने बात मान ली और खेत के पास भजन करने बैठे। हाथ में कौंक, मुख से अभंग। कौंक की आवाज़ से प्रायः पखेरू खेत पर न आते। एक दिन जब कि जवार बिल्कुल कटने को थी, आप ध्यान में मग्न हुए। कौंक की आवाज़ बंद हो गई। चिड़ियों का खुला खेत मिला। वे आ बैठी और खेत चुगने लगीं। थोड़ी देर में आप के भजन का आरंभ होते ही चिड़ियाँ उड़ने लगीं। आप समझे कि आप के डर से ही वे उड़ीं। देख कर खेद हुआ और मुख से अभंग निकला कि "पांडुरंग बिहल की कृपा का विश्वास तो तभी कहना चाहिए, जब कि प्राणिमात्र एक-सा दिखाई दे। मुझ से शंका करने का किसी को कारण नहीं। मुझे तो सब दुनिया एक रूप है। तुकाराम जिसे-जिसे देखता है, उसे वह आप ही-सा समझता है।" विचार में मग्न होते ही फिर से चिड़ियाँ खेत पर बैठने लगीं। इसी अवसर में वह किसान भी कहीं से आ निकला। देखा तो चिड़ियाँ खेत चुग रही हैं। तुकाराम जी का कबूल किया धान्य न देना पड़े, इस लिए किसान पंचों के पास जा कर बोला, "तुकाराम जी के खेत को देखते-देखते ही चिड़ियाँ खेत खा गई हैं। मेरा लगभग सौ मन का तुकसान हुआ है। अब क्या किया जावे।" पंचों ने आ कर जवार कटवाई। देखा तो लगभग डेढ़ सौ मन दाना निकला। किसान की बद-मासी समझ पंचों ने निर्याय दिया कि सौ मन जवार उस किसान को दी जावे और बाक़ी तुकाराम जी के घर पहुँचाया जावे। बोरियाँ भर तुकाराम के घर भेजी गईं। बिनाई बड़ी खुश हुई। पर तुकाराम जी अड़ बैठे। बोले बीस सेर से दाना अधिक न लिया

जावेना। जिजाई चिल्लाने लगी 'बोरी घर आती है, पर तो भी-जे कमी सुख से बच्चों को न खाने देंगे। वे तो लोभों का ही घर भरेंगे और चोटे खानेवाले इसे खा जावेंगे।' आखिर पंचों की राय से कुछ दाना बाणियों को बाँटा गया और बाक़ी दाने की क़ीमत से मंदिर की मरम्मत कराई गई।

तुकोबा और जिजाई के ऐसे झगड़े कई बार होते थे। एक बार एक गन्ने के खेतवाले ने तुकोबा और कुछ संतों को रस पीने के लिए बुलाया। जाते-जाते जिजाई ने जताया कि 'देखो जी, वह खेतवाला तुम्हें कुछ गन्ने ज़रूर देगा। संभाल कर उन को घर ले आइयो।' हुआ वैसा ही। रस पिलाने के बाद गन्नेवाले ने दस-बारह गन्ने बाँध कर झूठे घर ले आने के लिए दिए। घर लौटते समय रास्ते में कुछ लड़के 'तुकोबा गन्ना, तुकोबा गन्ना' कहते इन के पीछे पड़े। लड़कों को नहीं कैसे कहा जाय? एक-एक टुकड़ा कर आप लड़कों को गन्ने बाँटने लगे। आखिर घर आते वक़्त एक गन्ना दाहिने हाथ में और एक बाएँ में—बस ऐसे दो गन्ने ले कर महाराज पर पधारे। इधर जिजाई को पहले ही खबर लग चुकी थी कि महाराज गन्ने बाँटते आ रहे हैं। उन्हें दो ही गन्ने हाथ में लिए देख जिजाई क्रोध से जलने लगी। जब तुकाराम जी ने दो ही गन्ने सामने ला कर रखे, उस ने दोनों उठा कर ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिए। दो के चार टुकड़े हुए। जिजाई को विगड़वा देख आप हँस पड़े और बोले, "क्या अच्छी बाँट हो गई। एक टुकड़ा मुझे और एक तुम्हें। बाक़ी दो दोनों लड़कों के। एक महादेव का और एक विठोबा का हिस्सा। झगड़े का काम ही नहीं।" जिजाई के क्रोध का रूपांतर हँसी और आँसुओं में होने लगा। आप मुसकुरा कर बोले, "बादल के इतने ज़ोरों से गरजने के बाद बिजली की चमक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए।"

लोहगाँव में तुकोबा के कीर्तन बहुत होते थे और सब गाँव का गाँव इन कीर्तनों को सुनने के लिए दौड़ आता था। इस गाँव के पटेल अंबाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के परम भक्त थे। एक बार जब कि तुकोबा लोहगाँव आए, अंबाजी पंत का लड़का घर में बहुत बीमार था। कीर्तन के लोभ से आप घर में लड़के को उस की माँ के पास छोड़ जाने लगे। आप की पत्नी और पड़ोसी बहुत नाराज़ होने लगे। दुनियादारी में ऐसे मौक़े क्या बोज़े आते हैं, जब अपनी नौकरी के लिए भरता हुआ बच्चा घर छोड़ लोगों को जाना पड़ता है? पर उस समय कोई कुछ नहीं करता। परंतु यदि कोई बीमार बच्चे को छोड़ कीर्तन-भजन को जावे तो सांसारिक लोभों का माथा ठनक पड़ता है। कई लोग अंबाजी पंत पर नाराज़ हुए। पर आप ने किसी की न मानी। कीर्तन को जा ही बैठे। इधर घंटे ब्राध घंटे में बच्चे की साँस बंद हो गई। मा की श्लोकाभि में शोकाभि भी आ मिली। पड़ोसियों की बातों ने ईश्वर का काम किया। शोक-क्रोध से जलती मा बच्चे को उठा कर वैसा ही कीर्तन में ले आई और तुकोबा के सामने बंद साँस का वह बच्चा उस ने रख दिया। कीर्तन में खलबली मच गई। तुकोबा ने बच्चे की ओर देखा, लोगों को शांत किया और अमंग गाने लगे—  
 "हे नारायण, अचेतन को सचेतन करना आप के लिए असंभव नहीं। आप ने कैसी सामर्थ्य पुराण-काल में दिखाई थी, वैसी ही आज दिखावें तो क्या इति

है ! इसी काल में वह सामर्थ्य क्यों न दिखाई दे ? यह क्या योद्धा है कि आप ऐसे सर्वशक्तिमान् स्वामी के हम लोग दास कहलाते हैं ? तुकाराम की तो यह प्रार्थना है कि अपनी सामर्थ्य दिखा कर एक बार तो हम लोगों के नेत्रों के कृतार्थ कीजिए ।” गाते-गाते आप ने श्रीविठ्ठल नाम का घोष शुरू किया । सब सभा ताली बजाती विठ्ठल-विठ्ठल कहती भजन करने लगी । बच्चे की भी साँस खुल गई । उस ने आँखें खोल दीं और वह भी अपने नन्दे-नन्हें हाथों से तालियाँ बजाने लगा ।

वही लोहगाँव का स्थान और वही भीतुकाराम महाराज के कीर्तन का प्रसंग । आज श्रोताओं की खूब भरमार है क्योंकि आज खुद श्रीशिवाजी महाराज कीर्तन सुनने पचारे हैं । शिवाजी महाराज के घोड़ा और जवाहर भेज कर भीतुकाराम जी को बुलाने का हवाला पहले एक बार हम दे चुके हैं । जवाहर वापस भेजने के कारण और साथ भेजे हुए अभंगों के पढ़ने से तुकोबा की जो निस्पृहता दीखती थी, उस पर शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए । यदि तुकोबा जी दर्शन देने नहीं आते, तो स्वयं ही शिवाजी ने उन के दर्शन का जाने का निश्चय किया । श्रीशिवाजी के सलाहकार लोगों ने इस साहस-कर्म से शिवाजी को मना किया क्योंकि लोहगाँव उस समय मुसलमानों के शासन में था और वहाँ जाने से महाराज के पकड़े जाने का भय था । पर आप ने किसी का कहना न माना और सादी पोराक में लोहगाँव आ कर श्रोताओं में आ बैठे । इधर मुसलमानों का खबर लगी कि शिवाजी महाराज कीर्तन सुनने के लिए आए हैं । फौरन शिवाजी को पकड़ने के लिए पठानों की फौज भेजी गई । शिवाजी महाराज के दस-बीस अनुचर जो आप का रक्षक करने आए थे, यह खबर सुन कर व्यथित हुए और उन्होंने आ कर शिवाजी को यह खबर दी और शिवाजी को चले जाने की सूचना दी । किसी अवस्था में कीर्तन छोड़ कर न जाने पर तुकाराम जी का प्रवचन जोर-जोर से हो रहा था । अतएव शिवाजी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या किया जावे । तुकोबा से पूछा गया पर आप अपने मत पर अड़े रहे और कह दिया कि “कुछ चिन्ता न करो । किसी प्रकार के संकट से डरने की आवश्यकता नहीं । नारायण अपने दासों की सदा सहायता करता है, और स्वयं उन की रक्षा करता है । भक्तों को न तो कुछ करने की जरूरत न कुछ बोलने की । तुकाराम के मत से इस विषय में शंका ही न करनी चाहिए और एक अक्षर भी न बोलना चाहिए ।” शिवाजी को इस प्रकार से दिलासा दिया और कीर्तन में विठोबा ने पुकार शुरू की “हे देव, इस प्रकार की पीड़ा आँखों से नहीं देखी जाती । दूसरों को दुखी देख मेरा चित्त दुखी होता है । क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर न होंगे ? हमें तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना चाहिए । जहाँ हरिदास होंगे वहाँ पर शत्रुओं की फौज कैसे ठहर सकती है ? हरिदासों का स्थान तो वे आँखों से भी न देख सकेंगे । अगर इस के विषय कुछ हो जावे, तो तुकाराम की सेबा का लाज आवेगी और उस का जीवन किसी काम का न रहेगा ।” तुकोबा का प्रवचन बड़े जोर से हो रहा था कि कुछ शिवाजी के-से लोग घोड़ों पर से दौड़े और उन्हें शिवाजी और मराठे सिपाही जान पठान उन का पीछा करने चले । आखिर वे पहाड़ी चूहे पहाड़ों में भाग गए और पठान ताकते ही रह गए । कीर्तन समाप्त होने पर शिवाजी महाराज भी तुकाराम



जी को बंदन कर और उन का आशीर्वाद शीघ्र पर धारण कर वापस गए ।

इस चरित्र के पाठक यह बात न भूले होंगे कि आकांक्षी का स्थान अनुष्ठान करने के लिए प्रतिष्ठ था । उन दिनों भीष्मनेश्वर बड़े जायत देवता माने जाते थे । रामेश्वर भट अपने शरीर का दाह शांत करने के लिए यहीं अनुष्ठान करने गए थे । उसी प्रकार अनेक लोग—विशेषतः ब्राह्मण—वहाँ जा कर अनेक प्रकार की कामना से अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे । धन और ज्ञान-प्राप्ति करने के लिए एक ब्राह्मण शानेश्वरजी के पास बयालीस दिन अनशन करता अनुष्ठान कर रहा था । बयालीसवीं रात को उसे स्वप्न हुआ कि “तुकाराम जी के पास देहू जाओ । वहाँ तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे ।” ब्राह्मण ने आ कर भीष्मनेश्वर जी का संदेश तुकाराम जी से कहा । तुकाराम जी को इस प्रकार की प्रतिष्ठा से घृणा थी । पर भीष्मनेश्वर जी की आज्ञा मान, उन्होंने ने दूसरे एक भक्त की ओर से आया हुआ नारियल उस ब्राह्मण को दिया और ग्यारह अन्नभंग उसे लिख दिए । ब्राह्मण की तुकाराम के प्रति भद्रा न थी । उस ने वे अन्नभंग और वह नारियल वहीं छोड़ चर्हों से कूच किया । इतने ही में श्रीशिवाजी महाराज के पुराणिक का पानी भरनेवाला ब्राह्मण कोंडोबा वहाँ आया । तुकाराम जी ने वे अन्नभंग नारियल के साथ उसे दे डाले । अन्नभंगों में बड़ा अच्छा उपदेश किया था कि “ईश्वर के पास मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थों की गठरी नहीं है कि वह अलग उठा कर तुम्हारे हाथ में रख दे । इन्द्रियों का जीत कर और मन को क्लृप्त में रख किसी साधना के लिए निर्विषय-निरिच्छ होना चाहिए । उपवास, पारण, व्रत, वेदमंत्रों के पाठ इत्यादि सब कर्मों का फल सांत है अर्थात् उस का फल थोड़े नियमित दिन तक ही मिलता है । सावनधानता से मन की इच्छाएँ दूर की जावे तो दुःख की प्राप्ति सुलभतापूर्वक टाली जा सकती है । स्वप्न में लगे घाबों से व्यर्थ रोने वालों के साथ तुम भी क्यों रोते हो । तुकाराम के मन से फल प्राप्त करना हो तो जड़ को संभालना चाहिए और सब काम छोड़ ईश्वर की शरण लेनी चाहिए ।” कोंडोबा ने भद्रा-पूर्वक अन्नभंगों का पाठ किया और थोड़े ही दिन में विद्याभ्यास कर वह अच्छा पंडित हो गया । कुछ दिन बाद जब कोंडोबा ने नारियल फोड़ा तो उस के भीतर से सुवर्णमुद्रा और मोती निकले । पीछे से पता लगा कि अहमदाबाद के एक मारवाड़ी भक्त ने वह नारियल तुकाराम जी को गुप्त-दान करने के लिए भेजा था । शानेश्वर जी की ओर से आए ब्राह्मण के चले जाने पर आपने ज्ञानेश्वर जी को संदेश भेजने के अर्थ से कुछ अन्नभंग किए । ये अन्नभंग बड़ी लीनता से भरे हुए हैं । एक अन्नभंग में कहा है कि “महाराज, आप सब शानियों के राजा हो और इस लिए आप को ज्ञानराज कहते हैं । मुझ ऐसे नीच मनुष्य को यह बड़ापन काहे के लिए ? पैर की जूती पैर में ही ठीक रहती है । ब्रह्मा आदि देव भी जहाँ आप की शरण आते हैं वहाँ दूसरे किस की आप के साथ तुलना की जावे ? तुकाराम को तो आप की गहरी शुक्तियाँ नहीं समझती और इसी लिए वह आप के पैरों पर अपना सिर मुकाता है ।”

कोंडोपंत लोहोकरे नाम का एक पुनवाड़ी का ब्राह्मण कीर्तन करते समय तुकाराम जी के साथ मृदंग बजाया करता । एक बार कुछ धनी लोग काशी-यात्रा जाने की

इच्छा से तुकाराम जी की आशीस लेने आए। उन लोगों को देख कोटोपंत के भी मन में काशी जाने की इच्छा हुई, पर द्रव्याभाव के कारण वे चुप हो रहे। तुकाराम जी ने उन की इच्छा पहिचान एक होन उठा कर उन्हें दिया और कहा कि “जिसे जाने की इच्छा है उस के लिए एक होन बहुत है। प्रतिदिन एक होन मिलना कठिन नहीं और एक होन से अधिक एक दिन में खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। रोज इस होन को भँजा कर खर्च करो पर कम से कम एक पैसा रोज बाकी रखो। दूसरे दिन तुम्हें फिर होन मिलता जावेगा।” कोटोपंत ने एक दिन परीक्षा ली। सब खर्च कर शेष पैसे सिरहाने रख सो गया। सुबह देखता है कि पैसे गायब और उन के स्थान में दूसरा होन तैयार। कोटोपंत को विश्वास हुआ और उन्हीं लोगों के साथ हो गया। तुकाराम जी ने कोटोपंत के साथ गंगामाई को, विश्वनाथ को और विष्णुपद को एक-एक ऐसे तीन अमंग दिए। विश्वनाथ जी से आप की प्रार्थना थी कि “शंकरजी, आप तो हो विश्व के नाथ और मैं तो हूँ दीन अनाथ। मैं बौरा आप के पैर गिरता हूँ। आप जो कुछ कृपा करें वह थोड़ी ही मुझे बहुत है। आप के पास कुछ कमी नहीं और मेरे संतोष के लिए अधिक की आवश्यकता नहीं। महाराज, तुकाराम के लिए कुछ प्रसाद भेजिए।” कोटोपंत की सब तीर्थयात्रा उसी होन पर निभ गई। प्रतिदिन उसे एक होन मिलता रहा। ब्राह्मण चार महीने काशी में रह कर लौटा। घर आने पर होन अपने पास ही रखने की इच्छा से तुकाराम जी से झूठ मूठ आ कर कहा कि होन खो गया। तुकाराम जी हँस कर चुप हो गए। घर जा कर कोटोपंत ने देखा तो होन सचमुच ही खो गया था। तुकाराम जी के पास दूसरे दिन आ कर अपना-अपना अपराध कबूल किया और असत्य-भाषण के लिए क्षमा माँगी।

श्रीतुकाराम जी महाराज की आसाढ़ कार्तिक की पंढरपुर की वारी बराबर जारी थी। केवल एक कार्तिकी की एकादशी को आप बहुत बीमार होने के कारण न जा सके। जिस समय दूसरे वारकरी लोग पंढरी जाने के लिए निकले, तब आप ने कुछ अमंग लिख कर श्रीविठ्ठल की सेवा में भेजे। तुकाराम-सा प्रेमी भक्त, कार्तिकी एकादशी का-सा पुण्यकारक आनंद-प्रसंग और केवल देह-दुःख के कारण पंढरी तक जाना असंभव ! इस स्थिति में क्या आश्चर्य कि तुकाराम जी का जी तड़फता रहा और ‘देह देहू में पर मन पंढरी में’ यह स्थिति हुई। इस अवसर पर जो अमंग आप के मुँह में से निकले, उन में तुकाराम जी का हृदय विल्कुल निचोड़ा पाया जाता है। कवयंतर से वे अमंग भरे हुए हैं। पत्र का आरंभ इस प्रकार है। “हे संतो, मेरी ओर से श्रीविठ्ठल से विनती करो और पूछो कि मेरे किन अपराधों से मुझे इस बार श्रीविठ्ठल के चरणकमलों से दूर रहना पड़ा। अनेक प्रकार से मेरी कथन-कहानी पंढरीश को सुनाओ। तुकाराम को तो इस बार पंढरी और पुंडलीक के ईंट पर के श्रीविठ्ठल के चरण देखने की आशा नहीं है।” कुछ अमंगों के बाद आप कहते हैं, “हे नाथ, मेरे कौन से गुणदोष समझ कर आप ने ऐसी उदासीनता धारण की है ? अन्यथा आप के यहाँ तो कोई अयोम्य बात होने की रीति नहीं है। अतएव इस का विचार मुझे ही करना चाहिए कि आप के प्रति मेरा भाव कैसा है। तुकाराम तो यही समझता है कि उसीके बुद्धि-दोष से आप ने उसे दूर किया है।” कुछ

अभंगों के बाद आप ईश्वर पर नाराज़ हो कहते हैं, “अगर मन में इतना छोटापन है, तो हमें पैदा ही क्यों किया ? हम दूसरे किस के पास मुँह फाड़ रोवे ? अगर आप ही मुझ को छोड़ देंगे, तो पृथरा कौन इस बात की खबर लेगा कि मैं भूला हूँ या नहीं ? अब और किस की राह है, किशर देखूँ, कौन मुझे गले लगावेगा ? मेरे मन का दुःख कौन पहचानेगा और कौन इस संकट में से मुझे उबारेगा ? हे पिता, क्या आप ऐसा तो न समझ बैठे कि तुकाराम अब अपना भार स्वयं उठा सकता है ?” आगे “महाराज, आप तो आज पूरे पूरे लोभी बन गए हो। धन ही धन जोड़ने के पीछे पड़ा वह धन के लिए ही पागल बन जाया है। फिर उसे और कुछ नहीं दीखता। अपने नाल-बन्धे तक उसे प्यारे नहीं लगते। जैसे की तरफ देखते उसे सब बातें फीकी मालूम देती हैं। तुकाराम समझता है कि आप को भी इसी तरह से लालच आ गई है।” इसी चित्तावस्था में आप को गहड़ जी के दर्शन हुए। गहड़ जी बोले, “अगर आप चाहें तो आप को पीठ पर पंढरपुर ले चलूँ। देव आप को भूले नहीं हैं। पर इतने भक्तों को छोड़ वे कैसे आप के पास आ सकते हैं ? अगर वे यहाँ चले आये तो पंढरपुर में कैसा रंग में भंग हो जावे ?” तुकाराम जी समझ गए। आप के चित्त को शांति प्राप्त हुई कि भीविडल मुझे भूले नहीं हैं। पर भगवान् के वाहन पर बैठ पंढरपुर जाना आप ने उचित न समझा। आप देह ही रहे। संत लोग पंढरपुर से लौटते समय इस बार देह आए और देह में ही थोड़े समय के लिए पंढरपुर हो गया। तुकाराम जी के अभंग खूब गाए गए।

तुकाराम जी के अभंगों की कीर्ति उन के जीवन-काल में ही खूब फैल गई। इन के अभंग लोग लिख ले जाने लगे और गाने लगे। तुकाराम अपनी पहचान रखने के लिए अपने अभंगों के अंतिम चरण में ‘तुका’ पद रख देते थे। पर तुक से तुक मिला कर कवि बननेवाले बहुत से कवि तुका का नाम अपने ही बनाए हुए अभंगों में रख देते। फल यह होता कि इस बात को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता कि कौन अभंग तुकाराम का है या नहीं। ऐसे ही एक सालोमालो नामक कवि तुकाराम जी के ही समय में हो गए। वे खुद अभंग रचते और लोग उन्हें याद करें, इन लिए उन के अंतिम चरणों में ‘तुका’ की छाप लगा देते। तुकाराम जी के मत से अत्यंत विचित्र ऐसे कुछ अभंग भी सालोमालो बनाते और उन्हें तुकाराम जी के ही नाम से फैलाते। जब तुकाराम जी को उन के भक्तों ने यह बात कही कि सालोमालो खुद अपने को हरिदास कहला कर आप के अभंगों का नाश कर रहा है, आप अभंग रूप में बोले “चावल गल गए या नहीं, यह देखने के लिए षोढना नहीं पड़ता। एक दाने से भात की परीक्षा होती है। हंस की चोंच दूध और पानी और न बूर कर देती है। यदि किसी ने पहनने का अच्छा कपड़ा फाड़ उस की गुदड़ी बनाई तो बात किस की विगड़ी ? तुकाराम की समझ में तो दाने और फूल अलग करने में कुछ कष्ट नहीं।” पर भक्तों को यह बात ठीक न मालूम हुई। उन में से दो भक्तों ने तुकाराम जी के अभंग लिख लेने का निश्चय किया। सब अभंगों का लिखना अशक्य-शक्य था। तुकाराम जी के अभंग सर्वदा रचे ही जाते थे। यह कहने के बजाय कि वे अभंग रचना करते थे यही कथन अधिक सत्य है कि अभंग-वाणी उन के मुख से निकलती

थी। पर फिर भी तर्कें गाँव के गंगाधर जी कड़ुकर ने और चाकण के संताजी तेली ने क्यायकि बहुत अमंग लिख डाले। ये दोनों तुकोबा के कीर्तन में उन का साथ करते थे और दोनों को तुकाराम जी की भाषा शैली से खासा परिचय था। इस कारण उन के प्रायः जितने अमंग इन्हें मिले, सब इन्होंने लिख डाले।

देहू के पास ही चिचवड़ नाम का एक गाँव है जहाँ पर श्रीगणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भी देव उपनामक एक बड़े गणेश भक्त हो गए थे जिन के बंधज तुकाराम जी के समय वहाँ मंहती करते थे। आप ने सुना कि तुकाराम जी नामदेव के अवतार समके जाते हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि श्रीविठ्ठल नामदेव जी के साथ भोजन करते, खेलते, बोलते थे तुकाराम जी की परीक्षा लेने के लिए एक बार देव जी ने उन्हें चिचवड़ बुलाया। तुकाराम जी देव जी का हेतु मन में समझ गए। भोजन के समय तुकाराम जी ने देव जी से कहा “आप के से भक्तों के यहाँ आज श्रीविठ्ठल भोजन करने के लिए आनेवाले हैं। एक पात्र उन के लिए और एक पात्र श्रीगणेश जी के लिए परोसिए। मैं श्रीविठ्ठल को बुला लाऊँगा और आप श्रीगणेश जी को बुलाए। अपने मन की कुजुद्धि पहचानी देख देव जी लज्जित हुए और बोले “तुकोबा, इतना महद्गाय्य हमारा कहाँ ? हम तो अभिमान के मारे मरे जाते हैं।” यह सुन कर तुकाराम जी ने श्रीविठ्ठल की और गणेश जी की स्तुति की। “महाराज आप की कृपा दृष्टि से तो बंध्या गाएँ भी वृष देंगी। मैं ऐसी कठिन बात के लिए आप की विनय नहीं करता। मेरी तो केवल यही माँग है कि हमें अपने चरणों का दर्शन दीजिए। मेघ चातक के लिए बरसता है। राजहंस के आप मोती खिलाते हैं। फिर तुकाराम की प्रार्थना मान्य करने में आप को इतना संकोच क्यों ?” कहा जाता है कि थोड़े ही समय में दोनों देवों के लिए परोसी हुई थालियों में से अन्न कम होने लगा। लोग समझ गए कि श्रीविठ्ठल और श्रीगणेश भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार के अनेक चमत्कार भक्तों के मुख से सुने जाते हैं। भक्तों की बातें भक्त ही जान सकते हैं। अतएव अधिक चमत्कारों के विषय में अधिक कुछ न लिख कर केवल तुकाराम जी के जीवन के अंतिम चमत्कार वर्णन कर जीवनी का पूर्वाद्द समाप्त करता हूँ।

तुकाराम जी की आत्म-विषयक भावना में बहुत ही धीरे-धीरे विश्वास उत्पन्न होता गया। अपनी जीवनी का वर्णन करते हुए उन्होंने ने बड़ी लीनता से कहा कि ‘सुनो भाई संतो, मैं तो सब से अधिक पतित हूँ। पर न मालूम आप इतना प्रेम मुक्त पर क्यों करते हो। मेरा दिल तो मुझे इसी बात की गवाही देता है कि मैं अभी मुक्त नहीं हूँ। व्यर्थ में एक के पीछे दूसरा मुझे मानता जाता है। संसार में पीड़ा हुई, इस लिए घर छोड़ दिया, दोरों को भगा दिया। जब कुछ पूरा न पड़ा, तब बैसा का बैसा ही रह गया। जो कुछ योड़ा-बहुत धन था, वह पूर्णतया नष्ट हो गया। न कभी किसी ब्राह्मण को दिया न किसी याचक को इस प्रकार सहज में ही भाग्यहीन हो जाने के कारण स्त्री, पुत्र, भाई इन का नाश टूट गया। लोगों को मुख दिखलाते न बना ; अतएव कानों में और जंगलों में रहने लगा और एकसं-वास का प्रेम इस तरह बढ़ गया। पेट-पूजने में बड़ा तंग हुआ। किसी को मेरी दया न आई। इस कारण यदि कोई अब मेरा सत्कार करता है, तो मैं बड़े चाव से उस के यहाँ

जाता हूँ। पुरखों ने कुछ भीविडल की सेवा की थी जिस के पुण्य से मैं भी इसे पूजता हूँ। इसी की यदि आप चाहो, तो भक्ति कह सकते हो।” कितनी नम्रता और स्पष्टता है! ये दोनों गुण बैसे के बैसे ही बने रहे। पर अंत में तुकाराम जी के सुख से ऐसे बाक्य निकलने लगे कि “कोई मेरी तलाश ही न करने पाए, इस लिए मैं ने आप के चरण गहे हैं। हे नारायण, अब तो ऐसा कीजिए कि मेरा दर्शन ही किसी को न हो। मेरा मन सब बातों से लौट अब जगह की जगह पर ही विलीन हो गया है। तुकाराम खुद को भूल कर बोलना-चालना भूल गया है। अब तो वह पूरा गूँगा बन गया है।” या “अब तो मैं अपने महहर जाऊँगा। इन संतों के हाथ मुझे संदेशा भी आ चुका। मेरी सुख-दुःख की बातें सुन अब तो मेरी मा के मन में कल्याण की लाट आ गई। सब तैयारी कर अब तो वह मुझे एक दिन जरूर बुलाने भेजेगी। मेरा चित्त अब उसी मार्ग में लगा है। रोज मायके की राह देख रहा हूँ। तुकाराम के लिए तो अब स्वयं मा-बाप उसे लिवा जाने आवेंगे।”

इस प्रकार के विचारों की बाट होते-होते तुकाराम जी के वय का इकतालीसवाँ साल पूरा हुआ और आप ने बयालीसवें साल में पदार्पण किया। इसी वर्ष की फागुन सुदी एकादशी के दिन महाराज ने नित्य नियमानुसार रात भर भजन-कीर्तन कर प्रातःकाल के समय अपनी स्त्री को बुला कर उसे ग्यारह अर्भगों के द्वारा उपदेश किया। आप ने कहा— “सुनो जी, पांडुरंग हमारा चौधरी है। उसी ने हमें खेत जोतने के लिए दिया है। जिस में से फसल निकाल हम अपना पेट पालते हैं। उस की बाक्री जो मुझे देनी है, वह माँग रहा है। आज तक उस की सत्तर की याक्री में से मैं दस दे चुका हूँ। पर अब तो वह घर में आ कर खटिया पर बैठ ही गया है और एक-सा तकाजा लगा रहा है। अब तो घर, बाड़ी, बर्तन जो कुछ है, उसे दे कर उस की लगान पूरी करनी चाहिए। बतलाओ, अब क्या करना चाहिए। बिना बाक्री दिए अब तो छुटकारा नहीं।” इस प्रकार आरंभ में रूपक की भाषा में उसे समझाना शुरू किया। पर जब यह देखा कि उस की समझ में नहीं आता तो आप ने अधिक स्पष्ट रूप में कहा कि “इस बात की चिंता न करो कि इन बच्चों का क्या होगा। उन का नसीब उन के साथ बँधा है। तुम अपनी फँसी हुई गर्दन हड़ुवा लो और गर्भवास के दुःख में खुद को बचाओ। अपने पास का माल देख कर चोर गला फाँसगे। इसी लिए मैं दूर भाग रहा हूँ। उन के मार की कल्पना ही से मेरा दिल काँप उठता है। अगर तुकाराम की ज़रूरत तुम्हें हो तो अपना मन खूब बड़ा करो।” “अगर तुम मेरे साथ आओगी तो सुनो क्या-क्या सुख तुम हम दोनों को मिलेंगे। ऋषिदेव बड़ा उत्सव मनावेंगे। रत्नों से जड़े विमानों में हमें बिठलावेंगे, नामधोष के साथ गंधर्वों का गाना सुनावेंगे। बड़े-बड़े सिद्ध, साधु, महंत हमारा स्वागत करेंगे। वहाँ सुखों की सब इच्छाएँ पूरी होंगी। चलो, जहाँ मेरे माता पिता हैं, वहाँ तक जावें और उन्हें मिल उन के चरणों पर पड़ें। तुकाराम के उस सुख का वर्णन कौन कर सके गा, जब उस के माँ-बाप उस से मिलेंगे!” तुकाराम जी ने तो उपदेश किया पर जिजाई के मन पर उस का कुछ भी असर न पड़ा। मानों अंधे को दर्पण दिखलाया वा बहिरे को गाना सुनाया।

श्रीतुकाराम जी उन दिनों अपनी यह कल्पना बराबर कहते रहे। “मैं ने अपनी

मौत अपने झालों से देली”, “अपना चड़ा अपने ही हाथों से फोड़ डाला”, “अपने देहरूप पिंड से पिंडदान किया” इत्यादि विचार आप के मुख से निकलने लगे। अंत में चैत्र वदी द्वितीया के रोड़ प्रातःकाल आप ने जिजाई से कहला भेजा कि “मैं वैकुंठ को जाता हूँ, अगर तुम को चखना हो तो चलो।” परंतु उस का जवाब आया कि “आप जाइए। मैं पाँच महीने के पेट से हूँ। घर में बच्चे छोटे-छोटे हैं, गाय, भैंस हैं, उन्हें कौन सहालेगा ? मुझे आने की फुरसत नहीं। आप आनंद से जाइएगा।” जवाब सुन कर तुकाराम जी मुसकराए और इसी प्रकार के अभंग मुख से कहते, हाथ में फाँक, तंबूरी ले कर आप ने श्रीविठ्ठल को नमस्कार किया और भजन करते-करते घर के बाहर निकले। लोगों को भी आश्चर्य हुआ। वारी को जाने का दिन नहीं, कीर्तन का मामूली समय नहीं और श्रीतुकाराम जी महाराज चले कहाँ ? कहाँ जाते हैं ? ऐसा यदि कोई तुकेबा से पूछता तो जवाब मिलता “हम वैकुंठ जाते हैं। अब न लौटेंगे।” भक्तों को आश्चर्य मालूम हुआ और बुरा भी लगा। खास-खास भक्त आप के साथ चलने लगे। उन सबों के साथ श्रीतुकाराम जी महाराज इंद्रायणी तीर पर आए और आप ने कीर्तन प्रारंभ किया। उस दिन कीर्तन के समय जो अभंग आप के मुख से निकले वे बड़े अजीब रस से भरे हुए हैं। अपने अभंगों में समय-समय पर तुकाराम जी भिन्न-भिन्न भूमिकाओं पर आप को समझते थे। कहीं विठ्ठल को माता मानते, कहीं पिता, कहीं मित्र, कहीं साहूकार जिस के पास से तुकाराम जी ने कर्जा लिया हो, तो कहीं कर्जदार जिसे आप ने पैसा दिया हो। आप श्रीविठ्ठल से लड़ते, फगड़ते, प्रेम-कलह करते, भली-बुरी सुनाते, फिर क्षमा माँगते, पैरों पड़ते, रोते, अनेक प्रकार के खेल खेलते। पर इस आखिरी दिन का रंग कुछ और ही था। ये अभंग विरायी के कहलाते हैं। विरायी याने विहरिणी। इन अभंगों में तुकाराम जी ने एक विहरिणी की अर्थात् स्वपति छोड़ अन्य पुरुष के साथ जिस पर कि उस का प्रेम हो, विहार करनेवाली स्त्री की भूमिका ली है। संसार है पति और श्रीविठ्ठल है प्रियकर पुरुष। इसी कल्पना पर ये अभंग रचे हुए हैं। उदाहरणार्थ “पहले पति द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण न हुए। अतएव मैं व्यभिचार करने लगी। मेरे पाप मेरा प्यारा रात-दिन चाहिए। एक पल भी बिना उस के मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अब अनंत से रत हो चुकी। तुकाराम के मत से तो दुनिया की बात क्या उस का नाम तक छोड़ देना चाहिए। अब तो मैं ने अपने सब संसार-पाश तोड़ डाले। अब तो सर्व-काल सब प्रकार के सुखों का ही उपभोग मुझे लेना है। इसी लिए तो पति को छोड़ा और इस पर-पुरुष के साथ रत हुई हूँ। तुकाराम कहते हैं कि अब तो ऐसी दवा की है कि जिस से न हमल रहे न कुछ फल-प्राप्त हो।”

जब मनुष्य अपना देह भाव भूल जाता है और किसी कल्पना में तन मन से पड़ता है तो एक प्रकार की उन्मनावस्था उसे आ जाती है। लोगों को न पटेंगी—ऐसी बातें वह बोलता है। किसी के नज़र नहीं पड़ते—ऐसे दृश्य उसे दिखाई देते हैं। वह ऐसे शब्द सुनता है जिन्हें दूसरा कोई सुन नहीं सकता। तुकाराम की भी यही दशा हुई। आप के मुख से ऐसे शब्द निकलने लगे जिन में केवल आत्म-विश्वास भरा हुआ था। आप कहते थे कि “ब्रह्मज्ञानी, मुक्त, तीर्थ यात्रा करनेवाले, स्वर्गवासी, तपोधन, यशकर्ता, दाता

हत्यादि सब लोगों के मुख से आज यही कहलार्जेंगा कि 'धन्य हैं तुकाराम और धन्य हैं हम जिन्होंने तुकाराम को देखा' ।" आप की आँखों के सामने बैकुंठ, वहाँ निवास करने वाले श्री महाविष्णु, उन के पैर दाबनेवाली श्रीलक्ष्मी, गरुड़, सनकादिक संत दिखाई देने लगे । उन लोगों की 'बलिय, महाराज बैकुंठ बलिय, पधारिय' की पुकार आप को सुनाई देने लगी । आप ने सब भक्त लोगों से कहा "सब से हमारी बार-बार विनीति कहियो । हम बैकुंठ जाते हैं । हम पर कृपादृष्टि रलियो । अब बहुत देर हुई । श्रीपद्भुरंग राह देखते खड़े हैं । बहुत देर हुई । वे हमें बैकुंठ बुला रहे हैं । अंतकाल के समय भीविहल प्रसन्न हुए । तुकाराम सदेह बैकुंठ जाते हैं ।" एकदम सब लोगों के देखते-देखते आकाश में तेज दिखाई देने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी, बाधों के आवाज तथा जय शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगी, विमान गरुड़ की पीठ पर नज़र आया, भीतुकाराम महाराज भीविहल के पास गए, महाविष्णु ने उन्हें गले लगाया और देखते देखते तुकाराम जी का देह विष्णुस्वरूप हो गया । क्षण भर में यह दृश्य अदृश्य हुआ । भक्त लोग नीचे ज़मीन पर देखने लगे तो भीतुकाराम महाराज का पता नहीं ।

हो गया । सब खेल ख़तम हो गया । जिस सूत्रधार ने तुकारामजी को विशिष्ट वेश दिया, जिस ने उन के हाथों भले-बुरे अनेक काम करवाए, लोगों से आनंद की तालियाँ या निंदा की गालियाँ दिलवाई, उसी जगच्चालक, विश्वनाथ्य-दर्शक सूत्रधार ने उन की भूमिका पर परदा डाल दिया । तुकाराम जी अदृश्य हो गए । तुकाराम जी का देह भीविहल-स्वरूप हुआ परंतु उन के अभंग गीत आज तक महाराष्ट्र भाषा में गूँज रहे हैं और वह भाषा समझनेवाले लोगों के हृदयों को निनादित कर रहे हैं । केवल इतना ही नहीं । जितनी भाषाओं में आप के अभंगों का अनुवाद हो चुका है और होगा, उन सब भाषाओं के बोलनेवालों के या समझनेवालों के भी हृदय में हर्ष की हिलोरें इन अभंगों से पैदा हुई हैं और होती रहेंगी । तुकाराम की जीवनी समाप्त हो चुकी । अब उन की अभंग-वाणी बाक़ी है । उसी का विचार उत्तरार्ध में किया जावेगा ।

## अष्टम परिच्छेद

— :-

### अभंगों का बहिरंग

तुकाराम तुक राम के दोनों सेतु अभंग ।  
उन का सेतु भंग गया इन का सेतु अभंग ॥

श्रीतुकाराम जी की काव्य-वाणी पर विचार करने के पहले उस छंद पर विचार करना अयोग्य न होगा जिस में आप ने अपनी काव्यरचना की है। इन की सब कविता प्रायः अभंग छंद में है। संस्कृत छंदःशास्त्र से इस अभंग की कल्पना नहीं ली गई है। उस शास्त्र में अक्षर-वृत्त लघु-गुरु के नियमों में और मात्रा-वृत्त मात्रा की संख्याओं से बंधे होते हैं। पर इस अभंग-वृत्त में न लघु-गुरु का बंधन है न मात्रा-संख्या का। जब महाराष्ट्रीय संतों ने कविता रचना आरंभ किया संस्कृत पंडित उन की रचना में छंदोभंग, यतिभंग, मात्राभंग इत्यादि अनेक प्रकार के भंग अर्थात् गलतियाँ निकालने लगे। पंडितों की इस जबरदस्ती से ज़ेर आ कर स्वाधीनवृत्ति महाराष्ट्र कविवीरों ने एक नए ही छंद का आविष्कार किया जिस के विषय में संस्कृत छंदःशास्त्री पंडितों के पास कोई नियम ही न था। इस नए छंद में किसी प्रकार के भंग का भय ही न था। कवि की आत्मा को जो शब्द सूक्त थे उन्हें वह रखता चला जाता था। जान पड़ता है कि इसी से इस नए छंद को अभंग कहने लगे। जहाँ किसी प्रकार के भंग का डर नहीं वह अभंग। इसे पद्य कहने का कारण केवल यही है कि यह गद्य नहीं। यह गेय है अर्थात् इसे गा सकते हैं। अतएव केवल ताल के अनुसार ही इस की रचना होती है। अत्यंत प्राचीन

[ ८९



संस्कृत वैदिक मंत्रों के छंद में जैसे मुख्यतः केवल अक्षर-संख्या का बंधन है, वैसे ही इस अमंग-वृत्त में एक चौक अर्थात् चार चरणों के समूह के अक्षर संख्या से नियमित रहते हैं। पर इस का यह अर्थ नहीं कि यह नियम भी सदा पाला ही जाता है। वैदिक ऋचाएँ गाने के समय जैसे सामवेद में 'हौ हौ' मिला कर ताल-मात्राएँ पूरी की जाती हैं वैसे ही अमंग गाते समय 'देवा', 'रामा' इत्यादि शब्द मिला कर ताल-पूर्ति की जाती है। ताल की सुविधा के अनुसार अक्षर संख्या में बढ़ जावें तो एक दूसरे में मिला कर संयुक्ताक्षर के-से भी पढ़े जा सकते हैं। अक्षर-संख्या के नियम की अपेक्षा भी इस रचना को काव्य या गेय कहने का एक और विशेष कारण है। वह है तुकबंदी। कहीं न कहीं इस रचना में तुक अवश्य रहता है। पर तुक मिलाने की रीति भी निराली ही है। कहीं-कहीं यह तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में होती है, तो कहीं पर दूसरे के और तीसरे के अंत में। कुछ अमंगों में पहले तीन चरणों में तुक रहता है, पर चौथा चरण बेतुका ही होता है। चार चरणों का एक चौक होता है। एक अमंग में प्रायः चार चौक रहते हैं। पर यह नियम नहीं है कि केवल चार ही चौक एक अमंग में हों। तीन से ले कर दो सौ चौक तक के अमंग विद्यमान हैं। दूसरा चौक भ्रुवपद कहलाता है अर्थात् हर एक चौक के बाद यह दूहराया जाता है। अमंग-छंद का सामान्य लक्षण यही है।

पर अमंग के सामान्य नाम से ज्ञात इस छंद के बहुत-से विशेष प्रकार हैं और प्रायः इन सब प्रकारों में श्रीतुकाराम महाराज की रचना है। उन सब प्रकारों के लक्षण, जिन में कि तुकाराम जी की रचना है, उदाहरणों-सहित नीचे दिए जाते हैं। हिंदी पाठकों के लिए मगठी अमंग के साथ उसी छंद में उस का अनुवाद भी दिया हुआ है।

(अ) इस प्रकार का चौक सब से छोटा रहता है। इस में पंद्रह अक्षर रहते हैं। पहले तीन चरण चार-चार अक्षर के और चौथा चरण केवल तीन ही अक्षरों का। दूसरे और तीसरे के अंत में तुक रहता है। उदाहरणार्थ—

( मराठी )

कोण येथें, रिता गेला । जो जो आला, या ठाया ॥  
तांतही ते, काय आतां । ज्याची चिंता, तयासी ॥  
नांवा साठीं, नेथे भार । न लगे फार, वित्पत्ती ॥  
तुका क्षणे, न लगे जावे । कोठें देवे, स्वप्ने ॥

( हिंदी )

कौन यहाँ, खाली गया । जो जो आया, ठौर पै ॥ १ ॥  
अब जल्दी, है काहे की । चिंता जाकी, ताही को ॥ २ ॥  
नाम लेते, भार नहीं । लगती नहीं, पंक्ति ॥ ३ ॥  
तुका कहे, जाना नहीं । देव कही, दुँडने ॥ ४ ॥

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठी अभंग के अंतिम चौक में दूसरे चरण के पाँच अक्षर में 'न लगे' तीन अक्षर अभंग करते समय 'नल्गे' से कहने पड़ते हैं ।

(आ) पूर्वोक्त प्रकार में एक अक्षर अंतिम चरण में बढ़ाने से और तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में लाने से इस नए प्रकार का चौक बनता है । अर्थात् चौक में अक्षर १६ और दूसरे से चौथा चरण तुक में मिला हुआ । जिन प्रकार के अभंगों में तुकाराम जी की रचना बहुतायत से है, उन में से यह एक प्रकार है । यथा—

( मराठी )

होय होय वारकरी । पाहे पाहे रे पंढरी ॥  
काय करावी माधनें । फक अवधेंचि तेणें ॥  
अभिमान नुरे । कोड अवधेंचि पुरे ॥  
तुका झणे डोलां । विठो बैसला साँवला ॥

यहाँ पर तीसरे और चौथे चौक के पूर्वार्ध में आठ के बदले छः ही अक्षर हैं । अर्थात् कहते बार दोनों जगह 'देवा' या 'रामा' मिला कर कहना पड़ता है ।

( हिंदी )

बनो बनो वारकरी । देखो देखो जी पंढरी ॥ १ ॥  
लाभ क्या है साधनो से । फल सारा है इसी से ॥ २ ॥  
देह अभिमान जावे । मनोरथ पूरा होवे ॥ ३ ॥  
तुका कहे आँखों धैठा । विठू वहाँ से ना उठा ॥ ४ ॥

(इ) जिन अभंगों के चौक में अक्षरों की संख्या अठारह से ले कर बारह तक है, वं सब तुकाराम जी के अभंग हिंदी भाषा में रचे हुए हैं । इन्हें अभंग कहना कहाँ तक उचित है, एक विचार करने योग्य प्रश्न है । पर अभंगों के संग्रहों में सम्मिलित होने के कारण वे मराठी भाषा में अभंग ही कहलाते हैं । तुकाराम की तथा उस समय की महाराष्ट्रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन अभंगों का विशेष महत्व है । पहले प्रकार के पूर्वाद्ध में तथा उत्तराद्ध में नौ-नौ अक्षर मिला कर अठारह अक्षर एक चौक के होते हैं । दोनों अर्धों के अंत में तुक रहता है । यथा—

दासों के पीछे दौरे राम । सोवे खड़े आप मुकाम ॥ १ ॥  
प्रेम रसड़ी बाँधी गले । खँच चले उधर चले ॥ २ ॥  
अपने जनसुं भूल न देवे । कर धर आगे बाट बतावे ॥ ३ ॥  
तुका प्रभु दीनदयाला । वारि तुफ पे हुं गोपाला ॥ ४ ॥

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस की चाल हिंदी की 'भजो मना भजो रे राम । गंगा, तुलसी शालिग्राम' की चाल पर है । तीसरे चौक को 'अपने जन्सुं भूल न देवे । कर्षरगे बाट बतावे' कहना पड़ता है ।

( ई ) इस के बाद प्रत्येक चरण में पाँच, एवं प्रत्येक अक्षर में दस तथा चौक में बीस अक्षरों का छंद आता है। इस की भी रचना हिंदी भाषा में है। तुक दोनों अक्षरों के अंत में रहता है। उदाहरणार्थ—

क्या गाऊँ कोई सुननेवाला ।  
देखूँ तो सब जग ही भूला ॥ १ ॥  
खेळूँ अपने रामहिं सात ।  
जैसी हो वैसी करिहूँ मात ॥श्रु०॥  
कहाँ से लाऊँ मधुरा बानी ।  
रीके ऐसी लोक विरानी ॥ २ ॥  
गिरिधरलाल भाव का भुका  
राग कला ना जानत तुका ॥ ३ ॥

सात का अर्थ है साथ, मात का बात, और विरानी शब्द मराठी विराणी अर्थात् विहरिणी, खिलानेवाली, मनमोहिनी के अर्थ में प्रयुक्त है। गिरिधरलाल को 'गिरिधर लाल' कहना सहज ही है।

( उ ) श्रीतुकाराम महाराज ने हिंदी भाषा में जिस की रचना की, ऐसा तीसरा छंद वह है जिस के प्रति चौक में बाईस तथा प्रत्येक अर्थ में ग्यारह अक्षर हों। तुकबंदी पूर्वोक्त प्रकार की-सी प्रति अर्थ के अंत में हैं। जैसे—

मंत्र तंत्र नहिं मानत साखी ।  
प्रेम भाव नहिं अंतर राखी ॥ १ ॥  
राम कहे ताके पद हूँ लागू ।  
देख कपट अभिमान दुर भागू ॥श्रु०॥  
अधिक याति कुलहीन न जानूँ ।  
जानें नारायण सा प्राणीमानूँ ॥ २ ॥  
कहे तुका जीव तन डारूँ डारी ।  
राम उपासिहुँ हूँ बलिवारी ॥ ३ ॥

हिंदी पाठको से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस छंद की कल्पना गुसाईं तुलसीदास जी के चौपाइयो से ली हुई जान पड़ती है। चौपाई की चाल पर ये अभंग भली-भाँति गाए जा सकते हैं। अक्षरों की खींचातानी आवश्यक स्थल पर पाठक स्वयं कर सकते हैं।

(ज) इसी ढंग का चौथा एक और प्रकार है। इस के प्रति पाद में छः अक्षर अतएव चौक में २४ चौबीस अक्षर होते हैं। तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में की जाती है। यथा—

क्या मेरे राम कवन सुख सारा ।  
कह कर दे पूछूँ दास तुम्हारा ॥१॥

तन जोबन की है कौन बराई ।

व्याधि पीड़ादि ने सकलहि खाई ॥श्रु०॥

कीरत बधाऊं तो नाम न मेरा ।

काहे को भूटा पछताऊं हूं घेरा ॥२॥

कहे तुका नहीं समजत बात ।

तुम्हारे शरन हे जोइत हात ॥३॥

कबीरदास जी के 'इस तन धन की कौन बराई' की चाल पर ही यह अभंग कहा जाता है। अर्थात् यह कहने में हानि नहीं है कि कबीरदास जी के इसी पद के नमूने पर तुकारामजी की यह रचना है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुकाराम जी की हिंदी रचना में राम, कन्हैया, हरि इत्यादि शब्दों का प्रयोग ईश्वर के अर्थ में पाया जाया है, अल्ला का भी नाम मिलता है, पर श्रीविठ्ठल का नाम नहीं मिलता।

(श्रु) अब फिर मराठी रचना की ओर देखें। नामदेव जी ने जिस प्रकार के अभंग का विसोबा स्वेचर के पास सीखा, उस प्रकार में तुकाराम जी की भी बहुत रचना है। यह अभंग साढ़े तीन चरणों का कहलाता है। प्रत्येक चरण में छः अक्षर; ऐसे तीन चरण और चौथा चरण चार अक्षरों का। एवं कुल मिला कर बाईस अक्षरों का एक-एक चौक होता है। दूसरे और तीसरे चरण के अंत में तुक मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ—

( मराठी )

मामें मज कलों, ये ती अबरुण ।

काय करूं मन, अनावर ॥

आता आठ उभा, राहे नारायण ।

दयासिंधुपणा, साच करी ॥

वाचा वदे परी, करखें कठीण ।

हृदियां आधीन, झालों देवा ॥

तुका झणे तुम्हा, जैसा तैसा दास ।

न घरी उदास, माय बापा ॥

( हिंदी )

मेरे औगुनों को, और कौन जाने ।

चित्त नहीं माने, क्या करूं मैं ॥ १ ॥

अब आठ राखो, नारायण भोको ।

कृपासिंधु नीको, नाम राखो ॥श्रु०॥

जिह्वा बोल जाती, हाथों नहीं होता ।

हृदियां ये मोता, दे जाती हैं ॥ २ ॥

तुका जैसा तैसा, दास है तुम्हारा ।

क्यों उसे है डारा, दीनता में ॥ ३ ॥

( ऋ ) इस प्रकार के एक चौक में अट्टाईस अक्षर होते हैं । विषम अर्थात् पहले और तीसरे चरणों में आठ-आठ अक्षर और सम अर्थात् दूसरे और चौथे चरणों में छः-छः अक्षर होते हैं । दूसरे और चौथे चरण में तुक रहता है । यथा—

( मराठी )

याती हीन मती हीन, कर्म हीन साकं ।

सर्व लज्जा सांडोनिबा, शरण आलों तुज ॥

ये ईं गा तूं माथ वापा, पंदरोच्या राया ।

तुज विण शीण वाटे, क्षीण झाली काया ॥

दीननाथ दीनबंधु, नाम तुज साजे ।

पतितपावन ऐसी, प्रीदावली गाजे ॥

विटेवरी नीट उभा, कटावरी कर ।

तुका ढाखे हें चि आझां, ध्यान निरंतर ॥

( हिंदी )

जात हीन बुद्धि हीन, कर्म हीन मेरा ।

सारी लाज छोड़ बना, हूँ मैं दास तेरा ॥ १ ॥

आओ मेरे माता-पिता, पंदरी के राया ।

तेरे बिना थक गया, निर्बल हो काया ॥ध्रु०॥

दीननाथ दीनबंधु, तुझे सोहे नाम ।

पतितों को उबारना, तेरा ही है काम ॥ २ ॥

मले खड़े हूँट पै हो, कटी राख हाथ ।

तुका कहे यही ध्यान, रहे मेरे साथ ॥ ३ ॥

इसी छंद में तुकाराम जी की बहुत थोड़ी हिंदी रचना भी है । परंतु हिंदी में ऋवपद निराले चाल का है । जैसे—

तन भंजाय ते बुरा, त्रिकीर ने करे ।

सीर काटे ऊर कुटे, ताहां सब डरे ॥ १ ॥

ताहां एक तुही रे, एक तुही रे । बाबा हम तुम नहीं ॥ध्रु०॥

दिलदार् देखो मुलो नहीं, क्या पछाने काय ।

सच्चा ना पकड सको, झूटा झूटे रोय ॥ २ ॥

किसे कहे मेरा कीन्हे, सात लिया भास ।

नहीं भेल मिले जीवन, झूटा किया नास ॥ ३ ॥

सुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा हो ही ।

बांट खाना अरुला कहना, एक बार तो ही ॥ ४ ॥

भला लिया भेल मुंठे, अपना नफा देख ।

कहे तुका सोही सखा, हक अरुला एक ॥ ५ ॥

उन दिनों एक तरह के मुसलमान फ़कीर महाराष्ट्र में घूमते थे । इन का सिर मुँडा रहने के कारण इन्हें मुँडे फ़कीर कहते थे । ये भीष्म मार्गते वक्त बड़ी ज़िद करते थे । ( मराठी में ज़िद को जिकीर कहते हैं ) । अपना तन भंजाते अर्थात् शरीर पर पाव करते, सिर फोड़ते, छाती कूटते और इस प्रकार लोगों को डरा कर भीष्म मार्गते । ऐसे लोगों को नज़र में रख कर, ऊपर की रचना की गई है ।

( लृ ) इस प्रकार के एक चौक में बत्तीस अक्षर रहते हैं । आठ-आठ अक्षरों का एक-एक चरण होता है और पहले तीनों चरणों के अंत में तुक मिला रहता है । जैसे—

( मराठी )

मन करा रे प्रसन्न । सर्वसिद्धी चें कारण ।

मेळ अथवा बंधन । सुख समाधान इच्छा ते ॥

मने प्रतिमा स्थापिली । मने मना पूजा केली ।

मने इच्छा पुरविली । मन माउली सकलांची ॥

मन गुरु आगि शिष्य । करी आपुलेंचि दास्य ।

प्रसन्न आप आपणाल । गति अथवा अभोगति ॥

साधक वाचक पंडित । भोते वकने ऐका मात ।

नाहीं नाहीं आन दैवत । तुका क्षणे मना ऐसें ॥

तुकाराम से महाराष्ट्रीय संत कविता-नियमों के विषय में बड़े लापरवाह होते थे । ऊपर दिए अभंग में नियमों के अनुसार केवल चौथा चौक है । पहले तीनों चौक में चौथा चरण नौ-नौ अक्षरों का है पर कहने समय नौ के आठ ही कहना पड़ता है ।

( हिंदी )

मन राखो सुप्रसन्न । सिद्धियों का जो कारण ।

चाहो मुक्ति या बंधन । सुखमाधान हठी से ॥ १ ॥

मन देव का निर्माता । फलफूल को चढ़ाता ।

मन कामना पूर्ण कर्ता । मन ही माता सबों की ॥ २ ॥

मन गुरु मन चेला । सेवा कर्ता है वो भजा ।

ले जाता है वही चोला । सुगति या दुर्गति को ॥ ३ ॥

सिद्ध साधक पंडित । भोता वक्ता सुनो बात ।

अन्य नहीं है दैवत । तुका कहे मन का सा ॥ ४ ॥

इस प्रकार में केवल तुकबंदी बदल कर ( आ ) प्रकार के दो चौकों का एक चौक किया जाता है ।

(ए) गोस्वामी तुलसीदास जी के तथा कबीरदास जी के दोहरे सुन-सुन तुकाराम जी ने भी कुछ थोड़े दोहरे बनाए हैं। हिंदी पाठकों से कहने की आवश्यकता नहीं कि दोहा मात्रा-वृत्त है। पर जहाँ अमंग ऐसे सीधे-साधे वृत्त में भी खंचातान करने की पद-पद पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ बेचारे दोहे की कथा ही क्या? दोहे की चाल पर कहने के लिए इन में जो कसरत जीम को करनी पड़ती है उस की कल्पना कराने के लिए नीचे दिए दोहे काफ़ी हैं। इन दोनों में 'रे' शब्द की भरमार है।

राम राम कह रे मन, और सुं नहिं काज ।  
बहुत उतारे पार आये, राख तुका की लाज ॥  
तुकाराम बहुत मीठा रे, भर राखूं शरीर ।  
तन की करूं नाव रे, उतरूं पैल तीर ॥  
तुका प्रीत रामसूं, तैसी मीठी राख ।  
पतंग जाय दीप पर रे, करे तन की खाक ॥

महाराष्ट्रीय संत कवि वृत्त-नियमों की ओर कभी ध्यान न देते थे। तुकाराम के ही समकालीन श्रीममर्थ रामदास स्वामी की बात सुप्रसिद्ध है। आप ने 'मन के श्लोक' नामक मन का उपदेश करनेवाले श्लोक 'गुरुंगप्रयात' वृत्त में रचे। जब किसी पंडित ने इन श्लोकों में के नियम भंग स्वामी जी को दिखलाए तब आप ने कहा कि "मैंने कहाँ इन वृत्त लक्षणों को सीखा है। न मैं इन लक्षणों को जानता हूँ, न मैं उस वृत्त में रचना करता हूँ। अगर अंधोक्त नियम मेरे श्लोकों में न पाए जावे, तो मेरे श्लोकों के अलग नियम बनाओ। कविताओं पर से लक्षण बाँधे जाते हैं न कि लक्षण के अनुसार कविताएँ।" तुकाराम जी के विषय में भी यही कह सकते हैं। अभंग का तो किसी भंग का डर ही नहीं। दोहों में यदि दोहे का लक्षण न पाया जाय तो उसे अन्य नाम से कह सकते हैं। भवभूति के वचनानुसार "लौकिक कवियों के छंद लक्षणों के अनुसार होने हैं, पर श्रेष्ठ संतों की कविता अपने अनुसार नए लक्षण निर्माण करती है।"

जिन मराठी प्रकारों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है, उन्हीं अभंग-प्रकारों में तुकाराम जी के प्रसिद्ध मराठी अभंग लिखे हुए हैं। पर इन प्रकारों के अतिरिक्त भी इने-गिने कुछ अभंग, जिन में श्रीकृष्ण की पौराणिक लीलाओं का वर्णन है, भिन्न प्रकारों से लिखे हुए हैं। इन प्रकारों में नी से ले कर सोलह अक्षरों तक का एक-एक चरण होता है। अर्थात् प्रति चौक में छत्तीस से चौंसठ तक अक्षर रहते हैं। कभी केवल पहले तीन चरणों में तुक मिला रहता है, तो कभी चारों चरणों में। इन सब प्रकारों के उदाहरण देने की कुछ आवश्यकता नहीं जान पड़ती। पिछले उदाहरणों से इन की कल्पना भली भाँति की जा सकती है। आप के रचे हुए सब से बड़े अभंग में अठ्ठासी अक्षरों का एक चौक पाया जाता है। कभी-कभी भ्रुवपद आधे चौक का अर्थात् दो ही चरणों का होता है। पर इन सब प्रकारों में पूर्वोक्त प्रकारों का ही संयोग पाया जाता है। ये छंद गाने में भी इतने कर्ण-मधुर नहीं हैं। इन मारे अभंगों की रचना तुकाराम जी ने प्रारंभ-

प्रारंभ में ही की है। इसी समय रामदास स्वामी जी के 'मन के श्लोक' ऐसे कुछ भुजंगप्रयात श्लोक भी तुकाराम जी ने रचे। पर इन में भी लेंकातानी का वही हाल है। जैसे-जैसे तुकाराम जी की कविता-शक्ति या कविता-भक्ति बढ़ती गई, जैसे-जैसे ये सब ढंग छूट गए और केवल पूर्वोक्त पाँच-चार प्रकारों में ही आप ने अपनी अभंग-रचना की।

प्रारंभकाल में भाषामेद या ब्रह्ममेद के अतिरिक्त और भी कुछ विशेष मेद तुकाराम जी के अभंगों में पाए जाते हैं। इन बातों का वर्णन कर यह बहिरंग-परीक्षा समाप्त करेंगे। हर एक कवि तुकबंदी के तथा अक्षरबंधों के कुछ खेल अवश्य ही खेलता है। संस्कृत महाकाव्य लिखनेवाले कवियों में तो यह शौक पाया ही जाता है, पर तुकाराम रामदास ऐसे संत-कवि भी इस खेल के मोह से सर्वथा अलिप्त न रहने पाए। तुकबंदी के विषय में तुकाराम जी का एक ढंग वह है जिसे संस्कृत परिभाषा के अनुसार 'दामयमक' कह सकते हैं। इस प्रकार में एक चौक के अंत में जो अक्षर होते हैं, उन्हीं अक्षरों से दूसरे चौक का प्रारंभ किया जाता है। यथा—

( मराठी )

चित्त ज्याचे पुत्र, पत्नी बंधू वरी ।  
मुटेल हा परी, कैसा जाण ॥  
जायते नेणते, करा हरिकथा ।  
तराल सर्वथा, भाक मान्नी ॥  
मान्नी मज असे, पडली प्रचीत ।  
नसेल पतित, ऐसा कोणी ॥

( हिंदी )

चित्त यदि जड़ा, पुत्रादिकों पर ।  
छूटे तो संसार, कैसा जानो ॥१॥  
जानो या न जानो, करो हरि कथा ।  
तरोगे सर्वथा, वाक्य मेरा ॥२॥  
मेरा मुझे हुआ, पूरा है विश्वास ।  
पापी ऐसा दास, न था कोई ॥३॥

इस दामयमक में शब्द का शब्द दुहराया जाता है। पर तुकाराम जी कभी-कभी शब्द के बजाय केवल एक अक्षर ही दुहराते हैं। जैसे कि नीचे दिए उदाहरण में—

( मराठी )

पांडुरंगा करूं प्रथम नमना ।  
दुसरें चरणा संताचिया ॥  
यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार ।  
बाबाजी सद्गुरु दास तुका ॥  
काय मान्नी वाची मानेल संतशि ।  
रंजवू चित्तारी आपुलिया ॥



( हिंदी )

पांडुरंग बंदों, पहले सबों के ।

चरण संतों के, नमों बाद ॥ १ ॥

दया से उन्हीं के, कथा मैं गाऊंगा ।

बाबा जी गुरु का, तुका चेला ॥ २ ॥

लाभ होगा कैसा, संतों का इस से ।

निज के मन से, गाऊंगा मैं ॥ ३ ॥

यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द दुहराने के बजाय केवल अंतिम अक्षर ही दूसरे चौक के आरंभ में दुहराया है। आरंभ-आरंभ के कई अभंग तुकाराम जी ने इसी प्रकार से रचे हैं। कहीं शब्द, या कहीं अक्षर, पर द्विक्रि अक्षर्य की है। इस का एक कारण यह जान पड़ता है कि हम द्विक्रि के कारण एक के बाद दूसरा चौक कंठस्थ करने में सुभीता होता है।

इस खेल के अतिरिक्त और भी एक खेल तुकाराम जी के एक अभंग में पाया जाता है इस का नाम है 'एकाक्षरी'। यह शब्द 'एकाक्षरी' का अपभ्रष्ट रूप है, जैसा कि 'द्वादशाक्षरी' का 'बाराक्षरी'। इस अभंग के प्रत्येक चौक का आरंभ वर्णमाला के ककार से ले कर हकार तक के अक्षरों से है, जैसे नीचे के पाँच चौक पवगाक्षरों में आरंभ हैं—

( मराठी )

पर उपकारा । बेंचा शक्ति निंदा वारा ॥

फल भोग इच्छा । देव आहे जैसा तैसा ॥

बरबा ऐसा छुंद । वाचे गोविंद गोविंद ॥

भविष्याचे माथां । भजन न धावें सर्वथा ॥

माग लागला न मंडी । आकसें माती घाली तोंडी ॥

( हिंदी )

पर उपकार करो । निज शक्ति निंदा टारो ॥

फल भोगोकी कामना । देव देता जैसे बना ॥

बहु अच्छा यही छुंद । कहो गोविंद गोविंद ॥

'भविष्य काल में करो । भजन' ऐसा ना उचारो ॥

मार्ग पाया जो न छोड़ो । आलस्य को पार तेंडो ॥

ये सब बातें आरंभ ही में मिलती हैं। अभ्यास, ईश्वर-भक्ति, उदासीनता, ऋषियों के वचनों के पाठ, एकाग्रता, ऐकात्म्य, इत्यादि बातों के कारण जैसे-जैसे आप का अधिकार बढ़ता गया, वैसे-वैसे ये सब खेल कूटते गए और आप का लक्ष्य बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। प्यारे पाठकों, आइए, हम भी अब इस नीरस बहिरंग परीक्षा को छोड़ भीतुकाराम जी के अभंगों का अंतरंग देखें ।

## नवम परिच्छेद



### देव-भक्त संवाद

गत परिच्छेद में भीतुकाराम जी महाराज के अभंगों का जो बाह्य स्वरूप दिखाया गया है उस से पाठकों के मन पर विशेष अनुकूल परिणाम न हुआ होगा। इस का कारण स्पष्ट है। तुकाराम जी की कविता कन्यका रूप से मोहक नहीं। जैसा तुकाराम जी का बाह्य स्वरूप था वैसा ही उन की कन्यका का है। स्वयं अपने रूप के विषय में महाराज ने श्रीशिवाजी को उत्तर लिखते समय कहा है कि “बच्चों बिना शरीर मलिन है। पेट भर अन्न खाने को न मिलने और जो कुछ फल मूल मिलें उन्हीं पर निर्वाह करने के कारण शय-पैर पतले और सुस्ते हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरे दर्शन से आप को क्या आनंद मिलेगा !” तुकाराम जी के एक शिष्य कचेरवर भट ब्रह्मे नाम के थे। आप ने तुकाराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है, जिस में आप कहते हैं कि “भीतुकाराम जी वर्षों से सँवले थे। ऋद में न बहुत ऊँचे न बहुत छोटे। पेट ज़रा बड़ा और गोल, आँखें तेजीली, नाक भीषी, दाँत छोटे-छोटे और ओंठ लाल थे। कीर्तन के समय आप ऐसे नाचते और हिलते, मानों हवा की ज़ोर से केले का पेड़ हिल रहा हो”। तुकाराम जी की कविता ठीक इसी प्रकार की है। किसी एक विषय पर सुसंबद्ध न होने के कारण यह कविता फुटकर टुकड़ों टुकड़ों में बँटी जान पड़ती है। छंद में भी यह मोहक नहीं। जिस में नियमों का बंधन नहीं ऐसे अभंग छंद में यह रचना है। पिता जी के पास अलंकारों का अभाव होने के कारण यह विस्कुल मिरलंकार है। अगर इस के बचपन में इस पर एकाध शब्दालंकार चढ़ाया भी गया तो यह

इतना खादा कि उस से सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम होने की ही अधिक संभावना रही। फिर अगर उस का रूप मनोमोहक न हो तो अचरज ही क्या? लीचियों का स्वरूप भी बाहर से सुंदर नहीं होता। पर क्या केवल इसी लिए उन्हें रसिक लोग फेंक देते हैं? तुकाराम जी की कविता को लीचियों की ही उपमा देना अधिक अन्वर्थक है। यद्यपि इन का रूप मोहक नहीं, तथापि न नारियल की तरह इन्हें फोड़ने में कष्ट होता है, न कटहल का-सा इन का छिलका मोटा होता है। जी चाहा तब एक फल उठाया और मजे से चखने लगे। ठीक यही हाल तुकाराम जी की कविता का है। जब चाहो तब एक अमंग उठा लो। शब्दों का अर्थ पढ़ते ही ध्यान में आता है और रस-भरा मधुर अर्थ समझकर जीव संतुष्ट होता है।

श्रीतुकाराम जी महाराज के अमंगों की विशिष्टताओं में से एक यह है कि इन अमंगों को पढ़ते ही आप की मूर्ति आँसुओं के सामने नज़र पड़ने लगती है। हर एक अमंग में ही नहीं, हर एक शब्द में तुकाराम जी की भक्ति पाठकों को दीखती है। ऐसा जान पड़ता है कि महाराज पाठकों से स्वयं बोल रहे हैं। कवि प्रायः अपने पात्रों द्वारा या अपनी कविता के प्रतिपाद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के मन से मिल जाते हैं। पर तुकाराम जी का निराला ही ढंग है। यह भक्तराज पाठकों से स्वयं ही बोलते हैं और आप को जो कुछ कहना होता है, साफ़-साफ़ कोई परदा आड़ न रख कर कहते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार ध्वंग्यार्थ को प्राधान्य है। कविता-सुंदरी के विषय में यह ठीक भी है। तरुणी जी को अपने अवयवों को ढाँकना पड़ता ही है, प्रत्युत उसे अपने भाव भी छिपाने पड़ते हैं। अपने मन के भाव उसे स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त करना उचित भी नहीं। उस के लिए तो यही ठीक है कि वह अपने मन के भाव इंगितों द्वारा प्रकट कर दर्शकों के चित्त को आकर्षित कर ले। पर छोटे बच्चे के विषय में यह बात अयुक्त है। उन्हें न अपने अमंगों को ढाँकना चाहिए, न अपने भावों को। बच्चे की मोहकता उस के खुले अमंगों में ही अधिक है। ऐसे ही उस के मन की निर्मलता अपने भाव को शब्दों में कह देने में ही है। उन ने इन बातों से विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं कि उस के वाक्य ठीक शब्दों में रचे गए हैं या नहीं। भले-बुरे, शुद्ध-अशुद्ध, स्पष्ट-अस्पष्ट, यहाँ तक कि तोलले शब्दों में भी उस की बातें बड़ी रोचक लगती हैं, सुननेवाले के हृदय को संतोष देते हैं और बिना विलंब किए बालक की इच्छा पूरी करने में लोगों को प्रवृत्त करते हैं। उपनिषत्कार ने इसी लिए कहा है कि 'पंडिताई से खिन्न हो, बच्चे के भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए।' तुकाराम जी की कविता ठीक इसी प्रकार की है और इसी कारण उस का प्रभाव पाठकों पर अधिक पड़ता है।

तुकाराम जी की कविता का दूसरा विशेष गुण है आप की प्रासादिक सारी मनोहारिणी वाणी। ऐसे सुलभ और सारे शब्दों में परियायकारक उपदेश करना, प्रसंगवश पाठकों के मन में भिन्न-भिन्न विकारों का तूफ़ान उठाना तथा निच बातों की अचहेलना और निंदा करके उन बातों के विषय में पाठकों के हृदय में धुआ उलझ करना तुकाराम जी के हाथ का खेल था। आप के दृष्टांत या उदाहरण बड़े हृदयस्पर्शी

होते हैं। बहुत लेखकों के प्रबंध शब्दसमूह में ज़रा-सा अर्थ भरा रहता है, मानो टोकरी भर भूते में एक अनाज का ढाना। पर तुकाराम जी की लेखन-शैली इस के विपरीत उल्टी है। तुकाराम जी की भाषा की श्रेष्ठता इसी में है कि बहुत इतने योड़े शब्दों में आप बड़े-बड़े गहन सत्य गढ़ते हैं। साथ ही आप अपनी कल्पनाओं को मोहक स्वरूप देते हैं। इन्हीं कार्यों से आप की कविता-भाषा छोटों से ले कर बड़ों तक और भेड़ों से ले कर कनिष्ठों तक सब प्रकार के लोगों के मुख में निवास करती है। आप की रचना किसी एक विषय पर निबद्ध नहीं है पर भाग्य के कथनानुसार 'अनिबद्ध' है। मन में जिस समय जो लहर उठी उसी के अनुसार मुख से शब्द निकले। यह कविता हृदय से निकलती है और हृदय से ही जा मिलती है। इस के शब्द और अर्थ सोना और रत्न के से हैं। सोने में जड़े जाने के कारण रत्न अधिक सहावना मालूम होता है। साथ ही सोने की भी शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार ये शब्द और अर्थ अन्योन्य को शोभा देते हैं। जैसे चमकीले अर्थ हैं, वैसे ही सुहावने शब्द। सहज वृत्ति से बाहर निकलने के कारण इन में कृत्रिमता का लेश भी नहीं है। तुकाराम जी की कविता के विषय में इतना सामान्य विवरण पर्याप्त है। अब विशेष रूप से इस का विचार करना चाहिए।

श्रीतुकाराम जी की साधना का विचार प्रथम ही हो चुका है। जब आप ने संसार छोड़ दिया या यों कहें कि संसार ने आप को छोड़ दिया, तब से आप बराबर भौतिकलं की भक्ति करते रहे। जब आप को कविता रचने के विषय में आदेश हुआ, तब सब से पहले आप ने श्रीकृष्ण-लीला की कविताएँ लिखीं। पर जब से आप को ईश्वर-स्वरूप का साक्षात्कार हो कर आप के अग्रंग इंद्रायणी नदी में से सूखे निकले, तब से आप का चित्त परमेश्वर से मिल गया। आप को सदैव ईश्वर पास ही देखते व अतएव आप प्रार्थना ऐसी करते मानो आप किसी से बोल ही रहे हैं। स्तुति करते समय आप के मन में प्रमुखतया यह बात रहती है कि यह काम अशक्य है, असंभाव्य है। इस के मुख्यतया दो कारण हैं। एक अराकि और दूसरा अज्ञान। जहाँ पर वेद भी कुछ बर्णन न कर सके और अंत में 'नेति-नेति' कहते रह गए; ऋषि, मुनि, सिद्ध इत्यादि वर्णन करते-करते थक गए, हजारों मुख से बलानते-बलानते शेष की जिह्वाएँ फट गईं, वहाँ तुकाराम की कथा ही क्या? अगर सारी पृथ्वी का कागज़, सागर की स्याही, मेरु की लेखनी बनाईं जाय तो भी यह सामान अनंत-गुण भगवान् की स्तुति लिखने में पर्याप्त न होगा। अज्ञान के विषय में भी यही बात। ध्यान कैसा करना चाहिए, दर्शन कैसे लेना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए और कैसी सेवा, तथा कीर्ति कैसे बखानूँ, रूप कैसे पहचानूँ, गीत में कैसा गाऊँ, हृदय में कैसे लाऊँ इत्यादि किसी भी बात में ज्ञान नहीं। अगर ईश्वर ही कुछ बुद्धि दे तो कुछ हो। अन्यथा विचार करते-करते तो उस की माया ही नहीं समझ में आती। कौन पैदा हुआ या किस ने पैदा किया, दाता कौन और याचक कौन, कौन उपभोग लेता है और कौन लिवाता है, किसे रूप कहते हैं और किसे अरूप, कुछ भी ध्यान में नहीं आता। यहाँ तक कि स्तुति करने जाता हूँ तो जान पड़ता है कि निंदा ही कर बैठा। सचमुच यह निंदा है या स्तुति, एक गोविंद ही जानता है। यही लाड़ से बोले हुए बोलों को चाहता है। भक्त तो केवल तोतली बातों से

उस का मनोव्रजन करते हैं। इस प्रकार की हुई बच्चों की बातों में आप भी क्या ? फिर-फिर से वही बात। बोना हुआ ही फिर-फिर से मैं बोलता हूँ। पर मन में संदेह नहीं होता। ईश्वर तो अनेकों की माता है। वह दयामय है। बच्चे कितना भी कोलाहल करें, वह खींकती नहीं, उलट्टा उन्हें समझाती ही है। अपने पास जो कुछ रहता है, उसे सबों के बाँटती है, बड़े प्रेम से खिलाती है। इसी लिए मैं समझता हूँ कि मेरा भ्रम भी व्यर्थ न होगा। पर नहीं। माता की उपमा भी उचित नहीं। माता केवल इसी संसार में लड़के को खिलाती-पिलाती है पर जब बेचारा मर जाता है, तो खाली रोती बैठती है। परलोक में वह उस के लिए कुछ नहीं कर सकती, पर ईश्वर तो ऐसे नहीं हैं, उन का तो काल पर भी अधिकार चलता है। फिर उस की माता से तुलना कैसे की जाय ? अतएव इस ईश्वर के लिए क्या कहा जाय, बड़ी भारी समस्या है।

श्रीतुकाराम जी महाराज ने इस समस्या को बड़ी सुगमता से हल किया है। आप का कथन है कि परमेश्वर से भक्तों को काम ही क्या ? उन्हें तो केवल उस का अमृत भरा नाम लेना चाहिए। जब तक यह कामधेनु उन के पास है तब तक उन्हें कभी किस बात की है ? ऐसी माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पहचाने। उसे देख कर तो उस का दूध थन फोड़ कर बाहर निकल आवेगा। जिसे आज तक किसी ने याचक के रूप में देखा न हो उसी से दान माँगने में लाज आवे ! हमें क्या ? बड़े-बड़े बहादुर आदमी भी केवल अपने नाम के लिए जान तक दे देते हैं, पर अपनी बाज़ी नहीं छोड़ते। अगर ऐसा है तो विह्वल से करना ही क्या है ? उस का नाम गावें तो सब कुछ हो जाय। उसी ने यह सृष्टि बना कर नाम और रूप धारण किया है। उस का नाम लेते एक पल भी न गँवाना चाहिए। जब जड़ पास है तो सब पेड़ पास ही है। भिन्न विचारों से भिन्न-भिन्न भाव पैदा होते हैं। अतएव मुख से नाम लेते विचारों के पेट में उसी परमात्मा की छोटी-सी मूर्ति पकड़ कर रक्खनी चाहिए। पर इस के लिए भी पात्रता की आवश्यकता तो अवश्य ही है। अच्छे से अच्छा गहना भी किसी कुरूप शरीर के पास जाय तो उस गहने को भी रोना ही पड़ेगा। उत्तम और अधम की संगति कैसे जम सकती है ? जो रसोई पकाना नहीं जानता उस के लिए आगे रक्खा हुआ सब सीधा भी किस काम का ? एकाध रत्न अगर बकरी के गले में बाँधा जाय तो उस रत्न बेचारे की दुर्दशा ही है। एक के सिवा दूसरे को शोभा नहीं। इस लिए अमृत भरा नाम भी ले तो योग्यता तो होनी चाहिए। पर अगर हम में योग्यता नहीं है तो दोष किस का है ? किसी समर्थ पुत्र का पुत्र अगर दीन-सा नज़र आवे तो लोग हँसेंगे किसे ? पुत्र को या पिता को ? वह कुरूप हो, अवगुनों से भरा हो—जैसा हो वैसा उसे संभालना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार तुकाराम पतित होगा, पर तुम्हारी नाम-सुद्रा धारण किया हुआ तुम्हारा ही बच्चा है।

नम्रतापूर्वक धारण जा कर परमेश्वर पर ही अपना सब भार डालने पर श्रीतुकाराम जी महाराज का दृढ़ विश्वास था। आप के अभंगों में यह कहरना अनेक बार बड़े अच्छे-अच्छे शब्दों में प्रकट हुई है। आप कहते हैं “नम्रता बड़ी अच्छी है। इस के सामने किसी का जोर नहीं चलता। नदी की बाढ़ में बड़े-बड़े पेड़ बह जाते हैं पर छोटे-

छोटे जैसे बैसे ही रह जाते हैं। समुद्र की बड़ी लहरें भी आवें तो वे ज्यों के त्यों रहते हैं। किसी के बाँव बकड़ लेने पर उस का क्या बल चल सकता है ?” इस लिए उसी की शरणा जाना चाहिए और अपना सब भार अनन्य भाव से उसी पर डालना चाहिए। तुकाराम के विषय में बघपि ईश्वर को विस्मय पड़े, तथापि तुकाराम को वह दूर नहीं कर सकता। क्योंकि वह उसी का कहलाता है और इसी लिए ईश्वर उसे भूल भी जाय तो बहुत बेर नहीं भूल सकता। दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। तुकाराम के सिर पर ईश्वर का हाथ है और ईश्वर के पैरों पर उस का सिर है। इस प्रकार दोनों का संबंध हृदय जम गया है। अब तो एक ही बात बाकी है। सेवा करना तुकाराम का काम और कृपा करना परमेश्वर का काम है। तुकाराम बड़े प्रेम से कहते हैं, “अब तो गोद में बैठ गया। अब दूर हूँगा ही नहीं। बहुत दिनों के बाद आन यह अवसर मिला है। अब तो मनमानी कर ही लूँगा। बहुत दिन तक मैं ने कष्ट सहन किए, पल भर भी शिंभाति नहीं मिली। मैं और तू के द्वैतभाव से पास की वस्तु भी नज़र न आई। अब तो जिस की राह देख रहा था, मिल ही गया। विठोबा, अब क्रोध करने से क्या लाभ ?” “अगर माँ ही गला काटे तो बच्चे को कौन बचावेगा ? अगर कुमक ही लूटने लगे तो मदद कौन करे ? राजा ही सब छीने तो उसे कौन रोके ? अगर तुम ही न करो तो मन स्थिर कैसे हो ? तुकाराम का तो सूत्र हरी के ही हाथ है। अर्थात् वह बचावे तो ही तुकाराम बचेगा” “प्रेम का अधिकार बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चे से डरते हैं। वह अगर हठ कर रोने लगे तो उस के सामने उन का क्या बरा चल सकता है ? वह तो दामन पकड़ देला लिपट जाता है कि उसी के साथ उन्हें आगे पीछे होना ही पड़ता है। वह जो चाहे सो बकता है पर उन्हें सुनना ही पड़ता है।” इस प्रकार प्रार्थना करते करते आप जब थक जाते तो कहते “बस, अब इस के बाद कुछ विनय करना बाकी ही न रहा। अब तो, हे पंढरीनाथ, तुम्हारे पैरों पर सिर डाल पड़ा हूँ। जितनी सुकियाँ पास थीं, सब कर चुका। अब फिर निराशा की आशा क्यों करूँ ?”

नम्रता के साथ ही साथ यह भी खूब जानते थे कि सीधी उंगलियों से धी नहीं निकलता। ईश्वर के साथ भक्त की दृष्टि से आप नम्र थे तो आश्चर्य ही क्या ? पर जब कभी आप उस पर नाराज़ होते तो ऐसा लड़ते कि उस का भी कुछ ठिकाना नहीं। अपने प्रारब्ध को, अपने पापों को, अपने दोषों को ईश्वर से भी प्रबल मान आप कई बार लड़ बैठते। यदि यह परमेश्वर इन दोषादिकों को दूर न करे और भक्तों को न बचावे तो सिवाय पूजने के दूसरा उपयोग ही क्या ? जब आप बहुत चिढ़ते तो कहते कि अब मुग्धता कहाँ तक रखूँ ? अब तो निःशंक हो कर बोल ही डालूँ। इस दुनिया में गुंग की तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता। जो शरमावे वो गमावे। अब तो मालिक के साथ बड़ी धीरता और धृष्टता से बोलना ही चाहिए। चलो, अब डंड-फटकार समर्थ के साथ दो-दो हाथ हो ही जाएँ। देखिए आन ईश्वर के साथ कैसा मिड़ते ! आप कहते “महाराज महद्भाग्य की बात है कि हम ऐसे पतितों की बदीलत ही आप को नाम और रूप मिला है। अन्वया निराकार और निर्गुण ऐसे आप को पूछता ही कौन था ? क्या आप जानते नहीं कि मैंने से ही दीप की शोभा है, लाल से ही रक्त जका जाता है, रोगी की ही बदीलत धन्यंस्त्री

प्रकाश में आता है, विष ही के कारण अमृत की महत्ता है, पीतल के कारण ही सोने की कीमत है और नीचे से ही ऊँचे को मान है। हम लोग हैं, इसी लिए तो आप को देखते हैं।” फिर आप पूछते “क्या आप मेरा एक दुल दूर करने में इतने दुर्बल हो गए ? पारस लोहे का सोना करता है। कल्पवृक्ष पेड़ हो कर और चित्तमणि पत्थर हो कर भी इच्छित पदार्थ देते हैं। चंदन के सुवास से दूसरे पेड़ सुवासित हो जाते हैं। इन सबों का क्या इन कामों से कुछ घट जाता है। तो आप का ही हमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट जावेगा ?” “आप अगर मेरे गुण दोष का ही विचार करते हो तो मैं आप से साफ़-साफ़ पहले ही कह डालता हूँ कि यहाँ तो पापों का डेर है। पर आप तो पतितपावन कहलाते हो या नहीं ? अपना-अपना धर्म हर एक को करना चाहिए। लोहा घन बन कर भी पारस को मारे तो क्या वह बिना सोना बने रह जावेगा ? यह सच है कि खाली मिट्टी की कुछ कीमत नहीं, पर कस्तूरी के साथ रह कर भी उस की कीमत न बढ़ेगी ?” निंदा करते समय आप पूछते कि “यह तो कहिए कि आज तक आप ने उद्धार ही किस का किया ? खाली विवदावली बना रखी है। हाथ के कंकन को दर्पण का क्या काम ? देखिए न, मैं तो जैसा का तैसा ही हूँ। रोगी जैसा का तैसा ही बना रहे तो धन्वंतरी ने किया ही क्या ? निरी बातें कौन माने जब तक प्रत्यक्ष अनुभव न हो।” “आप ने आज तक मला ही किस का किया ? आप तो पूरे निर्गुण और निरुदर हैं। माया तो आप को खू भी नहीं गई। आप ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने न किया हो। हरिश्चंद्र का उदाहरण लीजिए। बेचारे का सारा राज्य हरण किया, स्त्री से वियोग करा कर पुत्र को मरवाया और डोम के घर उस से काम करवाया। नल-दमयंती का जोड़ा कैसा था ? पर आप ही ने उसे विछुड़ाया। भूट हो तो पुराणों से पूछिए। शिवि राजा कैसा दयालु था ? पर आखिर आप ने उस का मान तराजू पर तुलवा ही दिया। कर्ण-सा शूर समर में भिड़ता हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के दंत आपने गिरवाए। राजा वलि कैसा उदार था ! पर आप ने कैसा गजब कर के उसे पाताल पठाया ! भियाल राजा के घर पहुँच उसी के हाथों उस का बच्चा कटवाया। आप की जो भक्ति करे उस की आप ऐसी ही गत बनाने हां !” “हे पुत्रोत्तम हमें तो आप का बड़ा भरोसा था कि इस भवसागर के संकट में आप हमें तारोगे। पर हमें क्या मालूम कि जैसे अर्क-वृक्ष का प्रकाश नहीं पड़ता या हल्ले का सोना रहन नहीं रक्खा जाता, वैसे ही आप केवल नामधारी हो। अब तो यही उचित होगा कि आप अपना नाम छोड़ दें।” लड़ते-लगाइते आप परमेश्वर को चाहे जैसी भली-बुरी सुनाने। अंत में यहाँ तक नौबत आ जाती कि—

मेरे लेले देव मरा। जिसे होगा उसं हो ॥ १ ॥

न करूँ बात ना हूँ नाम। हुआ काम तमाम ॥ २ ॥

कभी स्तुति कभी निंदा। किया धंदा अपार ॥ ३ ॥

तुका कहे चुप रहूँ। अब तजुँ जीवित ॥ ४ ॥

इतनी प्रार्थना करने या ऐसे लड़ने पर देव से भीतुकाराम महाराज मार्गते क्या थे, इस का भी विचार करना चाहिए। पीछे एक स्थान पर कहा गया है कि तुकाराम

जी को सगुणभक्ति ही बड़ी प्रिय थी। पर आप की सगुणभक्ति न केवल द्वैतभाव पर निर्भर थी न निरे अद्वैत पर। द्वैतभक्ति के सिद्धांत में देव और भक्त की भिन्नता का ज्ञान अंत तक रहता है। तुकाराम जी की भक्ति में यह न था। यहाँ तो देव और भक्त एक रूप थे। केवल देव और भक्त ही एक रूप नहीं, पुरुष, स्त्रियाँ, बालक सभी नारायणस्वरूप थे। परंतु यह होते हुए भी आप की उपासना नष्ट न हुई थी। वह ज्यों की त्यों बनी थी। “मैं ब्रह्म हूँ” और “वह तू है” इत्यादि महावाक्यों से आत्मा और ईश्वर का अमेद ज्ञान रहते हुए भी उपासना के हेतु आप ईश्वर को ईश्वर और भक्त को भक्त मानते थे। सब अवयव एक ही देह के होते हुए भी कर्म करने के समय चाहे जिस भाग से जैसे जो कर्म चाहे नहीं किया जा सकता, वैसे ही देव, जगत् और स्वयं एक होते भी प्रत्यक्ष व्यवहार में वे तीनों भिन्न ही मानने चाहिए। अद्वैत का ज्ञान आप को पूर्णतया हो चुका था, पर उस ज्ञान से आप के चित्त को शांति न मिलती थी। आप को तो भगवान् के चरणों की ही सेवा बड़ी मीठी लगती थी। देव और भक्त एक रूप हैं, इस सुख का अनुभव आप देव से भिन्न इहंकार भी लेना जानते थे। ऐसे भक्त की याचना में यदि यह विचार पद-पद पर पाया जाय कि “भगवन्, हमेशा मेरी आँखों में अपनी मूर्ति जड़ी रहने दो। हे मेरे सुदृढ़ पंढरीश, आप का रूप भी मीठा और नाम भी मीठा है। मुझे इन्हीं का प्रेम दो। अगर कुछ माँगना है, तो यही माँगता हूँ कि आप मेरे हृदय में निवास करें। आप ही के चरणों के पास सब सुख है, फिर उन्हे छोड़ कुछ और क्या माँगू ?” तो आश्चर्य ही क्या है ! इस सगुणभक्ति के अतिरिक्त आप और कुछ भी न चाहते थे। आप की इच्छा यही रहती कि सब इंद्रियों परमेश्वर की सेवा में और चित्त उसी के ध्यान में मगन रहे। इंद्रियों का देह-संबन्ध के कारण अन्यान्य काम करने पड़े, पर मन हमेशा ईश-स्वरूप के चिंतन में ही लगन रहे। गगरी पर गगरी तिर पर रख कर गूजरी जिस प्रकार खुले हाथ चलती है, लोभी को जैसे सब काम करते हुए धन का ही ध्यान रहता है, उसी प्रकार इंद्रियों की ओर से अन्यान्य काम होते हुए भी मन के ईश्वर-चरणों पर ही आसक्त बने रहने की श्रुतिकाराम महाराज की प्रमुख याचना थी।

इस के सिवाय आप और कुछ न चाहते थे। वेदातियों के मोक्ष की तो आप को इच्छा भी न थी। आप बड़ी मीत्र से कहते कि “मोक्ष तो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं। वह तो पल्ले में बँधा है। पर यदि आप इस जीव के भक्ति-सुख को पूर्ण करें तो आनंद है। जो जिस का है बही उसे देने में महत्ता क्या ? इस बात को समझ कर कि हमारा सुख किस में है, हम उसी को चाव से लेंगे। आप तुकाराम को संसार में पैदा करें तो मजे से कीर्ति पर उस के मन में अपनी प्रीति को अवश्य स्थान दीजिए।” वेदातियों के मोक्ष की तरह कर्ममार्थियों के स्वर्ग की भी आप को अभिलाषा न थी। आप कहते—“हे देव ! न हमें आप का वैकुण्ठ चाहिए न सायुज्य मुक्ति। अगर देना ही है तो केवल अग्ना नाम हमें दो। क्योंकि वैकुण्ठ में भी और क्या रखता है !” “नारद, तुंबक, उदक, प्रह्लाद, बलि, वृष्णांगद, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, तथा किन्नर—वहाँ पर केवल आप का नाम और उस के विषय में अखंडित प्रेम !” सांसारिक मनुष्यों के-से अन्यान्य सुख तो आप कभी माँगते ही न थे। आप तो प्रार्थना करते कि



‘हिः हरे, संतान न दो। संभव है कि उस के प्रेम में आप को भूल जाऊँ। द्रव्य तथा भाव्य न दो- क्योंकि अगर इन की प्राप्ति हो तो इन के नाश के बाद दुःख होने का डर है। वस आप तो मुझे फ़कीर-जैसा बनाइए जिस से कि रात-दिन आप ही की याद रहे।’ ज्ञान-विज्ञानादिकों की भी आप को अपेक्षा न थी। आत्म-स्थिति का अर्थात् आत्मा ब्रह्म है इस ज्ञान का तो आप विचार करना भी न चाहते थे। सायुज्यता मुक्ति आप को न भाती थी क्योंकि उम कल्पना में देवभक्ति का मज़ा चखना असंभव था। इसी प्रकार देव को नियुक्त और निराकार आप नहीं मानना चाहते। क्योंकि निर्गुण मानें तो गुणवर्णन कैसे हो और निराकार मानें तो पूजन कैसे हो। इस अनपेक्षा का कारण आप यों बताते कि “मीठे को मीठा मीठा नहीं लगता” अर्थात् ये सब बातें तो हमारे पास ही हैं। फिर इन की प्राप्ति की प्रार्थना करने से क्या लाभ? अगर प्रार्थना करनी ही है तो देवभक्ति की करनी चाहिए क्योंकि उस में प्रतिदिन भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ मान, भिन्न-भिन्न प्रकार का मज़ा उठा सकते हैं।

जिस प्रकार कुछ बातों की प्राप्ति के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, उसी प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐसी विनय करना पड़ती है, कि उन से ईश्वर बचावे। इन त्याग्य बातों में आप ने अहंभाव को सब से प्रमुख स्थान दिया है। मनुष्य इतना पराधीन और ऐसा दुर्बल रहते हुए भी कितना अहंभाव रखता है? इस विषय में आप ने कई उदाहरण बड़े अच्छे दिए हैं। सूर्योदय के समय सुर्गाँ कु-कु-कूँ करता है। पर इस पर से यदि वह अपने को सूर्योदय का कारण समझे तो उस की मूल्यता को क्या कहना चाहिए? तराजू-कहे कि “मैं तौलनी हूँ” पर वह बेचारी क्या जाने कि तौलनेवाला दूसरा ही है। सिक्का समझता है कि उस की कीमत है, पर वह नहीं जानता कि उम की नहीं राजा के छाप की है। काठ की पुतली नाचती है पर क्या वह अपने ही मन से नाचती है? उस की खोरी हाथ में पकड़नेवाला दूसरा ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य अहंकार करता है, पर वह बिल्कुल भूल जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। पेड़ की पत्ती भी जिस की आज्ञा के बिना नहीं हिलती, उसी की इच्छा बिना वह क्या कर सकता है? पर ऐसा होते भी मनुष्य अहंकार से कैसा फूला फूला फिरता है? इसी लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना रहती कि “भगवन् इस अहंकार की गर्दन मारो।” अहंकार के साथ ही दुर्बुद्धि से भी दूर रखने के लिए तुकाराम जी की सदा प्रार्थना रहती थी। बुद्धि का महत्व सब से अधिक है। मनुष्य को किसी काम में प्रेरणा देनेवाली यही प्रधान है। अतएव ब्राह्मणों ने अपने माषकी-मेष में इसी बुद्धि के प्रेरक सत्रितुदेव की प्रार्थना की है। तुकाराम जी भी सदा प्रार्थना करते कि “हे नारायण मन में दुर्बुद्धि कदापि पैदा न होने दो। अब तो ऐसा कीजिए कि आप के चरण कमल ही मन में दृढ़ता से चरूँ। जो भाव मेरे मन में पैदा हुआ है, वही आपकी रूपा से सिद्ध हो जावे तो, उस से अधिक कुछ भी लाभ मैं न समझूँगा।” इसी प्रकार सब बुरी वासनाएँ, काम क्रोधादि पद्मिपु, आलस्य इत्यादिकों से भी बचाने की प्रार्थना तुकाराम जी ने की है। आलस्य के बारे में आप ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि अगर आलस्य देना ही है तो विषयोपभोग के विषय में आलस्य दो। कई लोग पुन-

जन्म से बचने की प्रार्थना करते हैं, पर तुकारामजी कहते हैं “हे पांडुरंग, मेरी विनय सुनना हो तो मुझे मुक्त न करो, पर जन्म पर जन्म ऐसे दो जिन में आप के चरणों की सेवा करने का अवसर मिले। फिर स्वर्ग की भी मुझे इच्छा नहीं। मृत्यु-लोक में भी हम झुली रहेंगे।”

आप की एक याचना सदैव यह रहती कि दुर्जनों की सोहबत से ईश्वर बचावे। इन दुर्जनों से आप को सब से बड़ी तकलीफ यह होती थी कि, ये लोग भजन के विषय में वाद-विवाद कर के चित्त में विकल्प पैदा करना चाहते थे। “इन लोगों ने ऐसा पीछा किया है कि कुछ बोल ही नहीं सकता। जो बात मुझे नहीं समझ में आती वह सदा धूँलते हैं। पैरों पड़ने पर भी नहीं छोड़ते। मैं तो तेरे पैरों के अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं। मुझे तो सब जगह तू ही तू दिखता है। इन वादक भांडों से कहाँ तक वाद करूँ ? इन की जीभ तालू में ही क्यों नहीं चिपकी रहती ? खाते तो हैं प्याज और बातें करते हैं कस्तूरी की !” इसी लिए सत्जनों के समागम की आप सदा इच्छा करते। संतों का अनुभव प्राप्त करने की, उन्हीं के सेवक होने की, उन्हीं के ही अधीन रहने की आप की सदा इच्छा रहती। आप के ये विचार इस सीमा तक पहुँचते कि पंढरीनाथ को कुलदेवता माननेवालों के दासियों का भी पुत्र होने की, पंढरी की वारी करनेवाले के घर का जानवर भी बनने की, दिन रात श्रीविठ्ठल का चिंतन करनेवालों के पैर की जूती होने की या तुलसी-पूजन करनेवालों के यहाँ भ्रातृ भी करने की आप ईश्वर से प्रार्थना करते। सत्जन दुर्जनों के विषय में तो यह बात हुई, पर सर्वसाधारण लोगों की ओर से भी आप को बड़ी तकलीफ होती। ये लोग बिना समझे-झुके या तो स्तुति करते या निंदा। इस मिथ्या और अवास्तव प्रशंसा या निंदा से मनुष्य खुद को भूल जाता है और स्वयं अपने को दूसरे ही स्वरूप में देखने लगता है। इसी उपसर्ग से बचाने के लिए आप ईश्वर की सदा प्रार्थना करते। इसी हेतु आप एकांत-वास की इच्छा करते। आप समझते थे कि प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इसी लिए लोगों से दूर जंगलों में रहने का निश्चय किया, इसी लिए कंद-मूल फल खा कर वे अरण्य में जा रहने लगे, इसी लिए उन्होंने ध्यान लगा कर, मौन-मुद्रा धारण करने का अभ्यास किया होगा और इसी लिए आप भी यही चाहते थे कि लोगों से दूर रहें। श्रीतुकाराम जी महाराज ऐसे मनुष्यों की सोहबत चाहते थे, जो इन के मन का भाव समझ सकते। यही बात आप ने एक उदाहरण द्वारा भली भाँति समझाई है। एक कानडिन की एक मराठे के साथ शादी हुई। दोनों एक दूसरे की भाषा से परिचित न थे। एक बार स्त्री ने कानडी में पुकारा ‘हलवा’ अर्थात् ‘अजी’। मराठा कानडी कहाँ समझता था ? उस ने अपनी शर्मिल मराठी में समझा कि यह दूर होने के लिए क्रोध दे रही है, अतएव वहाँ से चला गया। यह उदाहरण दे कर तुकाराम जी कहते हैं कि “जो एक से एक मिलते नहीं, उन के मेल में सुख की बातों से भी दुःख ही बढ़ता है।” आप इसी लिए ऐसे लोगों का सहवास टाल कर सत्जनों की संगति चाहते।

नाम-स्मरण के विषय में आप की बड़ी दृढ़ श्रद्धा थी। ‘मन में काम, मुख में राम’ वा

मनका फेरत जुग गप, पाय न मन का फेर ।

कर का मनका छोड़ कर, मनका मनका फेर ॥

इत्यादि उपदेशों से या दंभ से आप अपरिचित तो थे ही नहीं। ईश्वर का ध्यान मन में रहने के विषय में आप कितने पक्षपाती थे, ऊपर कहा ही गया है। फिर भी यदि कोई ऐसा कहता कि “जब तक हमारे मन में ईश्वर नहीं आता, तब तक नाम लेने से क्या फायदा !” तो जैसा कि किसी हिंदी कवि ने कहा है—

राम राम रटते रहो, जब लग तन में प्रान ।

कबहुँ तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी कान ॥

आप भी कहते “मन में हो या न हो, पर मुस्ल में तो रहे। इसी विह्वल का नाम लेते और चिंतन करते देह छूट जावे। दंभ से हो या किसी अन्य प्रकार से हो, लोग हरि का दास तो कहें। ऐसा करते-करते ही कुछ काल में ईश्वर अवश्य ही सँभालेगा।” आप की यह भद्रा अंत तक अविचल रही और अंत में परमेश्वर ने आप को सँभाला भी।



## दशम परिच्छेद

### आत्मपरीक्षण और अनुताप

जिस वस्तु को मनुष्य स्वयं पा सकता है, उस के लिए वह किसी की प्रार्थना नहीं करता। पर जब कोई वस्तु जिसे वह चाहता है, उसे नहीं मिलती, तब वह जिसे अपने से बढ़ा या उस वस्तु के देने में समय समझता है, उस से उस वस्तु को माँगता है। इसी माँगने को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना करना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। बचपन से ही उसे इस की आदत पड़ी हुई है। बचपन में वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। हर एक बात के लिए उसे माँगना ही पड़ता है और माता पिताओं का प्रेम जिस पर जितना अधिक हो, उतनी ही उस की माँगने की आदत बढ़ती जाती है। अपनी माँग पूरी करने-वाले को ही परमेश्वर समझता है। बाल्यावस्था में जब कि अकेली माँ उस की सब इच्छाएँ तृप्त करने में समर्थ होती है, तब वह माँ को ही ईश्वर-स्वरूप मानता है। बयोवस्था के बढ़ते-बढ़ते वह समझने लगता है कि उस की सब इच्छाएँ पूर्ण करने के लिए न तो माता समर्थ है, न पिता, न भाई, न मित्र या न राजा। इसी इच्छा-विकास के कारण सर्व-शक्तिमान् सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की कल्पना प्रादुर्भूत हुई, जो कि अपनी सब कामनाएँ पूरी करने में समर्थ हो। बचपन की उसी आदत से मनुष्य को ईश्वर की प्रार्थना करने की बुद्धि होती है और जो बात दूसरे किसी से मिलने की संभावना न हो, उस के लिए वह प्रायः ईश्वर की प्रार्थना करता है।

प्रार्थना करते-करते जब वह बक जाता है तब चिढ़ कर भली-भुरी सुनाता है। और

सङ्गता है। अंत में जब देख लेता है कि प्रार्थना से या निंदा से अपनी कोई नहीं सुनता, तब निराशा हो 'अब मेरा कोई नहीं है। मेरी मनोकामना पूरी करनेवाला देव भी मर गया' कह उठता है। पर जो निराशा उस से देव को मरवाती है, वही निराशा उसी श्रुत देव की कल्पनाओं में से एक समर्थ और सजीव ईश्वर निर्माण करती है। जब वह देखता है कि अब कोई तारनेवाला नहीं है, वह परमेश्वर की शरण जाता है। पर उसे भी उद्धार करने में असमर्थ पा जब वह खुद ही अपनी वाञ्छित वस्तु पाने के लिए कमर बाँध लेता है, उसी समय सत्य-संकल्प परमेश्वर उस की आत्मा में वह प्रार्थना पूरी कर लेने की शक्ति प्रेरित करता है। फिर वह सोचने लगता है कि इष्ट वस्तु-प्राप्ति उसें क्यों न हुई। क्या उस ने योग्य प्रयत्न किए थे ? यदि किए थे तो उन में क्या त्रुटियाँ रह गई थी। या 'मर्ज दीगर दवा दीगर' हो गई थी। इन सब बातों को बड़ी गौर से जब वह देखता है तब उसे अपने असफल होने के कारण समझ में आते हैं। इसी विचार को आत्म-निरीक्षण कहते हैं। इस आत्म-परीक्षा के बाद जब वह भली भाँति अपनी त्रुटियों से परिचित हो जाता है, अपने दोष समझ लेता है, तब वह उन पर आँसू बहाता है और आग के लिए उन त्रुटियों को टाल कर या उन दोषों को दूर कर ठीक राह से उद्योग करता है। अंत में वह सफल हो बैठता है। कई बातों के मनुष्याधीन न होने से उसे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की ओर दौड़ना पड़ता है। इस परमेश्वर प्रसाद के विषय में भी पूर्वोक्त सभी बातें होती हैं। श्रीतुकाराम जी महाराज बड़ी भक्ति से ईश्वर से वर माँगते थे और उस के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते थे। उस पर नाराज़ भी हो बैठते, लड़ते, निंदा भी करते और बार-बार अपनी मनकामना उस पर विदित करते। पर केवल विदित करने से या प्रार्थना, निंदा इत्यादि बातों से कहीं मनोरथ पूरे होते हैं ? जब निंदा, स्तुति, लड़ाई इत्यादिकों से थक जाते, तो आत्म-परीक्षण करते, त्रुटियाँ ढूँढ़ते, उन्हें त्याग फिर यत्न करते और अंत में सिद्धि पाते। यह मनःस्थिति एक ही बार न होती पर बराबर अव्यल से अच्छीर तक रहती। जिस मनोवृत्ति में आप होने उसी के अनुरूप आप के मुख से अभंग निकलते। गत परिच्छेद में हम उन का परमेश्वर के साथ संवाद संक्षेप में सुना चुके हैं। इस परिच्छेद में थोड़ा आत्मपरीक्षण तथा अनुताप का भी आजाप करें।

आत्मपरीक्षण के समय सब से अधिक तीव्रता से जो बात ध्यान में आती है, वह है मन की दुर्नयता। जब श्रीकृष्ण भगवद्गीता का उपदेश अर्जुन को करने लगे, तब तब से प्रथम यही समस्या अर्जुन के सामने उपस्थित हुई। उस ने भी यही प्रश्न किया कि "भगवन्, यह मन बड़ा चंचल और ज़बरदस्त है। यह सबों को मथता है। इसे थाम रखना वायु को बाँध रखने की भाँति बड़ा कठिन है।" श्रीतुकाराम महाराज ने भी आत्म-परीक्षण विषयक अपने अभंगों में इस मन का अनिवार्यत्व बड़े अच्छे प्रकार से बतलाया है। इसी मन के कारण आप ने अपनी एक जगह कुत्ते से उपमा दी है। कुत्ता जैसे इस बात का विचार न कर के कि वह साफ़ है या नहीं, मालिक के पैरों में आ लिपटता है, मालिक को रोटी खाते हुए भी देख कर वहीं अपनी दुम हथर-उधर झाड़ता है और मालिक के कोह का ख्याल न रख उस के शरीर पर चढ़ बैठता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पास

जाने में तुकाराम जी की स्थिति हुई थी। कितना भी विचार कर देखो, सदैव ध्यान में यही आता है कि मन क्वाबू में नहीं। एक बड़ी भर तो क्या, पल भर भी यह एक विषय पर स्थिर नहीं रहता। इंद्रियों के आकर्षणानुरूप यह सबो से पहले आगे दौड़ता है। मज्जली की भाँति एक दफ्ता निगला हुआ गल यह बाहर नहीं उगल सकता। जिस रूप लक्ष्मणाबाँठे के पीठ पर मार खाते हुए भी खाने की चीज़ से अपना मुँह दूर नहीं करता। मार खाता ही चला जाता है, पर गल्ले में मारा मुख हटाता नहीं, उसी तरह ऊपर से दुःख की चोटें पड़ते भी यह बेशरम मन विषयों से दूर नहीं होता। बकरी जैसे चहान पर दौड़ती चली जाती है। इस बात का विचार नहीं करती कि आगे जाने से गिरेगी या मरेगी। पर पीछे से डर मालूम होने ही कूद पड़ती है। मन का ठीक यही स्वभाव है। इस मन का दूसरा एक दोष यह है कि किए हुए निश्चय पर यह दृढ़ नहीं रहता। पल-पल पर उस का निश्चय बदलता है। अच्छे-अच्छे विषयों पर दृढ़ विचारों से भी निश्चित किया हुआ मन फिर-फिर विकल्पों से भर जाता है। समुद्र की उछलती हुई लहरों का-सा इस का स्वरूप सदा बदलता रहता है। इस की प्रार्थना या विरोध जिस प्रमाण में किया जाय, उसी प्रमाण में वह प्रार्थित विषयों से दूर और निषिद्ध विषयों की ओर दौड़ता जाता है। भितने व्यवहारों में यह पड़ता है, उन्हीं के रंग ले कर यह मन उठता है, और इस प्रकार अनेक रंगों से रंगे जाने के कारण इस पर एक भी रंग भली भाँति जमता नहीं है।

श्रीतुकाराम जी महाराज को सदोदित जिन बातों का अनुताप था, उन में एक बात यह थी कि संतो के वाक्यों का प्रमाण मान आप जिन विषयों पर भ्रष्ट रहते थे, उन का बहुत दिनों तक आप का स्वयं अनुभव न था। तब तक आप हमेशा भीविद्ध की यही प्रार्थना करते थे कि “जैसा मुख से कहलाते हो, उसी प्रकार का मुझे स्वयं अनुभव होने दो, अनुभव होने दो। अन्यथा फ़जीहत का ठिकाना नहीं। बिना निमक के बनाया हुआ भोजन किस काम का ? बिना जान की लाश को सिंगारने से क्या फ़ायदा ? स्वांग बनाया, पर उस के अनुरूप यदि आचरण न हो, तो लाभ ही क्या ? दूल्हा-दुलहिन के न रहते शादी की सब तैयारियाँ की जावे तो पैसे का फ़जूल ही खर्च है। स्वानुभव के बिना कोरी बातें ही बातें व्यर्थ समझनी चाहिए।” जब तक भक्तिमुख का अनुभव न हो, तब तक ज्ञान की बातें ही बातें क्या कर सकेंगी ? केवल अद्वैतवाक्यों का विवरण कितना भी किया, पर स्वानुभव के बिना वह सब निरर्थक ही है। वे महावाक्य केवल ताँते के-से रटे हुए शब्द हैं। वे शब्द भोजन किए बिना खाली पेट आनेवाली इकारों के से ही हैं। जब-जब आप इस बात पर विचार करते कि कीर्तन में या उपदेश में आप ऐसी कई बातों का हवाला देंते थे जिन का कि स्वयं आप को अनुभव न था, तब आप को बड़ा बुरा लगता और उसी अनुताप में आप कह उठते कि “पुरुष जैसा पढ़ाओ वैसा बोल उठता है, पर स्वयं न तो उन शब्दों का अर्थ भली भाँति समझता है, न उस दशा का ही अनुभव करता है। स्वप्न में राज्य-प्राप्ति होने से जैसे कोई राजा नहीं होता, वैसे ही मेरा अनुभव है। रसीली कविता कर लोगों के मन रिझाता हूँ, पर यह तो केवल जिह्वों का अलंकार हुआ। इस से भीतर के चरखों की प्राप्ति कहाँ ? यह तो वैसा ही है जैसा

गीर्ण' चरानेवाला मन में समझे कि 'गाएँ मेरी हूँ'। पर इस विषया समझ से लब्धमुच न्या फलपदा ! लोग मुझे मानते हैं, इस की मुझे बड़ी लाज आती है। क्योंकि जिस के लिए वे मुझे मानते हैं, वस बात तो मेरे पास है ही नहीं। यह बड़प्पन तो उसी प्रकार का है जैसा कि तौलते-तौलते बिस जानेवाले बज़न का हो। केमल काँटा अन्न में नोकदार भी हो, तो भी ऊपर कड़ा न होने के कारण चुभता नहीं है। लिची तसवीर में का रूप कैसा भी सुंदर हो, जब तक उस में जान नहीं तब तक उस की सुंदरता व्यर्थ ही है। उसी प्रकार अनुभव न होने से हे भगवन्, तुकाराम तो निकम्मा ही जान पड़ता है।" "खपरे के होन बना कर बच्चे खेलते हैं पर उस खेन-वेन से न्या लब्धमुच लाभ या हानि होती है ? कढ़ी की भी बाते और भात की भी बाते—इन बातों से न्या किसी का पेट भरता है। 'शकर' अन्न कागाज़ पर लिखने और उन्हें चाटने से न्या वे मीठे लगेंगे ? इसी प्रकार न्या केवल शब्द ज्ञान से किसी का उदार हो सकता है ! अनुभव के बिना यह तो केवल मसखरापन है।"

ऐसा होते हुए भी अभिमान कभी-कभी आप को सता ही जाता। कभी-कभी आप को ऐसा जान पड़ता कि उन की अपेक्षा दूसरा कोई अच्छा बोलनेवाला भी नहीं। अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। तुकाराम जी कहते "आग लगे ऐसे ज्ञान के अभिमान को। इस ने मेरा खून किया है। खाया हुआ अन्न अगर पचे तां ही हितकर है। अगर वह अन्न उगल पड़े, तो शरीर को पुष्ट करने के बजाय वह पीड़ा ही देगा। इकट्ठे किए धन का यदि कोई उपयोग कर सके तो ही ठीक। अन्बया तो वह जान की आफ़त ही है। ऐसे ज्ञान से तो पूरा अज्ञान ही अच्छा है।" ज्ञान का अभिमान होते ही ईश्वर-स्वरूप से वह अभिमानी ज्ञानी दूर होता है। बच्चा सुजान होते ही मा उसे दूर-दूर रखती है। पानी के बूँद का मोती बनते ही वह पानी से दूर किया जाता है। मन्खन दूध से अलग निकलते ही दूध के ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ईश्वर से दूर ही होता है। तुकाराम जी ने कहा है "मेरी जाति हीन होते हुए भी लोगों ने—संत-सज्जनों ने—मेरी स्तुति की। इसी कारण मेरे मन में गर्व पैदा हो गया। अब वह मेरा सर्वस्व हरण करना चाहता है। इसी कारण मैं ऐसा फूल उठा और मन में समझने लगा कि मैं ही एक ज्ञानी हूँ। हे पंदरी-नाथ, तुकाराम इस गर्व से मुझ मारा जाता है। उसे बचाओ।" इसी अनुताप से तस हो आप प्रार्थना करते कि "मुझे न तो सुख चाहिए, न मान। पर मैं क्या करूँ ? लोग रहते बर्षी। इस बेह के उपचार से मेरा शरीर जल रहा है। अच्छे से अच्छा मोठा अन्न भी विष जैसा जान पड़ता है। मेरी बड़ाई बखान करनेवाले लोगों की स्तुति अब मुझ से सुनी नहीं जाती। मेरा मन बहुत धररा रहा है। इस मृगजल में मुझे क्यों फँसते हो ! मेरा बन्धन हित करो। अलती आग से मुझे बचाओ और ऐसी कुछ तरकीब करो जिस से मुझे आप के चरखों की प्राप्ति हो।"

ईश्वर-प्राप्ति के जो अन्यान्य साधन माने जाते हैं, उन में से आप ने बहुत ही छोड़ों का अचरन्व किया था। आप के लिए यह एक अनुताप के विषय की बात थी। वेदाङ्गों को पाठ करने का अधिकार न होने के विषय में आप को जो झोम था,

उस का हवाला हम पीछे दे ही चुके हैं। उसी का वर्णन इन स्थानों में भी पाया जाता है। ये सब ईश्वर-प्राप्ति के साधन बड़े कठिन हैं। अन्न छोड़ कर उपवास करना, अंगल में जा कर रहना, जप, तप, आदि करना, मनोनिग्रह करना, तीर्थयात्रा कर एक तीर्थ का जल दूसरे स्थान के ईश्वर को ले जा कर चढ़ाना इत्यादि अनेक उपायों में से आप के हाथों एक भी न हुआ था। आप तो केवल वाणी से स्तुति करते थे। उस में भी आप अपने को कम बुद्धिमान् समझने के कारण संतुष्ट न थे। भाग्य से तो आप ऐसे हीन थे कि जिस काम को हाथ में लेते वही आप पर उलटता ! न आप के हाथों भलीभाँति संसार हुआ था, न इतने दिनों तक आप को परमेश्वर प्राप्ति हुई थी। इस पर आप को अनुताप होता था। न जर्मन से कुछ प्राप्ति होती थी, न लोगों से आप भीख माँगते थे। इस प्रकार आप अपने को पूरी तौर से हीन समझते थे। आप को इन्हीं कारणों से जान पड़ता कि “मैं दूसरे के दोषों को क्यों देखूँ ? मुझ में उन की क्या कमी है। दूसरों के पापों का विचार करने से मुझे क्या लाभ ? मेरे पास क्या वे कम हैं ? दूसरे की दुष्टता का बयान क्यों करूँ ? क्या मुझ में वह उन से एक रत्ती भर भी कम है ? कर्तव्य को टालनेवाला और झूठा तो मुझ से बढ़ कर कोई न होगा जिस की तलाश में मैं फिरूँ ! सब प्रकार की हीनता से मैं पूरा हूँ। पर हे पंढरीनाथ, ये सब बातें केवल आप के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ।” इसी अनुताप के कारण जब-जब आप को भविष्यल प्रसाद की कल्पना होती थी, आप का हृदय कृतज्ञता से भर आता था। उस पर भी जब कभी आप को मनुष्य-स्वभावानुरूप अपनी भक्ति भी घटती जान पड़ती, आप को बहुत बुरा लगता। आप कहते “हे नाथ, पहले जो प्रेम मेरे मन में आप के विषय में था वह भी अब न रहा। मेरा मन मुझे इस बात की गवाही देता है कि मेरी ईश्वर-विषयक भक्ति दिन-प्रतिदिन घटती जाती है। यह सोच कर तो मेरे मूलधन में ही मुझे घाटा दीख रहा है। स्वयं अपने को पूज्य बनाने के हेतु मैं दूसरों में गुण-दोष कई बार दिखलाता हूँ। यह तो ठीक मुझे की-सी ही बात है जो अपने पैरों से आगे-आगे खरोचता चला जाता है यहाँ तक कि निकले हुए दानों को भी न देख उन पर भी धूल फेंकता ही जाता है।”

प्रायः यह माना जाता है कि पड़िपुत्रों में काम, क्रोध और लोभ सब से अधिक प्रबल होते हैं। पर इन्द्रिय दमन करनेवाले लोगों का अनुभव है कि इन तीनों को इतना प्रबल न मानना चाहिए जितना कि दूसरे तीन अर्थात् मोह, मद और मत्सर के। पहले तीनों के विषय में यह कह सकते हैं कि उन का प्रादुर्भाव न केवल उसी मनुष्य की समझ में आता है जिस के कि चित्त में ये आ कर जम जाते हैं वरन् अन्य पुरुषों को भी यह ज्ञान हो जाता है कि फलान् आदमी में ये तीन शत्रु जम गए हैं। इन का स्वरूप ही ऐसा स्थूल है कि वह छिपाए छिपाया नहीं जा सकता। परंतु इस दूसरे तिगड्डे की बात और ही है। ये तीनों इतने सूक्ष्म-रूप से हृदय में प्रवेश करते हैं कि दूसरों की तो बात ही क्या, खुद उस मनुष्य को भी जिस के कि मन में ये प्रादुर्भूत होते हैं, पता तक नहीं चलता कि ये चोर भीतर बुसे हैं या नहीं। प्रकट रूप से रहनेवाले बैरी से रक्षाय कर लेना सुलभ है, पर इन छिपे शत्रुओं से छुटकारा पाना बड़ी टेढ़ी खीर है। दंभ इन तीनों का मित्र या संयुक्त स्वरूप है।



मोह से मनुष्य को अपने निज स्वरूप की भूल हो जाती है। वह स्वयं अपना असली स्वरूप नहीं पहचान सकता। मद से वह अपने को दूसरे ही प्रकार का समझने लगता है। अपने में न होते हुए सद्गुणों की भी वह अपने तर्ह मिथ्या कल्पना कर लेता है। जब इन दोनों का अंतर भली-भाँति जम जाता है, तब मत्सर उसे दूसरों के विषय में अंधा करता है। फिर उस को दूसरों के राई से दोष भी पहाड़ बराबर नज़र आते हैं। तथा दूसरों के पर्वत-प्राय सद्गुणों पर उस की आँखें ही नहीं पड़तीं। इन तीनों के कारण एक प्रकार की आत्म-बंधना होने लगती है। इस के कारण मनुष्य अपने दोष नहीं देखता, गुण ही गुण देखने लगता है, यहाँ तक कि अपने दुर्गुणों को भी सद्गुण समझने लगता है। दूसरों के प्रति उस की दृष्टि इतनी कलुषित होती है कि उन के सद्गुण तो इसे दीखते ही नहीं। केवल दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन बेचारों के सद्गुण भी इसे दुर्गुण के ही स्वरूप में गोचर होते हैं। बस, दंभ का यही स्वरूप है। ऊपर की खूब बनाता है, अंदर की छिपाता है और बाहर की दृष्टि बदल देता है।

दंभ पर भीतुकाराम जी महाराज की बड़ी वक दृष्टि थी। अच्छे कामों का दोग करने के आप पक्षपाती केवल इसी लिए थे कि अच्छे काम करने की दंभ से क्यों न हो पर आदत पड़े। परंतु इस से यह न समझना चाहिए कि आप दंभ के पक्षपाती थे। दंभ का निषेध आप ने बड़ी तीव्रता से किया है। दंभ पर आप कहते हैं “ज्ञावरदस्ती बाहर का स्वाँग तो खूब बनाया, पर मन में तो बुरी बातों का त्याग हुआ ही नहीं। इस बात का तजकबा मुझे नित्य प्रति रहा है। क्षण भर जायतावस्था आती है पर ज़ोरन ही जो स्वप्न दीखने लगते हैं, उन में जागती हालत का अनुभव नहीं होता। वह सब भूल जाता हूँ। इस संसार के बाहर तो मन अभी गया हां नहीं। वह तो दिन-प्रतिदिन उन्हीं धंधों को कर रहा है। यह तो हुई बहुरूपी लोगों की-सी बात कि ऊपर का रूप बदला पर भीतर क्यों का क्यों रहा।” ऊपर से हरिदास कहलाते, भीतर भिन्न भाव रहता। गाना, नाचना, भजन करना, सब लोगों को दिखलाने के लिए होता है। नारायण का असली प्रेम दूर ही रहता है। जो असल में समझना चाहिए वह तो समझता नहीं। केवल दंभ में डूबे जाते हैं। कालपुरुष ने आयु-मर्यादा की गिनती नियत कर दी है। रोज उस में कमी ही होती जाती है। पर मनुष्य इन बातों का विचार कहीं करता है? सत्य का स्वरूप तो भीतर-बाहर एक-सा रहता है। फिर जहाँ अंदर एक, बाहर एक वहाँ सत्य की उपस्थिति कैसे हो? धरं तो परमेश्वर-प्राप्ति की इच्छा और करे बुरे काम! फिर ईश्वर कैसे मिले! यही बात ध्यान में ला कर, आप परमेश्वर से लड़ते-झगड़ते रह जाते। आप के ध्यान में आ जाता कि मन में संसार की बातें और बाहर भक्ति का दोग है। इसी लिए परमेश्वर के चरख दूर हैं। “मन में बसे लोभ अरु आसा। लोग कहत हैं हरि के दासा।” इस प्रकार से न तो देव मिलता है, न संसार होता है। दोनों ओर से मनुष्य जोर ही ठहरता है। पानी में कूद पड़े, पर जिन तूँकों के आभार पर कूदे, वे ही यदि फूटे हों, तो किनारे कैसे लाने? मन में तो शक्तिपु जाग रहे हैं। ऊपर से भगवन्नक्त कहलाते हैं। यह तो वैसे ही हुआ जैसे, “बेट में उठ रहा है शूल और ऊपर से लगाया जाता है चंदन। उस चंदन-चर्चन से क्या

सुख ? दुःखारं से मुँह हो रहा है बेस्वाद और आगे रक्खे जायें भीठे-भीठे भोजन । पर वह बेस्वाद उन का स्वाद कैसे ले ? इसी प्रकार हे पंढरीनाथ, आप ने लोगों में तो मेरी प्रतिष्ठा बूझ बढ़ाई, पर जब तक मेरा दिल न सुधारे तब तक यह सब किस काम का ?”

संसार छोड़ने के विषय में आप का दृढ़ मत था कि जब तक मनुष्य अपनी सब आशाओं का त्याग न करे, अपनी आशाओं का बूझ समूल न उखाड़ सके, तब तक उस को वैरागी न बनना चाहिए । तब तक उस के लिए तो यही ठीक है कि वह संसार में ग्रहस्थ ही बना रहे, नहीं तो न इधर का रहेगा न उधर का । इसी कारण श्रीगुकाराम महाराज ने यद्यपि संसार वास्तव-रूप में मन से छोड़ दिया था, तथापि आप ने वैरागी-वृत्ति को स्वीकार न किया था । परंतु इसी कारण कभी-कभी आप के मन में ऐसा भी विचार आता कि स्त्री-पुत्रादिकों के विषय में थोड़ी बहुत आशा रहने के कारण और विषयों में मन आसक्त रहने के कारण ही ईश्वर दूर रहा । कभी-कभी लोक-लाज के लिए आप कुछ काम करते, पर अंत में समझते कि इन्हीं कामों से परमेश्वर दूर रहा । पर पीछे से पछताने में क्या लाभ था ? अगर पहले ही यह बात समझ में आ जाती तो यह शलती आप क्यों होने देते ? एक दम ही ईश्वर के चरणों पर जा गिरते और दूसरी किसी बात को आड़ न आने देते । भूढ़ के बस क्यों होते और फ़ज़ूल बोक सिर पर क्यों उठाते ? गर्भवास ही क्यों लेते और कुटुंब की सेवा क्यों करते ? पर भला हुआ कि देर से क्यों न हो, समझ तो आ गई । कूटी बातों की आस में कैसे थे, मिथ्याभिमान से अनेक दोषों के पात्र हुए थे, मृत्यु की याद भूल गए थे, लोभ में बुद्धि को प्रवृत्त कर चुके थे, यहाँ तक कि शहद पर बैठे हुए मक्खी की-सी वह छूटने न पाती थी । परंतु धीरे-धीरे आँखें खुल गईं । भला हुआ, अन्यथा सारा संसार आप के नाम से चिल्लाता और रोता । संसार-समुद्र पर आप ने एक रूपक रचा है, जो कि कबीरदासजी के ‘गुरु बिन कौन बतावे बाट’ पदों के रूपक की याद दिलाता है । आप कहते हैं “यह भव-समुद्र बड़ा दुस्तर है । समझ नहीं पड़ता कि इस के पार कैसे जाऊँ ? काम, क्रोधादि जलचर बड़े मयंकर दीख रहे हैं । माया, ममता इत्यादि भीरे पड़े हुए हैं । वासनाओं की लहरें उठ रही हैं और उद्योगों की हिलोरें बैठ रही हैं । इस को तरने की केवल एक ही युक्ति है, और वह है नाम रुपी नौका का आश्रय ।”

चरित्र-विषयक परिच्छेदों में कहा जा चुका है कि काम-क्रोधादिकों पर आप ने कैसी विजय पाई थी । पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह ठीक था, तथापि आत्म-निरीक्षण की दृष्टि से जब श्रीगुकाराम जी महाराज देखते, तब आपको मालूम होता कि ये शत्रु हृदय में जीते ही थे, मरे नहीं थे । और तब तक आप का बोलना केवल ऊपर-ऊपर का ही था । विचार करने पर यही जान पड़ता कि न इंद्रियों का दमन हुआ था, न उन के दमन करने की सामर्थ्य ही थी । सब शक्तियाँ क्षीण और कुंठित हो गई थीं । खुद को फ़ज़ूल गारूर हो गया था । पर असल में देखा जाय तो काम-क्रोध मन में राज्य ही कर रहे थे । केवल दूसरों को उपदेश करते थे, पर स्वयं एक भी दोष से पूर्णतया दूर न हुए थे । इन को जीतने का एक ही मार्ग था । सबों का उपयोग ईश्वरप्रीत्यर्थ करने से ही इन का नाश होना शक्य था । जब हृदय ईश्वर से भद्र ज्ञाता, तमी इन्हें जीत लेना संभव था ।

हृत्ती लिए आप ने कहा है कि, "ये शत्रु थोड़ी देर तक चुप बैठते हैं, पर पूर्णतया नष्ट नहीं होते। ये विष-द्वार बड़े दुस्तर हैं। अगर आप हे भगवन्, हृदय में पूरे-पूरे भर जाते, तो सभी विषय आप के स्वरूप में मिल जाते और मन निर्विषय हो जाता। ईश्वरकृपा हो गई, इस की गवाही मन देने लगता और खाली शब्द ही शब्द बंद पड़ जाते। ऐसी सूत्र दृष्टि से देखने-वाले को ही आगे लिखा अनुभव हो सकता है। "नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, जिज्ञा से अमृत टपकने लगता है, और सब प्रकार के लामों के शकुन होने लगते हैं। भीविहल की कृपा होने से मन रेंग जाता है, और ईश-चरणों पर स्थिर होता है। पेट भरा-सा जान पड़ता है। इच्छाएँ मर जाती हैं और तृप्त पुरुष की ढकारों के-से तृप्ति के शब्द स्वभावतः निकलने लगते हैं। सुख सुख की भेंट करने आता है, सुख को तो मानो शब्दों की निधि मिल जाती है, और आनन्द की सीमा ही नहीं रहती।

जब इतनी सूत्र रीति से आत्म-निरीक्षण किया जाता है, अपना राई सा दोष भी पहाड़-सा नज़र आता है और अपने सद्गुण नज़र के सामने नहीं ठहरते, तभी असली अनुताप होता है, तभी जिस बात की लौ लगी हो, उस के लिए चित्त बिल्कुल अधीर हो उठता है और मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि "भगवन् आप को बार-बार याद दिलाने के लिए कहता हूँ कि मेरा भाव कैसा है। जो दिन बीत गए वे फिर नहीं आते। आने-वाले दिनों की न कुछ सीमा है, न कुछ आशा है। गुणावगुणों के आघातों से दिल धरा रहा है। तुम्हारा कुछ भी आसरा नज़र न आने के कारण चित्त अधीर हो गया है। आग लगे इस अधीरता को! आप तो हो भगवान् और हम हैं बिल्कुल अधीर। ऐसी दीन स्थिति में कितने दिन ठहरे रहें? अब तो यहाँ से अनुभव के साथ मुझे छुड़ाना ही चाहिए। मैं अपने स्वभाव के कारण बिल्कुल थक गया। अब तो कृपा कर मुझे धीरज दीजिए। बड़े भ्रम से गले लगा कर मेरे सब, जलते हुए अंगों को शीतल कीजिए। अमृत की दृष्टि से मुझे देख मेरा धराया हुआ जीव शांत कीजिए। मुझे उठा कर गोद में लीजिए और अपने पीतांबर से मेरा मुख पोंछिए। मेरी टोड़ी पकड़ कर मुझे समझाइए। प्यारे पिता जी, अब तो तुकाराम पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए।" ऐसी अनुताप भरी अधीरता के बाद परमात्मा दूर नहीं रहता। हृदय में निवास करनेवाला वह हृदयेश्वर चित्त को शांति देता है, सब इन्द्रियों को तृप्त करता है, वासनाओं को नष्ट कर डालता है, काम-क्रोधादि को सुलाता है, सद्विच्छाओं को जाग्रत करता है, दुनिया भर में आत्म-स्वरूप दिखलाता है और शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, शीतोष्ण इत्यादि बंदों को दूर तथा आत्मानन्द में निमग्न कर देता है। धन्य हैं वे भगवद्भक्त जिन्हें इस प्रकार ईश्वर-स्वरूप की प्राप्ति हुई है तथा धन्य हैं वे लोग जिन्हें ऐसे भगवद्भक्तों के मुख से उन की अमृतमय वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम ऐसे जड़ जीवों को यद्यपि वह सौभाग्य न मिलता हो, तथापि वही अमृत हमारे लिए अघापी मौजूद है। पर फिर भी यहाँ न तुकाराम जी का मुख है न उन की भाषा। किंतु जब तक अर्थ बही है, तब तक शब्दों को महत्व नहीं। अमृत सोने की कटोरी से पीजिए, हाथ की प्याळ से पीजिए या पत्ते के दोने से पीजिए। पीनेवाले को समान लाभ होता है।

## एकादश परिच्छेद

### आत्मानुभव

आँख और कान में चार अंगुल का अंतर होता है। पर यही अंतर आँखों-देखी बात में और कानों-सुनी बात में कई गुना बढ़ जाता है। कारण जिस वस्तु के देखने का अनुभव आँखों द्वारा होता है उस का कितना भी वर्णन कोई क्यों न करे, उस को यथार्थ कल्पना नहीं हो पाती। यह देखने के विषय में हुआ। यही बात उलटा कर कानों के विषय में भी कही जा सकती है। यथा किसी गाने की महकिल का चल-चित्र देखा जाय तो वह अनुभव तथा महकिल का दृश्य अपनी आँखों न देखे भी उस में का संगीत सुननेवाले का गान-विषयक अनुभव बिल्कुल भिन्न होगा। सारांश यह कि जिस विषय का अनुभव जिस इंद्रिय से आता है, वही इंद्रिय उस का अनुभव करने में समर्थ होती है, दूसरी नहीं। और तो क्या, बोलने की और चलने की दोनों क्रियाएँ एक ही जीभ करती है। पर वही जीभ किसी मधुर चीज का आस्वाद ले कर उसी का वर्णन यदि करने लगे, तो वह भी उस काम में असमर्थ हो जाती है। इस का कारण यही है कि मन को प्राप्त हुआ अनुभव वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता। इसी को लक्ष्य में रख कर गुसाईं जी ने कहा है कि “गिरा अनयन नयन विनु बानी” अर्थात् जिस में वर्णन करने की सामर्थ्य है वह वाणी देख नहीं सकती और जो नेत्र देख सकते हैं, उन के पास बोलने के लिए वाणी नहीं है। पर ऐसा होते हुए भी प्रत्यक्ष अनुभव ले कर उस का वर्णन करनेवाले और केवल सुनी-सुनाई या पढ़ी-पढ़ाई अनुभूत बातों का बयान करनेवाले में बड़ा फर्क होता है। उदाहरणार्थ खाने के अनुभव की ही

बात लीजिए। मान लीजिए, एक भूखा आदमी केवल पुस्तकें पढ़ कर या पेट-भरे लोगों की बातें सुन कर पेट भर खाने के सुख का वर्णन कर रहा है। वह कितना भी विद्वान् क्यों न हो, उस की वर्णना-शक्ति कैसी भी जबरदस्त क्यों न हो, पर उस के इस अनुभूत वर्णन की अपेक्षा, पेट भर खा कर अफरे हुए आदमी की केवल एक डकार, उस सुख की कल्पना भोताओं को अधिक दे सकती है। अनुभव की बात कुछ और है। भीसमर्थ रामदास स्वामी जी की भाषा में कहा जाय तो 'सिवाय अनुभव के बोलना ऐसा है, मानों कुत्ता मुँह फाड़ भूँकता है।' अनुभवी मनुष्य की आश्चर्यकता संसार को इसी लिए अधिक है। उस की एक नज़र, उस का एक स्पर्श, उस का एक शब्द पृष्ठ-भर उपदेश से अधिक कीमत का है। शीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभूतिपर उद्गारों का इसी में महत्व है कि ब्रह्मानंद की कल्पना का उद्गार वे बहुत थोड़े शब्दों में पाठकों के प्रति भली-भाँति कर देते हैं।

कल्पना कीजिए कि एक बड़ा बीमार आदमी है। बीमारी से बेचारा कँदरा गया है और कई दवाइयाँ करके थक गया है। दैववश कहिए या उस के उद्योगवश कहिए, उसे एक ऐसा रसायन मिल गया कि उस की काया नीरोग हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से आरोग्य मिल गया। ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना कर सकता है कि उस के सुख से किन विचारों का सब से अधिक उच्चार होगा। सब से पहले तो वह बड़ी खुशी मनावेगा और फिर अपनी नीरोगता का वर्णन करेगा। वह दवाई कहीं से और कैसे मिली, उसे तैयार कैसे किया, अनुपान क्या था, पथ्य क्या किया, इत्यादि बातें यदि वह बार-बार कहे, तो आश्चर्य ही क्या है? मामूली रोगी पुरुष की यदि यह बात हो भवरोग-सी बीमारी, शीतुकाराम जी-सा मरीज़, श्रीविठ्ठल-नाम का रसायन और ब्रह्मानंद-रूपी आरोग्य की प्राप्ति— तो इस के विषय में कहना ही क्या है? इस रसायन का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं "प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के भागों को अटा कर यह उत्तम रसायन बनाया। ज्ञानाग्नि पर उसे खूब आँच दे कर कड़कड़ाया। जब ब्रह्म में उस का रस पूरा-पूरा मिल गया, तो प्रतीति-रूपी सुख से उस का सेवन किया। बड़ी साधना से हर एक खुराक के साथ उस का ध्यान रक्खा। तब वह रस सब शरीर में सगरस हो गया। सब काया सुख से भर गई। अब तो तुकाराम के आठों अंगों को आरोग्य-प्राप्ति हो गई। अब तो वह आत्म रंग में रँग गया।" इस रंग में रँगे जाने की देह-स्थिति भी आपने क्या अच्छे प्रकार से बखानी है? आप कहते हैं "हृदयस्थ निशानी पहचान कर चित्तवृत्ति स्थिर हो गई। प्रायः-वायु लँगड़ा गिर पड़ा। अघखुले नेत्र तेज से चमचमाने लगे। गला भर आया। शरीर भर में रोगटे खड़े हो गए। मन तो निज रूप से ऐसा लिपट गया कि कहीं बाहर आना-जाना ही भूल गया। जिधर देखो उधर नील-वर्ण का प्रकाश दीखने लगा। जिह्वा को अमृतपान होने लगा। आनंद पर आनंद की हिलौरी आने लगी और प्रेम से डोलता हुआ तुकाराम अब निश्चय-पूर्वक परमात्मा में लीन हो गया।" "भीषांडुरंग की कृपा से सब संदेह और बुद्धि-भेद दूर हो गए। अब तो जीवशिव की शय्या आनंद से सजाई गई। तुकाराम ने उस पर आसेवा भी किया। अब उसे निज-रूप की नींद लग गई और अनाहत ध्वनि के गीत

उस की नींद न खुलने के हेतु गाए जाने लगे।” “अब तो बिधर देखो उधर प्रेम का सुकाल हो गया है। रात-दिन प्रेम का सुख सूट रहे हैं। सब दुःखों से छुटकारा पा कर सब प्रकार के भ्रम दूर हो गए। इस दुनिया में अब तेरा-मेरा भाव नष्ट हो गया। अब पांडुरंग ही पांडुरंग रह गया। सब अलंकारों से अब हम सज गए और सबों से अधिक सुहावने दिखने लगे। अब तो तुकाराम ऐसे सुदैवी का दास बन गया है कि उसे किसी और की आस नहीं रही।” “अब तो प्यास प्यास को पी गई और भूख को भूख ने खा डाला। श्रीविठ्ठल ने ऐसी तलाशी ली कि जहाँ का वहाँ नहीं हो पाया। वासना को अब वासना ही नहीं बर्षी और चंचल मन तो श्रीविठ्ठल के चरणों पर पंगु हो कर गिर पड़ा। जीव की भूल जीव ने पहचान ली। यदि अब कुछ बाक़ी बचा है तो वह है एकाकी तुकाराम।”

यह भव रोग क्या है ? इस जगत् में जितनी चीज़ों का इन्द्रियों को ज्ञान होता है, उन के नाम और रूप को छोड़ उन का अंतर्गत तत्व न पहचानने से मनुष्य माया के फेर में पड़ता है और यह मेरा यह तेरा इस प्रकार का भेद-भाव धारण करता है। अंत, यही भव-रोग है। यदि यह सत्य हो, तो जिस रसायन का तुकाराम जी ने वर्णन किया वह और कुछ न हो कर सृष्टिगत सब पदार्थों का मूल-तत्व और स्वयं अपने देह में प्राप्त मूल-तत्व को पहचानना और दोनों में ‘भेद नहीं, अभेद’ जानना ही है। इसी को सर्वात्मकता कहते हैं। चर, अक्षर, सब वस्तुओं में एक ही तत्व भरा हुआ है। हमारी भ्रम-बुद्धि द्वैत-भाव निर्माण करती है जो असली वस्तु का ज्ञान होते ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार का वर्णन तुकाराम जी के स्वानुभूतिपर उद्गारों में कई बार आया है। आप कहते हैं “किसी सर्वश ने हाथ में रस्सी ले कर किसी अज्ञानी पुरुष को डराया कि वह साँप है। पहले तो वह डर गया। पर असली बात यानी डोरी का ज्ञान होते ही दोनों को भी डोरी एक-ही ही ज्ञात होने लगी। दे हरे, तुम हम में भी इसी प्रकार का भेद पड़ गया था। मृगजल की वाद में मैं अपने को बहता समझ उस वाद को पार करने की कोशिश कर रहा था। गले की हँसुली, हाथ का कड़ा और सिर का फूल, ये तो सब अलंकारों के नाम-भेद हैं। पर यदि ये सब अलंकार गलाए जावें तो इन का नाम दूर हो कर यह सब एक ही सोने के रूप में आयेंगे। बाजीगर जैसे पर का कभूतर कर दिखलाता है, उस तरह तुकाराम को तो कृपा कर न भुलाइए।” “मिश्री और चीनी केवल नाम और रूप में ही भिन्न हैं। पर मिठास की दृष्टि से देखा जाय तो दोनों में क्या फेर है ? इसी प्रकार हे पांडुरंग, तुम में और हम में क्या फ़र्क है ? फिर ‘यह मैं’, ‘यह मेरा’ इत्यादि प्रकार से दुनिया को क्यों फँसाऊँ ? पैर, हाथ, नाक और सिर में एक ही सोना अलग-अलग गहनों के नाम और रूप से पहना जाता है। पर आँच में गलाने के बाद उन में क्या भेद रह जाता है ? जब तक आदमी छोले-छोले अपना देख रहा है, तभी तक उस स्वप्न के लाभ-हानि से वह खुशी मनाता है या सिर पीट कर रोता है। पूर्णतया जाग जाने पर दोनों बातों का सुख-दुःख एकदम दूर हो जाता है। “यही जाननेवाला पुरुष पंडित है और कोई भी यदि अहंकार दूर कर विचार करे, तो उसे यह ज्ञान सहज में हो सकता है। जब सभी लोग आत्म-स्वरूप में देखने लगते हैं, तो उन के मुखों या दोषों की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। नाले का पानी समुद्र में मिल जाने पर अक्ष-

उस में नाले के गुण-दोष कहाँ रहे ? वह तो अब समुद्र-रूप ही रहेगा । उसी प्रकार तुकाराम महाराज के मन का भेद नष्ट हो जाने पर फिर दुःख कहाँ से बचा ? जिधर देखो उधर उन के लिए सुख ही सुख हो गया ।

इस प्रकार की सर्वात्मता मन में दृढ़ होने के बाद यदि उपासना में कुछ अर्थ बाह्यदृष्टि से न रहे तो कुछ आश्चर्य नहीं है । फलवाले पेड़ के फूल का महत्त्व तभी तक है, जब तक उस फूल का रूपांतर फल में नहीं हुआ । फल दृश्य होते ही फूल अदृश्य होने का दुःख नहीं होता । उसी प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्ण ज्ञान हो गया, तब फिर पूजन करने वाला पूजक, पूजन के साधन और जिस का पूजन करना हो वह पूज्य परमेश्वर तीनों बातें एक ही हो जाती हैं । फिर तो ऐसा जान पड़ता है कि किस की उपासना करूँ और करूँ भी तो उस में मेरा क्या है ? तुकाराम महाराज पूछते हैं, “हे केशवराज, मेरा यह तो संदेह अब मिटा दो कि आप का पूजन कैसे करूँ ? अगर जल से तुम्हें नहलाऊँ, तो जल तुम्हारा ही स्वरूप होने के कारण उस में विशेष क्या है ? चंदन की सुगंध और सुमनों का सुवास तुम्हारा ही होने के कारण, मैं दीन अब आप पर क्या चढ़ाऊँ ? दक्षिणा दूँ तो धातु भी नारायण-स्वरूप है और नैवेद्य समर्पण करूँ तो अन्न तो साक्षात् परब्रह्म ही है । अगर भजन करूँ, तो सब शब्द अकार रूपी नाद ब्रह्म ही हैं और आप से सब पृथ्वी भरी होने के कारण नाचने का भी खाली स्थान नहीं । फलदाता तो तुम्हीं हो, तांबूल, दक्षिणा भी तुम्हीं हो, तो अब वतलाइए कि आप का पूजन कैसे करूँ ?” और एक अभंग में आप कहते हैं “अब तो मैं न पाप मानता हूँ न पुण्य, न सुख या न दुःख । हानि-लाभ की मेरी सब कल्पनाएँ नष्ट हो गईं । जिंदा रहते भी मैं मर गया । मेरा आप-पराया भाव नष्ट हो गया । संसार का मूल उन्मिच्छ हुआ । अब तो ज्ञात, अधिकार, बर्खा, धर्म किसी का भी ठिकाना न बचा । सच-भूठ, जन बन, अचेत-सचेत इत्यादि द्वैतों के लिए स्थान ही न रहा । सब देह श्रीविठ्ठल के चरणों पर जब मैंने समर्पण किया, तभी मेरी सब प्रकार की पूजा पूरी हो चुकी” “अब तो कुछ काम ही न होने से मैं पूर्णतया निष्काम हो चुका । अब तो आग्रह-पूर्वक कोई काम न कर निश्चल बैठ जो बने वही काम करूँगा । कुछ न कुछ छंद ले कर दुनिया बड़े मझे से दुःख करती है । इस लिए तुकाराम अब दुनिया से अलग हो कर बिल्कुल अकेला रहा है ।” “यस इस नामरूप की उपाधि का जितना दास लगा उतना बहुत है । अब ज्यादा दुःख अपने पास न आने दंगे । फिर-फिर से कीचड़ में हाथ भरना और धोना किस काम का ? यह कहना तो चलते हुए मार्ग में विन्न डालना है । ईश्वर ने क्या नहीं कर रखा ? वह सब तो अपने ही पास है । तुकाराम का अहंकार जाते ही उस की आप पर भावना नष्ट हो गई ।” यह स्थिति यहाँ तक पहुँची कि अंत में आप कहने लगे कि “अब तो दिवाला निकल गया और देव का काला हो गया । अब कुछ बोलने का काम ही नहीं । मन का मन में विचारना ही विचारना है । सब बोरियाँ समेट कर दूकान बड़ा दिया है और भीतर बची जला दी है । अब तो घर के घर में ही हिसाब करता हुआ तुकाराम बैठा रहेगा ।” देह-रूपी घर छोड़ अब बाहर ईश्वर हूँ देने की जरूरत ही न रही । अब आप जोतो से भी उपवेश करने लगे कि “घर में तो देव है और अभागा फजूल घूम रहा है ।

देव को मन में देखता नहीं, घूम-घूम कर तीरथ के गाँवों में उसे ढूँढ़ रहा है। मृग की नाभि में हो कस्ती रहती है, पर उस के सुवास की लोभ में वह बन-बन मारा फिरता है। जैसे शक्कर का मूल ईश, वैसे ही देव का मूल देह। वृष में ही मन्थन है, पर लोग उसे मथना नहीं जानते। तुकाराम तो अन्न लोगों से यही कहता है कि इन मथने की क्रिया को जानो और देह में ही देव को पहचानो।”

यह मंथन-विधि सहज तो है नहीं ? गन्ने की शक्कर बनाना आसान नहीं है। पर ही यदि कोई प्रयत्न करे तो यह बात शक्य तथा सुसाध्य है। इस के लिए द्रैत-बुद्धि का नाश होना चाहिए। देह, बुद्धि, तथा संसार की लालसाएँ साफ़ कूट जानी चाहिए। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पर उम की आस, उस का मोह, उस विषय का आग्रह कूट जाना चाहिए। अगर मनुष्य को डर रहता है तो केवल इन देह-दुःख का तथा इस देह से संबद्ध अन्य जनों के दुःखों का, इस लिए प्रथम देह-बुद्धि का नाश करना चाहिए। इसी लिए “हाथ में लाठी ले कर तुकाराम देह के पीछे पड़े। जहाँ आदमी जलाए जाते हैं, ऐसे मसान में भी उसे ले जा कर सुलाया। जितने सुखों का उसने उपभोग कर लिया था, उन सबों का बदला निकाला। यह समझ कि सुख-दुःख भोगनेवाला परमेस्वर है, और इसी समझ को हट कर डर को अपने पान तक फटकने न दिया। इस प्रकार दिव्य कर मन को जब हट किया तभी सच अनुभव की प्राप्ति हुई।” “अगर यह द्रैत बुद्धि नष्ट हो, तो बाकी सब हरि ही हरि बचा है। फिर उसे ढूँढ़ने के लिए कहीं अपने से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर यह जानने के लिए मन से ही मन को बंद कर डालना चाहिए। जानकार शिकारी शिकार की पहचान कर के ही शिकार करता है। पहले तो इस बात का विचार मन ही मन में करना चाहिए कि यह देह सच है या मिथ्या। जहाँ देह ही सच नहीं वहाँ देह-संबंध के कारण कैला हनुमत् संसार भी सच नहीं है। यह तो किसी चोर को डराने के लिए खदों की हुई आकृति का-सा है जिसे वह रखवाला समझ रहा है। इस लिए तुकाराम लोगों को जता कर कहते हैं कि फ़ज़ूल न टटोलो। तुम्हारे शरीर में ही परमेस्वर है। जरा आँखें खोल कर देखो।” जब एक वार आँखें खुल गईं और देह तथा संसार का मिथ्यात्व मन में हट भाव से जम गया तो फिर बंध्या स्त्री की संतति-सी मिथ्या संसार-कल्पना बाधा नहीं दे सकती। फिर तो यह बात ऐसी असंभव है जैसे सूर्य-विष में अँधेरा होना या मृग-मल से आकाश का भीग जाना। पूर्ण प्रकाश का सुख भोगनेवाले उस पुरुष के सम्मुख दृश्य वस्तुओं का आभास ज़रा भी नहीं ठहर सकता। उस चैतन्य-स्वरूप पुरुष को भोग, भोग्य और भोक्ता की त्रिपुटी भी नहीं सता सकती। तुकाराम के भी इसी ब्रह्मानंद में मग्न हो जाने के कारण उस की आँखों को अब संसार का दन्धरा दिखता नहीं है।”

जब इस प्रकार देह-बुद्धि कूट जाती है, प्रपंच मिथ्या जान पड़ता है, तब मनुष्य स्वामाधिकतया बेक्रिय बन जाता है। फिर यदि किसी चीज़ का नाश भी हो जाय तो उस की उसे कुछ परवाह नहीं रहती। जो वस्तु गई वह कृप्यार्थ्य हुई, वही उस की भावना हो जाती है। इसी को वह सहज सेवा समझता है। जो होना है वह होता ही है। लाभ या हानि मनुष्य अपने संकल्प से मानता है। पर जब उम का मन संकल्पविकल्प-हीन हो जाता



है, तो उस के लिए सभी बातें पुण्यकारक होती हैं। कोई उसे मारता है या कोई उस की निंदा करता है। कोई उस का पूजन करता है तो कोई उस का सम्मान करता है। परंतु वह अपने को दोनों बातों से अलग ही समझता है। उस के लिए दोनों बातें एक-सी ही हैं। उस की तो कल्पना रहती है कि जो कुछ होता है, देह-भोग के कारण ही होता है। और इसी लिए जो कुछ भी होता है, उसी को वह अच्छा समझता है। उस की कल्पना से तो सभी देह-भोग की बातें कृष्णार्पण ही होती हैं। फिर दुनिया भर में उसे कोई दुर्जन ही नहीं मिलता। सभी उसे मा-बाप से ही जान पड़ते हैं। वह न किसी प्रकार की चिंता करता है न मन में भय धरता है। न किसी बात को उसे अभिलाषा रहती है न किसी बात के लिए वह नरसता है। दुनिया भर में वह खुश रहता है और दुनिया भी फिर उसे निबाहती है। जनता में बास करनेवाला जनार्दन उसे मँभालता है। इसी स्थिति को पहुँच कर तुकाराम जी ने कहा है कि “मेरे खुद के वेश की ही जहाँ मुझे फिक्र नहीं यहाँ दूसरों के विषय में मैं कहाँ तक फिक्र करूँ ? जो लोग मान-सन्मान की इच्छा करते हैं, वे चाहें तो ईश्वर के पास इन बातों की याचना करें और अपने संचित कर्म में लिपटे रहें। हम तो अपने देह को भोग के अधीन कर मानापमान की मिथ्या कल्पना से निराले हो चुके हैं। इसी लिए फ़ज़ूल बकबक कर व्यर्थ भ्रम करने की कुछ आवश्यकता नहीं।” इस प्रकार धरतते-धरतते “भोग में ही त्याग हो जाता है और पांडुरंग का गान करने-करते इंद्रियों का जोर हम पर से छूट जाता है। जब सब भार श्रीविठ्ठल पर ही डाला जाता है, तो चित्तबुद्धि निश्चल हो जाती है और भय, चिंता सब दूर होती है। जिस प्रकार चिट्ठिया का बच्चा मा के पंखों के नीचे दबा हुआ बैठता है, और अपनी चांच या नखां से मा के पाम में चारा पाता है और मा उम के लिए दाना ला कर उसे चरानती है, उसी प्रकार तुकाराम श्रीविठ्ठल के चरणों पर गिर उसी के भरोसे पड़ा है।” इसी विश्वास में आप की दृढ़ भ्रष्टा थी कि “श्रीविठ्ठल स्वयं सब प्रकार के दुःख भहन कर उत्तमोत्तम वस्तु ही हमें सुख में देंगे। वे हमारे पाम से कभी दूर न बैठेंगे या कहीं अन्यत्र न जावेंगे। आगे पीछे रक्षण करते हुए जो कुछ बात-बात हम पर पड़े उन से हमारा रक्षण करेंगे। हम कहाँ क्यों न रहे, हमें शंका न रहेगी क्योंकि हमारा दैतादैत भाव नष्ट हो गया है। श्रीविठ्ठल ने अब तो तुकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर-भीतर जहाँ देखो वहाँ विठ्ठल ही विठ्ठल भरा हुआ है।” यही कारण था कि जब-जब आप के हितचिंतक आप की कुछ चिंता करते, तब-तब आप बड़ी दृढ़ता से कहते कि “मेरे विषय में अब आप कुछ चिंता न करो। जिम ने यह स्थिति निर्माण की है वही उसे मँभालनेवाला है। मेरी इच्छा से क्या होनेवाला है ? जो कुछ होना होगा वह होगा ही। तुकाराम तो सुख-दुःख दोनों में अलग है।”

इस बेफिक्री में मनुष्य उद्वत नहीं होता। उलटा विनम्र होता जाता है। जनता-स्वरूपी जनार्दन में भ्रष्टा उत्पन्न हो जाने पर और उसी पर विश्वास डालने पर मनुष्य बड़ा लीन होता है, पर उम लीनता में उस का कोई नाश नहीं कर सकता। वह बड़ी निर्ममता से रहता है। तुकाराम जी कहते हैं “जब आग में धातु पड़ती है, तो पिघल कर उसी में लीन हो जाती है। वह स्वयं शुद्ध होती है और उस का नाश भी कोई नहीं कर

सकता। पट में बुने हुए तंतुओं के अनुसार वह धातु आग में ही भित्री रहती है। गर्ब, डेंड इत्यादि बातें बाहरी रंग की हैं। ये सब मिथ्या हैं और बाहरी बातों की-सी मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती हैं। नदी में जब बाढ़ आती है तब जहाँ बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं; ऐसी लहरों में भी लवे का घोंसला मजे से रहता है। नदी का पूर उमे उखाड़ नहीं सकता। जो हाथी शत्रु-सैन्य को कुचल डालना है उमी के पिर-तले चींटी नहीं मरती। वहाँ उस का रक्षक कौन करता है? लोहे के घन से हीरे पर चोट मारी जावे तो वह लोहे में घुस कर खुद को बचा लेता है पर बड़े-बड़े कड़े परवर ऐमे बच नहीं सकते। इस लिए तुकाराम का कहना है कि लीनता ही सब बातों में सार है, और खाव कर मवसागर पार उतारने में वही समर्थ है। सिर पर बड़प्पन का भार लेनेवाले ब्रह्म मरने के ही लायक हैं।" माया और ब्रह्म के ऋगड़ में माया से छुटकारा पाना हो, तो लीनता के सिवा और कोई अच्छी तरकीब नहीं है। ब्रह्म और माया एक-दूसरे से ऐमे संबद्ध हैं जैसे शरीर और छाया। छाया शरीर को छोड़ कर नहीं रह सकती। तोड़ कर उमे शरीर से अलग करना भी असंभव है। पर यदि शरीर ज़मीन पर नम्र हो कर दंडवत् गिर पड़े तो छाया उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार संसाररूपी परमेश्वर में लीन होते ही भेद-भाव की माया सहज में दूर होती है। ऐस लीन पुरुष को फिर भय काहे का? तुकाराम जी ने कहा है कि "भय को तो अब हमारे चित्त में स्थान ही नहीं। जी-जान से आत्म-समर्पण करने पर डरने का क्या कारण है? अब तो हम जो-जो करेंगे वही ठीक है। दिन काटने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे और जीवन का काम पूरा करेंगे।"

श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वानुभूतिपर उद्गारां में जो कहीं-कहीं अभिमानावेश दीखता है वह इसी निर्माकता-पर निर्भर है। सर्वात्मकता के कारण संसारसे एक रूप हो द्रव-भाव से जो मुक्त हो गया उस के लिए काल भयानक नहीं है। काल जगत को दो स्वरूपों में डराता है। एक तो परिस्थिति के रूप में जिसे संत लोग कलिकाल कहते हैं। दूसरा मृत्यु के रूप में। परंतु ये दोनों रूप श्रीतुकाराम जी के-मे मुक्त पुरुष को डरा नहीं सकते। आप ने तो साफ़-साफ़ कह दिया कि "काल जगत को खाता है, पर हम लोग उस के भी गिर पर पर रहते हैं। हमारा नाच देख कर वह ठहर जाता है और हमें डराने के बजाय हमें संतुष्ट ही करता है। जगत को खाने-खाने उस की जो भूल शांत नहीं होती वही हरि के गुण सुन कर नृत हो जाती है। और उस की संतप्त वृत्ति धीरे-धीरे शतिल हो जाती है।" पाप-पुण्य के विषय में आप के उद्गार सुनिए। आप कहते हैं "हम विष्णुदास दुनिया में ऐसे पटे के हाथ किराते हैं कि न पाप हमारे शरीर को स्पर्श कर सकता है न पुण्य। सदा सर्वदा हम निर्भय रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही हमारा सब भार उठाया है। जिस सर्व-शक्तिमान ईश्वर ने कलिकाल को निर्माण किया, उसी के अंकित होने के कारण हमें उसी का बल है। हम तो ऐसे जबरदस्त हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त हमें दुनिया में कुछ दीखता ही नहीं।" "कैसे आनंद से इधर-उधर जाके बज रहे हैं, क्योंकि अहंकार को जीत और उस का गिर काट हम ने उसे अपने पैरों तले कुचल-डाला है। जहाँ काल का ही कुछ चलता नहीं वहाँ दूसरों की बात ही क्या? अब बैकुंठ को जाना कुछ कठिन नहीं है।" ऐसी प्रवच

भयना रखनेवाले पुत्र के ही मुख से निम्नलिखित उद्गार निकल सकते हैं। “अब तो मजबूती के साथ कमर बाँध कर कलिकाल का सामना कर चुका हूँ। भयसागर के ऊपर पैरों पार करने के हेतु पुल बना जाला है। आओ, छोटे-मोटे नर या नारियो, आओ! कुछ क्रिक न करो कि तुम किस जाति के हो। यहाँ तो न किसी प्रकार का विचार करने का कारण है, न किसी तरह की चिंता। जप, तप, करनेवाले लोग ध्यर्ष के कामों में लगे रहते हैं। परंतु यहाँ तो मुक्त या मुमुक्षु दोनों प्रकार के लोगों को आम इजाजत मिली हुई है। नाम का पूरा विज्ञा ईश्वर ने यहाँ भेजा है और उसी बिल्ले को धारण करनेवाला यह तुकाराम यहाँ आ कर आप को पुकार रहा है।”

इन उद्गारों से पाठकों को श्रीतुकाराम जी महाराज के विषय में यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि जिस साधन से उन्होंने ने इतनी उन्नतावस्था प्राप्त कर ली, उस साधन को उन्होंने ने अक्षर तक न छोड़ा। उपासना के स्वरूप में शिथिलता आते हुए भी नाम-स्मरण तथा ईश-भक्ति के विषय में आप अटल ही बने रहे। देव और भक्त एक रूप होते हुए भी भक्त अपने आनंद के लिए अपने को भक्त-स्वरूप में ही समझता है, और परमेश्वर का नाम स्मरण करता ही रहता है। जो लोग देव-भक्त की एकता का ज्ञान होने पर नाम-स्मरणादि साधनों को मिथ्या समझते हैं, उन को मिथ्या ठहराने के हेतु श्रीतुकाराम जी ने किष्पात्स का भी मिथ्यात्व दिखलाते हुए यों उत्तर दिया है। आप कहते हैं कि यद्यपि ईशना, ऐना, गाना, नाचना, भजन करना सब भूठ है; मेरा-तेरा समझ कर अभिमान का बोक उठाना भूठ है; भोगी, त्यागी, जोगी सभी भूठ हैं, तथापि भूठा तुकाराम भूठे परमेश्वर की भूठी स्तुति करने में भी भूठा आनंद उठाता है। अर्थात् जो लोग इसे भूठ समझते हैं, उन्हें इस भूठे भजन के लिए तुकाराम पर भूठा आक्षेप करने का क्या कारण है? इस नाम-स्मरण के आनंद की आप को ऐसी चाट लगी थी कि आप उस से कभी अघाते ही नहीं थे। आप कहते, “खाई चीजे ही खाने के लिए जैसे जी ललचाता है, मिले हुए प्रेमी जन से फिर-फिर मिलने के लिए जैसे जी तड़पता है, वैसे ही श्रीपादुरंग के विषय में वृत्ति नहीं मिलनी। जितनी ही उस आनंद की प्राप्ति होती रहती है, उतनी ही अभिलाषा बढ़ती जाती है। इंद्रियों का सुलोपभोग-सामर्थ्य थक जाता है; पर फिर भी मन की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती है।” आप समझते थे कि जब सारा जीव नारायण को समर्पण किया है तो जितनी शक्तियाँ मनुष्य के पास हों, उतनी शक्तियों से उसी भीषति की सेवा करनी चाहिए। आप स्वयं जैसे इस काम में आनंद मानते थे, वैसे ही आप समझते थे कि ईश्वर को भी इस में आनंद मिलता है। और तो क्या संसार-निर्माण करने का कारण भी आप यही समझते थे। मनुष्य इस बात को खूब अच्छी तरह से जानता है कि दर्पण का रूप मिथ्या है। पर जैसे इस बात को खूब जानने हुए भी दर्पण में अपना रूप देखने से उसे संतोष होता है, वैसे ही आप का मत है कि ईश्वर ने भी अपना ही स्वरूप देखने के लिए इस जगत् को निर्माण किया। बच्चा जिस प्रकार एक ही काठ के बने हुए बाघ और गाय के साथ भिन्न भाव मान कर खेलता है, उसी प्रकार ईश्वर और भक्त एक रूप होते भी आप को ईश्वर भक्ति करने में आनंद आया करता। और इसी आनंद-प्राप्ति के लिए आप

अनेक प्रकारों से उस परमेश्वर की सेवा करते थे। आप के मतानुसार मुक्त पुत्रव दही है, जो बंधन से मुक्त हो कर भी आनंद से ईश्वर-भक्ति करता है। अभिनिवेश को छोड़ कर काम करना ही आप ईश्वर का सद्गुण पूजन समझते थे। इसी लिए आप जो दूसरों को उपदेश करते, उस के भी विषय में आप की यही धारणा थी कि “प्राथिमात्र के अंतर्धाम में निवास करनेवाला भीहरि ही मेरे मुख से मुझे बुला रहा है। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि किसी भूत का ढोष या मत्सर न करना चाहिए। और इसी विचार से तुकाराम समझता है कि लोगों को हित की बातें विखाने में कुछ दोष नहीं है।” वास्तव में ऐसे ही पुरुष उपदेश देने के अधिकारी होते हैं और यदि लोगों पर उपदेश का कुछ असर पड़ता है, तो इन्हीं अधिकारी पुरुषों के लिए हुए उपदेश का परिणाम होता है।

लोगों के लिए श्रीगुकाराम जी महाराज ने जो हितकर उपदेश किया है, उस का विचार अग्रिम परिच्छेद में किया जावेगा। यहाँ पर आप के स्वानुभूतिपर उद्गारों का विचार करने समय आप ने ईश्वर के पास जो वर-याचना की है, उसी का उल्लेख कर इस परिच्छेद को समाप्त करें। इस संसार में रहते हुए आप ने ईश्वर से यही माँगा है कि “महाराज, कृपा कर के अपनी प्रीति की पहचान दे कर मेरे मन को अनजान कर दो। फिर तो मैं संसार में ऐसे रहूँगा जैसे जल में कमल का पत्ता। निंदा-भुक्ति इत्यादि सुन कर भी न सुनूँगा और योगिराज का-सा उन्मनावस्था का अनुभव लेते हुए आनंद से रहूँगा। स्वप्न से जगा हुआ आदमी जैसे स्वप्न-मृष्टि को नहीं देखता, वैसे ही यह प्रपंच मेरी दृष्टि को दिखते हुए भी न दिखे। जब तक ऐसा न हुआ, तब तक जो कुछ कर रहा हूँ, सब तकलीफ ही तकलीफ है।” परमात्मा ने श्रीगुकाराम जी को तो यह वर प्रदान किया। पाठकों को भी वह यही वर प्रदान करे !

## द्वादश परिच्छेद

### सदुपदेश

जैसी बानी वैसी करनी—धरदा उस पर बढ़ती है ।  
क्रियाशून्य वाचाल विषय में जमी हुई भी उड़ती है ॥  
जैसा कहना वैसा चलना—लोग उमें आदरने हैं ।  
ऐसे ही उपदेशक को जन यभी एक से डरने हैं ॥

यदि दुनिया में सब में सहल कोई काम हो तो वह है दूसरो को उपदेश करना । कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश करने के लिए किसी विशेष मामक्य या अधिकार की आवश्यकता है । जीभ उठाई और लोगों में कहने लगे, 'यो करो, यां करना चाहिए, यो न करना चाहिए इत्यादि ।' हर एक मनुष्य अपने तर्क खुद को दूसरो का उपदेशक होने योग्य समझता ही है । उपदेश के समय वह इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करता कि वह स्वयं क्या करना है या कर रहा है । जो बातें वह दूसरो को सिखाता है, उन का वह स्वयं आचरण तो करना ही नहीं, वरन् बहुधा उन के बिल्कुल विरुद्ध उस का आचरण होता रहता है । आज जिधर देखो उधर ऐसे हजारों उपदेशक मिलेंगे जो स्वयं असत्य बोलते हुए सत्य की महत्ता समझाने की चेष्टा करेंगे, स्वयं सब प्रकार से इंद्रिय-सुखों में लोट-पोट रह कर दूसरो को इंद्रिय-सुख का त्याग करने का पाठ सिखावेंगे । हमारा समाज ऐसे वाक्पंडितों से भरा हुआ है, और जहाँ देखो वहाँ उपदेश-वाक्य बराबर कानों में गूँजते ही रहते हैं । पर इस सब का परिणाम क्या

होता है ? इतने उपदेशकों के उपदेश करने में कटिबद्ध रहते हुए भी हम जहाँ के तहाँ और ज्यों-के-यों हैं । इस का कारण केवल यही है कि उपदेशकों का काम अयोव्य लोगों के हाथों में पड़ा है । लोगों की निंदा करना, उन के दोष दिखलाना बड़ा आसान है । पर अंत-मूल दृष्टि रख कर उन्हीं कामों के विषय में अपने पैरों तले क्या जलता है, इसे पहचानना बड़ा कठिन है । श्रीतुकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न थे । उन की बाणी में अनुभव का तेज रहने के कारण वह बड़ी ओजस्विनी थी और उस का श्रोतृगणों पर प्रभाव भी खूब पड़ता था । स्वयं अनेक कष्ट सहन करने के कारण उन के सच्चरित्र के विषय में लोगों को पूरी-पूरी दिलजमर्द हो चुकी थी । लोगों का हृद् विरयाम हो गया था कि आप जो कुछ कहते, सचमुच लोगों के ही हित का होता और उसे कहने में लोगों के हित को छोड़ आप का कुछ भी स्वार्थ न था । श्रीतुकाराम जी महाराज के स्वयं मव प्रकार के स्वार्थ से उच्चतम पद पर पहुँचे रहने के कारण उन के व्यक्ति-विषयक स्वार्थ की किसी को शंका भी न होती थी । लोग जान चुके थे कि केवल उन्हीं के हित के लिए आप का जीव टूट रहा था और यही कारण था कि लोग आप की बड़ी कड़ी-कड़ी फटकारें भी शांति से सुन लेते थे । आप के मन में किसी के प्रति द्वेषबुद्धि न रहने से आप के शब्दों की मार किन्नी व्यक्ति या जाति पर न पड़ कर हमेशा व्यक्तिगत या जातिगत दोषों पर पड़ती थी । आप साफ़-साफ़ कहते थे कि “मेरे बोलने पर कोई हूपा कर क्रोध न करो । मैं जो कुछ कहता हूँ, वह अनेक लोगों के हित के लिए है, और इमी लिए आप उसे बुद्ध-चित्त से सुनें । मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता हूँ, केवल जुरी बातों के दोष दिखलाता हूँ । सबों के हित के अतिरिक्त मुझे लाभ ही क्या है ?” आप का यह वचन लोगों को भलीभाँति समझ में आ चुका था और इसी लिए आप के मुख से सदुपदेश सुनने के लिए लोग बड़ी दूर-दूर से दौड़े आते थे । इस संसार में इन्द्रियों पर विजयी सब सांसारिक मुत्सुओं की ओर से विरक्त और पहले कर के पीछे उपदेश देनेवाला महात्मा कश्चित् ही मिलता है । परोपकारी जाग्रत पुरुष का हृदय नींद में पड़े हुए अन्य दुःखी लोगों को देख दुःखी होता है, और यही हृदय का दुःख हलका होने के हेतु उस के मुख से उपदेश-स्वरूप धारण कर बाहर निकलता है । खुद का पूरा फ़ायदा होने पर भी सब लोगों का कल्याण जब तक न हो तब तक परोपकारी पुरुष की आत्मा शांत नहीं हो सकती और इसी लिए कोई उसे पूछे या न पूछे वह उपदेश करता चला ही जाता है ।

इसी प्रकार के सदुपदेश को श्रीतुकाराम जी महाराज नौ कई बार मेघ-बुद्धि की उपमा दी है । चारों ओर की गरमी से भूतल पर की सब आद्रता नष्ट हो कर वही मेघरूप में परिणत होती है और फिर उसी भूतल को शांत करने के लिए वह वर्षांश में गिरती है । उसी प्रकार दुनिया के दुःखी जनों के दुःख देख उसी संवेदना से श्रीतुकाराम जी ऐसे साधु पुरुष का हृदय पसीजता है और उसी पसीजे हृदय से सदुपदेश-भरे शब्दों की वर्षा होती है । ज़मीन पर पानी गिरता हुआ मेघ भूमि की योग्यायोग्यता का भेदभाव मन में रख कर नहीं बरसता । वह अपने स्वभावानुसार पानी गिराता है और नीचे की ज़मीन अपनी-अपनी योग्यतानुसार उम पानी को ग्रहण कर कहीं हरी-भरी होती है या कहीं अपने पर

पूर्व भी न ठहरने दे कर रूखी की रूखी ही रह जाती है। इसी तरह भ्रूतुकाराम जी महाराज का उपदेश सार्वजनिक स्वरूप का रहता। वे किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपने उपदेश का श्राव्य नहीं बनाते थे। उपदेश सुन कर जिस में जो दोष होता उसे ही वह फटकार लगती और अपने-अपने स्वभावानुसार वह उसे ग्रहण करता। आचार्य अभिनवगुप्त जी ने उपदेश के तीन प्रकार माने हैं—प्रसु-समित, सुदुत्समित और काता-समित। पहले प्रकार का उपदेश राजाशा की नाई कहता है “ऐसा-ऐसा करो। न करोगे तो वंड दे कर तुम से वह करवाएंगे।” सुदुत्समित उपदेश हितकर मित्र-सा स्पष्ट शब्दों में व्यक्तिगत दोष दिखाता कर उस व्यक्ति को सुधारने का यत्न करता है। और तीसरा प्यार करनेवाली पत्नी की तरह प्रत्यक्ष उस व्यक्ति का उल्लेखन कर केवल सामान्य शब्दों में कोई बात कह देता है। इसी प्रकार के उपदेशप्रद शब्दों को मम्मटाचार्य जी ने काव्य कहा है। क्योंकि इस का अर्थ वाच्य न रह कर व्यंग्य रहता है। भ्रूतुकाराम जी के उपदेशपर अभंग भी इसी लिए काव्य माने जाते हैं। उन्हें पढ़नेवाला पाठक जिस मनःस्थिति में होगा, उसी मनःस्थिति-विषयक आप का उपदेश उस के मन में दृढ़ जम जाता है और बिना कुछ परिश्रम किए उस का मन उस सदुपदेश को ग्रहण कर स्वयं अपने दोष दूर करने लग जाता है। आप का उपदेशरूपी अभंग-संग्रह धर्मार्थ औषधालय का-ना है। मौम्य मे मौम्य औषधियों से ले कर तीव्र मे तीव्र औषधियाँ या उपायों तक सब चीजें यहाँ विद्यमान हैं। इस औषधालय में एक और विशेषता यह है कि रोग और औषधि दोनों का पूरा-पूरा दर्शन उस औषधि के नीचे लिखा हुआ है। जिस मरीज को जो बीमारी हो, वह अपने रोग के मुझाकिक दवा पहचान ले और उस का मजे से सेवन करे। न कोई उमं रोकेगा, न कोई उस पर जबरदस्ती करेगा। इस लिए अब सामान्य स्वरूप के इन औषधिस्वरूप अभंगों का विचार करें ताकि पाठकों में मे यदि किसी को इच्छा हुई तो अपना रोग पहचान उस की दवा का वह सेवन करे और नीरोग हो जावे।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भ्रूतुकाराम जी महाराज का श्राव्य उपदेश हरि-भक्ति का है। हरि से एकरूप होने पर भी जिसे उन्हों ने न छोड़ा, जिस के प्रेम में वे आमरग रँग रहे, उस हरिभक्ति का उपदेश न करना उन के लिए अशक्य ही था। आप का अटल मित्रांत था कि जिसे नरदेह की प्राप्ति हुई हो, उस को हरि-भक्ति कर के नरदेह का साफल्य करना चाहिए। राजा हो वा रंक, शूर हो वा कायर, सिद्ध हो वा साधक, ब्राह्मण हो वा चांडाल हर एक को हरिभक्ति का उपदेश आप ने एक ही सा किया है। नरदेह बार-बार नहीं मिलता। और किसी देह में मुक्त होना दुष्कर है। इस नरदेह में ही मुक्ति मिलाना सुलभ है। कई जन्मों के बाद इस नरदेह की प्राप्ति होती है। पर इस प्राप्ति से मनुष्य फूला-फूला फिरता है। उस के मन में यह विचार स्पर्श तक नहीं कर पाता कि यह नरदेह अपने अधीन नहीं है। यह हमेशा अपने साथ एक ही स्वरूप में रहनेवाला नहीं है। जिन आँसों को उन की इच्छा के अनुसार बड़े-बड़े प्रयत्नों से अनेक दृश्य दिखाए, वे आँसु हमें योंही ही दिन में छोड़ने का प्रयत्न करती हैं। जिन बालों को सुगंधित तेल लगा कर और गरम पानी मे धो कर रवैवारा, वे भी वा तो अपना रूप बदलते हैं वा हमारे पास

से उड़ जाते हैं। जिस देह का पालन करने में हम दिन-रात परिश्रम करते हैं, वह भी हमारे सब कर्षों को ग्रहण कर अंत में नाना प्रकार के दुःखों से व्याप्त हो जाता है। अंत में काल की ओर देख लीजिये, तो वह पल-पल गिनता हुआ आखिरी बड़ी साधने के लिए नज़र लगाने का बैठा ही है। इस स्थिति में एक दूसरे की मौत देखते हुए भी मनुष्य किश्किंचत ही करे 'आज नहीं कल करूँगा' कहता हुआ बैठा ही कैसे सकता है ? इस लिए जब तक काल का हमला हुआ नहीं, तभी तक सब काम छोड़ कर आदरपूर्वक श्रीहरि नाम लेना चाहिए और अक्षय सुख का भांडार भर कर, अपना हित साध लेना चाहिए। जब काल की मण्ड आयेगी, तब मा-बाप, भाई-बहन, स्त्री-पुत्र तुम्हें कोई भी छुड़ा न सकेगा। इस लिए जब तक सामर्थ्य है, जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, तभी तक उठो और शीघ्रता से भीषाङ्कुरंग की शरण जाओ। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। देनेवाला, दिलानेवाला तो जाने और लिवा जानेवाला वही है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इस लिए नश्वर सुखों के हेतु शार्वत ईश्वर-शक्ति को न छोड़ो। इस हरि-भक्ति के लिए किसी विशिष्ट अधिकार की आवश्यकता नहीं। तुम चाहे जिस जाति के हो, तुम्हारे हाथों कितने भी महापाप क्यों न हुए हों, केवल सुख से नाम-स्मरण करो तो सब कुछ हाँ सकता है। आप ने बड़ी अधिकारयुक्त वाणी से कहा है कि "लोगो, सुनो, अपने हित की बात सुनो, अपने मन से पंदरीनाथ का स्मरण करो। नारायण नाम गाते हुए फिर तुम्हें कुछ भी बंधन न रहेगा। भवसागर तो इन्ही तीर पर तुम्हारी दृष्टि से सूख जायगा। कलिकाल तुम्हारी सेवा करेगा। माया-जाल के सब फंदे छूट जावेंगे और रिद्धि-सिद्धि तुम्हारी सेवा करने लगेंगी। सब शास्त्रों का सार यही है। सब वेदों का गुह्य यही है। सब पुराण भी इसी विचार का प्रतिपादन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो क्या चांडालों को भी नाम-स्मरण का अधिकार है। बच्चे, स्त्रियाँ, पुरुष, वेश्याओं को भी यहाँ मनाही नहीं। तुकाराम ने स्वयं इस का अनुभव किया है और जिस किसी की इच्छा हो वही इस का अनुभव कर सकता है।"

इस सुलभ साधन का प्रचार करने के हेतु भीतुकाराम को बड़े कष्ट उठाने पड़े। इस सीधे-साधे रास्ते से जानेवाले लोगों के मार्ग में जो अनेक मत-मतांतरों के काँटे फैले पड़े थे, उन्हें दूर करना अत्यंत आवश्यक था। इन की खबर यदि तुकाराम अपनी ओजस्विनी वाणी से न लेते तो यह मार्ग इतना प्रचलित न होता। आप का तो मत ही था कि "यदि पीस कर आटा अच्छा बनाना हो तो अनाज में के कंकड़ पहले बीन डालने चाहिए। खेत में उगी हुई घास जब तक न निकाली जाय तब तक खेत अच्छी तरह से नहीं बढ़ता है। अन्यथा सब काम बिगड़ जाता है और ज़रा से आलस के कारण आखिर में केवल 'हाय-हाय' ही बचती है।" इसी लिए आप ने मत-मतांतरों का खंडन किया। गाँजा पीनेवाले, मद्यपी, खेलों से वेधित, संत-महंतों की आप ने खूब ही खबर ली है। ज़बरदस्ती उपदेश देनेवाले, दक्षिणा माँगनेवाले, विधवा स्त्रियों का ललचा कर उन के पास से द्रव्य छीननेवाले, तमोगुच्छी, पेटपूजक महंत; प्याज़ खानेवाले और शूद्र स्त्री का रंजेली बनानेवाले ब्राह्मण पुराण-पाठक; जटा बढ़ा कर अपने देह में भूत-पिशाचों का संचार कर कर मविष्य कथन करनेवाले साधु; बड़े-बड़े तिलक लगा कर और डेरों माला गले में पहिन कर भजन करनेवाले



कैरामी; गेरुय कपड़े पहने हुए सन्ध्याली; कान फाड़ कर भील माँगनेवाले नाचपंथी; कौड़ी-कौड़ी के लिए सिर फोड़नेवाले और लोहे की जंजीर और चमड़ा पहननेवाले मलंग; तिलक छोटी और सज्जेद बोली पहने हुए आद्वैतप्रिय तीर्थवासी पंढे; भस्म लगा कर और गले में सिंध बाँध कर बंदा और शंख बजानेवाले जंगम; इन सबों की पील भीतुकाराम जी ने अपने अन्नमें में खोल दी है। इन में से कुछ तो लोगों से मान-सम्मान पाने के लिए केर-केर कर तिलक लगाते थे, कुछ बदन पर भभूत रमा कर आँसों को मूँद पापाचरण करते थे, अन्य वैराग्य के नाम से यथेच्छ विषयोपभोग करते थे और दूसरे छाछ अपने शिष्यों को पिला कर समर्पित दूध सामने आते ही 'नारायण' कह उस को प्रेमपूर्वक स्वीकार करते थे। कुछ लोग शरीर में देवताओं का संचार करा कर लोगों को धुलाते थे। इन के विषय में तुकाराम जी पूछते "यदि देव इन के अधीन होता तो ये भील क्यों माँगते, और इन के बाल-बच्चे क्यों मरते ?" इन्हीं के साथ ब्रह्मज्ञान की बातें कह कर भक्ति का उच्छेद करनेवालों पर भी भीतुकाराम जी ने अच्छी फटकारें लगाई हैं। ब्रह्मज्ञान कहने की बात नहीं है, अनुभव करने की है। मुख से ब्रह्मज्ञान की बात कहें मन में धन की तथा मान की अभिलाषा धरें। ऐसे लोगों के विषय में तो आप ने यह कहने में भी कसर न रखी कि धिक्कार है इन लोगों को जो केवल अपनी वाणी को कष्ट दे कर लोगों से तो ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं अनाचार करते हैं। आप प्रश्न किया करते थे कि यदि सब ब्रह्म-स्वरूप है और बिना ब्रह्म के एक भी स्थान खाली नहीं है तो देवता की मूर्ति में ही ब्रह्म क्यों नहीं है ?" पर जिस के मन में भाव नहीं उसे कहाँ तक समझाया जावे। ऐसे सब लोगों से आप का साक्र-साक्र कहना था कि "धनरा पिला कर लोगों को न लूटो। अपनी इन्द्रियों पर विजय पा कर पहले उन्हें अपने क्लाबू में लाओ। निश्चय न चलो, जैसा बोलो वैसा करो, पेट मरने की विद्या और परमार्थ की गटपट न करो और आत्मवंचना कर लोगों को न धुलाओ। निष्काम भजन से हरि-प्राप्ति कर लो और फिर उस के गुणानुवाद गाते ही रहो। ज्ञान का ढोंग न फैलाओ, सगुण भक्ति का सेवन करो और जब तक तद्द्वारा सिद्धि प्राप्त न हो अर्हंत की बातें न करो। इस प्रकार खुद नरो और दूसरों को तारो।" कभी लौम्ब और कभी कठोर भाषा में इन सब लोगों को भीतुकाराम जी महाराज इसी आशय का उपदेश करते थे।

दंभ पर आप की बड़ी कड़ी नज़र थी। यह पहले कहा गया है कि व्यक्तिगत विषय में आप थोड़े से दंभ के पक्ष में थे। परंतु मन में राम न रहते हुए भी राम-नाम की-माला एकत में फेरने के योग्य ही दंभ आप चाहते थे। क्यों कि आप की हृद अद्वा भी कि ऐसा करने से धीरे-धीरे चित्त शुद्ध होता है। पर साथ ही दंभाचार कर लोगों को फँसानेवाले दामिकों पर आप का बड़ा क्रोध था। इसी लिए जहाँ-कहाँ दामिक लोग आप के देखने में आते, उन पर आप बराबर अपना टीकास चलाते। बाहर का स्वाँग बना कर लोगों की आँसों में धूल फेंकनेवालों की आप खूब क्ललई खोलते। आप कहते "भगवे रंग के कपड़ों से ही यदि आत्मानुभव आता तो सभी कुत्ते आत्मानुभवी हो जाते, क्यों कि उन्हें तो भगवा रंग ईश्वर ने ही दिया है। जटा-दाढ़ी बढ़ाने से ईश्वर मिलता तो सभी सियार ईश्वर को

प्राप्त कर लेते। ज्ञानेन खोद भीतर रहने से यदि मुक्ति मिलती तो सभी चूड़े मुक्त हो जाते। इस लिए तुकाराम का मत है कि ऐसे बाहरी रूप बना कर शरीर को पीड़ा ज्वर्य में न देखी चाहिए।" छुआ-सूत का दंभ करनेवालों ने आप का उवाच रहता कि "बाहर केने से क्या फायदा—जब तक अंतर मैला है? पाप से भरे देह का विचार न कर के जो भूमि सदैव पवित्र है उसे शुद्ध करने से क्या लाभ?" अगर शुद्धि चाहते हो, तो काम-क्रोधादिकों का संवर्ग टाल कर शुद्ध होना चाहिए। अगर मनुष्य अपना हित चाहता है तो उसे दंभ को दूर करना चाहिए, चित्त शुद्ध करना चाहिए और एकांत में बैठ अविद्वल का नाम लेना चाहिए। ऐसा करने ही से गोगाल जी हृदय में आ बैठेंगे और कष्ट के फल प्राप्त होंगे। आप शुद्ध मन के बड़े प्रेमी थे। जब तक हमारा मन शुद्ध न हो तब तक दूसरों पर हँसने का हमें अधिकार ही क्या? एक अशुद्ध-चित्त के पुरुष का दूसरे अशुद्ध-चित्त पर हँसना ऐसा ही है मानों दोनों आँखों में मोतीबिंदु रखनेवाला पुरुष किसी काने की ओर देख कर हँसे। आँखों में जैसे अशुद्धता भी धूलकण नहीं सहा जाता वैसे ही चित्त में जरा-सी भी अशुद्धता न रखनी चाहिए। मनुष्यों को चित्तशुद्धि के विषय में कोई कँसा सके तो सके पर सर्वान्तर्यामी ईश्वर के इस विषय में भुलावा देना संभव नहीं। शुद्ध होते ही चित्त स्थिर होता है और फिर इष्ट विषय पर जम जाता है। जिस का चित्त स्थिर नहीं यह तो पागल कुत्ते का-सा इधर-उधर चारों ओर घूमता फिरता है। ऐसे अस्थिर चित्त को न कारी से लाभ न गंगा से। मन चंगा न रखनेवाले लोग गंगा जी में भी बैसे ही अपवित्र बने रहेंगे। जैसे उबलते पानी में भी जुरे दाने गलते नहीं, वही हालत इन अस्थिर-चित्त लोगों की है। चित्त-शुद्धि न होवहाँ उपदेश से क्या लाभ? इस विषय में आप ने कई दृष्टांत दिए हैं। आप कहते हैं "अगर पानी ही साफ़ न हो, तो साबुन से क्या फायदा? बंध्या स्त्री के संतान न हो, तो पति का क्या दोष? नपुंसक के स्त्री से भी सुख क्या? प्रायः चले जाने पर शरीर किस काम का? बिना पानी के खेती कैसे हो?" बुद्धचित्त पुरुष दुनिया भर को दुष्ट ही समझता है। दुराचारी पुरुष का अपने सारे पर भी विश्वास नहीं जमता। चोर को सब संसार चोर ही मालूम पड़ता है। इस लिए चित्त को शुद्ध और दृढ़ रखना चाहिए। यह सफल नहीं है, पर इसे साध्य किए बिना काम नहीं चलता। टाँकियों के घाव सह कर ही पत्थर ईश्वर-प्रतिमा का स्वरूप पाता है। जो शूर पुरुष बाण, शक, गोली खाता है, उसी की कीर्ति बढ़ती है। जो आग का डर भूल जाती है, वही स्त्री सती-पद को प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिते इष्ट-साधना करनी हो, उसे चित्त शुद्ध और दृढ़ कर के इष्ट विषय में लगाना चाहिए।

चित्त शुद्ध करने के लिए उसे अशुद्ध करनेवाली बातों से बचाना चाहिए। चित्त को छुभा कर इधर-उधर भड़कानेवाले विषय—विशेषतः द्रव्य और स्त्री के टालना चाहिए। विषयासक्ति को भीमद्भगवद्गीता में भी सर्व दुःखों का मूल बताया है। इसी से संग, काम, क्रोध, सम्मोह, स्मृति-भ्रंश, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश होता है। इन विषयों के लोभ से ही शानी पुरुष पशुवत् आचरण करते हैं। लोभ में लोभ रखने से आत्मा में दोष उत्पन्न होता है। विषयसोखुप लोगों की जहाँ देखो वहाँ कृजीहत ही होती

है। सेवन करते समय तो वे विषय मीठे लगते हैं पर इन के फल कष्टों से कटुए होते हैं। इन चित्त-विज्ञोभक विषयों में आप ने दो के प्राधान्य दिया है। एक फनक और एक कामिनी। फनक शब्द में सभी इष्ट पदार्थों की व्याप्ति है, जो द्रव्य से मिल सकते हों। इस लोभ से मनुष्य की कृपणता बेहद बढ़ जाती है। इसी से वह अन्य सब काम छोड़ देता है और केवल कृपणता में ही आसक्त रहता है। इस बात का आप ने एक बड़ा मनोरंजक दृष्टांत दिया है। एक स्त्री एक समय पंढरपुर जाने के लिए निकली। वारकरी लोगों के साथ शहर के दरवाजे तक जा कर उसे कुछ याद आई और घर में आ कर बहू से कहने लगी “अरी बहू, सुन। मैं तो जाती हूँ, पर घर का दूध-दही न खर्च डालना। दही का जो छोटा उबला मैंने जमा रक्खा है उस का दही मेरे वापस आने तक न निकालना। सिल-सोड़ा, ऊलल-भूसल सब सँभाल रखना। कोई ब्राह्मण घर आवे, तो उस से कहना घर के लोग पंढरपुर गए हैं। थोड़ा-थोड़ा ही खाना ताकि घर में के चावल खतम न हो।” बहू ने सब कुछ सुन लिया और जवाब दिया, “आप का कहना सब ध्यान में है। आप सुख से यात्रा कीजिए और घर की किक्र कुछ न कीजिए।” बहू की यह सारी बात भी सुन बुढ़िया विचार करने लगी, “यह सौत तो यही चाहेगी। इस लिए अब पंढरपुर न जाऊँगी। यहीं रहूँगी।” विचार कर आखिर बोली—

बाल बच्चे, घर दार। यही मेरा पंढरपुर।

अब पंढरी न जाऊँ। सुख मान घर रहूँ ॥

ऐसे सब लोगों को तुकाराम जी का उपदेश है कि “करोड़ों रुपए पात्रो पर ध्यान रहे इस बात का कि साथ लँगोटी भी न जावेगी। चाहे जितने पान खाओ, आखिर सुखे सुख से ही जाना पड़ेगा। पलंग, गद्दा, तकियों पर मजे से लेटो, पर अंत में लकड़ी कंडों के ही साथ सोना है। इसी लिए तुकाराम कहता है कि इन सबों का त्याग कर एक राम की ही चिंता करो।” परधन और परनारी के विषय में आप ने कहा है कि “अगर कोई साधना करना चाहे तो दो ही साधन बस हैं। परधन और परनारी को वह कभी न छूए।” बियों के विषय में आप का स्वयं बड़ा कटु अनुभव था। इसी कारण आप ने बड़े कड़े शब्दों में स्त्रियों की निंदा की है।

चित्त-विज्ञोभक तथा चित्त को अनाचार में प्रवृत्त करनेवाली बातों के वर्णन में आप ने तत्कालीन हीन समाज-स्थिति का यथार्थ चित्र खींचा है। उस समय वेद-पाठक ब्राह्मण मय-सेवन करते थे, उन्हीं ने अपना आचार छोड़ दिया था, वे हरि-कथा सुनने में हीनत्व समझते थे और व्रत, तप आदि कुछ न कर केवल पेट का पूजन करते थे। वे चोरी और चुरालखोरी करते थे। चंदन यज्ञोपवीतादि ब्राह्मणों के विन्द छिपा कर मुसलमानी लिबास पहनते थे। मुदकखाने का हिवाब लिख कर और तेल, धी इत्यादि रस बेच कर उपजीविका करते थे। ब्राह्मण इस प्रकार नीच के भी नीकर हो चुके थे। राजा लोग प्रजा को पीड़ा देते थे। जब ये दो मुख्य वर्ष्य अपना-अपना कर्तव्य छोड़ चुके थे, तब वैश्या-दिकों से और क्या अपेक्षा की जाती? लोग गावें और बेटीयाँ बेचते थे। बेटी बेचने के

विषय में तुकाराम ने लोगों की खूब ही निरा की है। जो कोई गाय बेचता, कन्या के बहले धन को स्वीकार करता तथा हरिकथा कह के पैसे कमाता वह आप के मत से चांडाल-सदृश होता। ये लोग यह नहीं जानते थे कि कन्यादान का पुण्य पृथ्वीदान के समान है। ऐसे पुण्यकारक कन्यादान के आगे कन्या-विक्रय करनेवालों के पाप की गणना कहाँ तक की जाय ? कुछ लोग संत-सज्जनों का आदर करने के बजाय मुसलमानों के देवों को पूजते थे। घेठ के मारे लोगों की यह हीन-दीन स्थिति हो रही थी कि चांडालों के घर से भी खिचड़ी माँग खाते थे। लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी कि मदार, भाँग इत्यादि अस्पृश्य जाति की स्त्रियों से संबंध रखते। गाय को मारते और घोड़ों की सेवा करते। वेश्याओं को बच्चादि उपहार देते और शरीर लोगों को धक्के मार कर निकालते। हरिकीर्तन में जाने के लिए उन्हें समय न मिलता पर घंटों ही चौपड़ खेलने में गँवाते। स्त्री-संबंधी जनों को घर में खूब खिलाते, पर मा-बाप को घर के बाहर निकाल देते। साधुओं को खुल्लू भर पानी न देते पर रखेली के नहाने के लिए पानी खींच देते। हरिदासों के पैर कमी न छूते, पर वेश्याओं की चोलियाँ भी धोते। ब्राह्मणों को नमस्कार न करते, पर तुर्कों औरतों को मा से भी अधिक मानते। देव-दर्शन को न जाते पर चौराहों पर बड़े ठाट-बाट से अड़ बैठते। स्नान-संध्या या राम-राम न कहते पर बड़ी चाव से गुड़-गुड़ आवाज निकालते हुए हुक्का पीते। अपना सब जीवन स्त्री के अधीन करते और उस का मन रखने के लिए घर के लोगों से विभक्त हो अलग रहते। यह सब परिस्थिति देख कर तुकाराम जी के हृदय में बल पड़ जाता और आप के मुख से पुकार निकल उठती कि 'नाथ, क्या आप सो रहे हो ? अब तो उठ दौड़ो और भारत को बचाओ !'

अनाचार में प्रवृत्त करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भी उन्हें टालना और मन को सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करना आसान नहीं है। मनुष्य अनेक बार अपने मन को बुरी बातों की ओर से परावृत्त करता है, पर वह हठी बालक-सा फिर-फिर उसी की ओर दौड़ा जाता है और इस कारण मनुष्य कई बार अपनी उन्नति के विषय में निराश हो जाता है। ऐसे निराश जीवों को तुकाराम जी का उपदेश फिर से आशायुक्त कर देता है। आप के कई अमंगों में ऐसी वीरभी भरी हुई है कि कायरों के हाथ भी फुरफुराने लगते हैं। मरे से मरे दिल में भी कई अमंग जान डाल देते हैं। आप का कथन है कि मनुष्य को धीरे-धीरे मन को जीतना चाहिए। सब से पहले कुछ न कुछ नियम कर के उसे नित्य पालना चाहिए। जो कोई नित्य-नियम के बिना अन्न-सेवन करता है उस का जीवन आप के मत से कुत्ते का-सा है। कुछ न कुछ ध्येय मनुष्य अपने सामने न रखे तो उस का जीवन लज्जास्पद ही है। मनुष्य को उद्योग—संतत उद्योग—करना चाहिए। किया हुआ ही प्रयत्न फिर-फिर से करना चाहिए। मंथन करने के बाद ही मक्खन हाथ आता है, पहले नहीं। इस लिए अच्छा काम बार-बार करना चाहिए। पौधा जब तक जमीन में अच्छी तरह जमा नहीं तब तक उसे पुनः-पुनः सींचने की आवश्यकता रहती है। एक बार यदि वह खल जावे तो फिर उस में कोंपले आने की आशा नहीं रहती। टाँकी की चोटों खाते-खाते जो पत्थर बचता है वही देव-स्वरूप को पहुँचता है और जो फूट जाता है वह पायखाने में

सजाया जाता है। मुश्किल पहले-पहल ही पड़ती है। मन्वजन में जब तक मैल रहता है सभी तक वह कड़कड़ाता है और उफान खाता है; मैल जल जाने के बाद वह स्वयमेव शांत हो जाता है। अक्षर क्लमयदा चाहो तो मुक्त में नहीं मिलता। जो कोई हथेली पर सिर रख कर लड़ाई में लड़ता है उसे ही विजय मिलती है। ऐसे कामों में उतावली किसी काम की नहीं। पानी की खास से धीरे-धीरे ही चलना चाहिए। जो बीज ज़मीन में गहरा बोया जाता है वही अच्छा फ़ाता है। ऊपर-ऊपर बिजरा हुआ बीज चिड़ियाँ खुग जाती हैं। जो सोना कसौटी पर कटा जाता है और आग में परखा जाता है वही क़ीमत में चढ़ता है। अगर गेहूँ के आटे की रोटी अच्छी बनाना हो, तो उसे खूब गूँथना पड़ता है। हसी प्रकार मन को भी बार-बार गूँथना चाहिए। रोज़ के रोज़ कुछ न कुछ करना चाहिए। सूली बातों से ही काम नहीं चलता। धीरज रखो तो भगवान् अवश्य सहायता देने हैं। शांति-पूर्वक धीरज से अभ्यास करो तो आसध्य बातें भी सुसाध्य हो जाती हैं। अभ्यास सब कामों को आसान कर देता है। सूत की रस्सी भी रोज़ आते-जाते पत्थर को काट डालती है। इन लिए मनुष्य को उतावली छोड़, धीरज रख कर, उत्साह-पूर्वक एक-सा उद्योग करना चाहिए। ऐसा उद्योग करने पर ईश्वर दूर नहीं है।

दृढ़ निश्चय के कारण जैसे-जैसे मन क़ाबू में आता है, वैसे-वैसे आशा, ममता, इत्यादिकों का नाश होता है और ज्ञान, नम्रता, सत्य, शांति, दया, निर्वैर इत्यादि गुणों का उत्कर्ष होता जाता है। यदि ईश्वर-योग की इच्छा हो, तो सांसारिक सुखों की आशा मन से प्रथम नष्ट होनी चाहिए। आशा के कारण न उपदेशक साफ़-साफ़ बोलता है न श्रोता यथार्थतया सुनता है। अर्थात् एक गुंगा और दूसरा बहरा बनता है और दोनों के समागम में कुछ भी लाभ न हो कर दोनों कोरे के कोरे रह जाते हैं। प्रज्ञांतर में जिस ने आत्म छोड़ दी, उस का ईश्वर भी दास होता है। सत्तापूर्वक ईश्वर को अपना सेवक बनाना हो, तो आशा को प्रथम छोड़ दो। ईश्वर भी जिस पर कृपा करता है, उस की आशा अपहरण कर लेता है! भक्त के आशा-पाशों को वह प्रथम ही तोड़ डालता है। खुद के सिवा दूसरे किसी को भक्त का आचार वह रहने ही नहीं देता। आशा, तृष्णा, माया, अपमान के बीज हैं और भक्त के विषय में ईश्वर इन्हें पहले ही नष्ट कर देता है। अतएव यदि अपनी आशा, ममता इत्यादिकों के स्थान नष्ट हो जायें, तो मनुष्य को वह ईश्वर का अनुग्रह ही समझना चाहिए। ईश्वर-प्राप्ति के आड़ आनेवाली बातें तथा व्यक्ति, सबों का त्याग करने का मुकाराम जी ने सोदाहरण उपदेश किया है। प्रह्लाद ने पिता, भरत ने माता, विभीषण ने भाई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया। वैसे ही ईश्वर के आड़ आनेवाले पुत्र-पत्नी इत्यादिकों को भी छोड़ना चाहिए। अपने ध्येय के हेतु संसार की आशाएँ छोड़नी ही पड़ती हैं। संसार प्रवृत्तिपर और ध्येय निवृत्तिपर होने से दोनों का साथ जम ही नहीं सकता। जब आशा, ममता, तृष्णा चित्त से नष्ट हो जाती हैं, उन का स्थान दया, शांति, ज्ञान ले लेती है। क्रोध का मूल काम ही जहाँ न रहे, वहाँ शांति के अतिरिक्त और क्या रह सकता है? इन्हीं गुणों के साथ मन में समाधान-वृत्ति उत्पन्न होती है। मन की अशांति से चंदन भी शरीर में अग्नि की-सी जलन पैदा करता है और मन की शांति होने पर मनुष्य

सुख से विच भी पी सकता है। शक्ति, ज्ञान, दया ही मनुष्य के सच्चे अलंकार हैं। इन की प्राप्ति जब तक न हो, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इन्हीं गुणों के साथ सब भूतों के प्रति निर्वैर उत्पन्न होता है और फिर जो परिस्थिति प्राप्त हो, उसी में मनुष्य सुखी रह सकता है। फिर वह “पानी भरे या पलंग पर सोवे, उम्दा से उम्दा खाना खावे वा सूखी रोटी के टुकड़े चबावे, घोड़ा-गाड़ी पर चढ़े वा पैर में जूता भी न पहन कर चले, अच्छे-अच्छे कपड़े पहने वा फटे-पुराने चीखड़ों से शरीर ढाँके, संपत्ति में रहे वा विपत्ति में कैसे, और तो क्या उस का सज्जनों से समागम हो वा दुर्जनों से, उसे सुख-दुःख एक-सा ही जान पड़ता है, और जो समय प्राप्त होता है, उसी के अनुकूल वह बड़ी खुशी से दिन काटता है।” इसी लिए तुकाराम जी का उपदेश है कि जो स्थिति प्राप्त हो, उसी में सुख से रहो। किसी बात की वा पेट भरने की भी चिंता न करो। अन्न-वस्त्र के लिए किसी की याचना न करो। नर-स्तुति तो मुख से कभी न निकालो। ईश्वर पर सब भार डालो और अपना कर्तव्य करते हुए सुख से रहो।

श्रीतुकाराम जी महाराज के सुदुपदेश का अत्यंत संक्षेप में यह सार दिखलाया है। आप के भोतागणों में सभी प्रकार के लोग समाविष्ट थे। गोत्राक्षयप्रतिपालक, स्वधर्म-संस्थापक, स्वराज्य-प्रवर्तक श्रीशिवाजी महाराज के-से वीर पुरुष, वेदशास्त्र-संपन्न सदाचारी रामेश्वर भट्ट जी से सत्यशील ब्राह्मण, मुसलमानों के शासन में बड़े-बड़े ओहदों पर काम करनेवाले हिंदू अधिकारी, अपना सर्वस्व भीविहल-चरणों पर समर्पित कर पंढरीश श्रीपांडुरंग के भजन में रंगे हुए वारकरी, परमेश्वर के कृपापात्र चिचवडकर देव से प्रसिद्ध महंत, कुत्ते की दुम-से अपनी वक्रता न छोड़नेवाले और सदादिन कष्ट देनेवाले मंबाजी ऐसे स्वभाव-दुर्जन, पति के साथ मुख से संसार करनेवाली बहिशाबाई-सी भक्त स्त्री तथा सांसारिक दुःखों से त्रस्त हो कर तुकोबा को ही भला-बुरा सुनानेवाली जिजाई-सी पत्नी, सबों को श्री तुकाराम महाराज जी ने खुल्लम-खुल्ला उपदेश दिया है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि आप ने किसी को अपना शिष्य न बनाया और उसे किसी प्रकार का सुख उपदेश नहीं किया। किसी को अपना शिष्य बनाने के आप पूर्ण विरोधी थे। आप का मत था कि साधु पुरुष को मेषवृद्धि न्याय से उपदेश करना चाहिए, पर किसी को अपना शिष्य न बनाना चाहिए। आप के उपदेशानुत्त से सब प्रकार के लोगों ने यथाधिकार लाभ उठाया और कृतार्थता प्राप्त की। आप का उपदेश हमेशा सूत्र-रूप से होता था। उस में केवल मुख्य-मुख्य तत्व बतलाए जाते थे। छोटी-मोटी गौण बातों की ओर आप ध्यान न देते थे। मोह-निद्रा में से जड़-जीवों को जागृत करना ही साधु-संतों का कर्तव्य होता है। इस विषय में कि जागने पर हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संत लोग प्रायः जुप रहते हैं। वे जानते हैं कि इस विविध संसार में व्यक्ति-विषयक उपदेश करना अनावश्यक और अशक्य है। इस लिए श्रीतुकाराम जी महाराज से साधु पुरुष केवल जीवों की माया-निद्रा उठा देते हैं, धर्म और भक्ति के बीज उन के हृदय में बोते हैं, कर्तव्य-कर्म की ओर उन्हें प्रवृत्त करते हैं, ज्ञान-वैराग्यादि का उपदेश दे कर देह-बुद्धि का नाश करते हैं और सामान्य नरों को भी नारायण-स्वरूप होने की करनी निश्चालते हैं। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना रूप देखता

है और बिना किसी के बतलाए जान जाता है कि उस के रूप में गुण-दोष क्या हैं, उसी प्रकार आप के अर्मगो का पाठ करजें-करते पाठक अपना-अपना रूप देखते हैं, और अपने-अपने गुण-दोष पहिचान दोषों को दूर कर गुणों की वृद्धि करने में तत्पर हो जाते हैं। आज तक हजारों जीव आप के उपदेशामृत का पान कर भवरोग से मुक्त हो चुके हैं, और न मासूम भविष्य-काल में कितने और जीव इसी उपदेश-वृद्धि से अपने संसारतप्त-जीवों को शीतल करेंगे। ऐसे उपकारी पुरुष के गुण कहाँ तक कोई गा सकता है। अतएव उस मगड़े में न पड़ कर इस परिच्छेद को यहीं समाप्त करें।

---

## अयोदश परिच्छेद

### संत-माहात्म्य

भीतुकाराम जी महाराज के अमंगों का एक बड़ा भारी विभाग संत-सज्जनों के वर्णन से भरा हुआ है। अपने जीवन में आप को विशेषतः दुर्जनों से ही काम पड़ा। यही कारण है कि सज्जनों का गौरव आप ने इतने महत्व का जाना। दुःखों की आँच से झुलसने के बाद ही सुख की शीतल वायु का आस्वाद अधिक शांतिप्रद मालूम पड़ता है। आप के मतानुसार दुर्जन वही है जो ईश्वर से स्वयं विमुख रहे और दूसरों को भी विमुख करे। इस व्याख्या को मान कर तो यही कहना पड़ेगा कि घर की स्त्री से ले कर बाहर के मंबाजी बाबा तक सब प्रकार के दुर्जनों से आप को जन्म भर झगड़ना ही पड़ा। अतएव दुर्जनों के सब प्रकार आप को विदित थे। और यही कारण है कि आप के कामों का ब्यार्थ स्वरूप पहचान कर आप को भगवद्भक्ति के विषय में अधिकाधिक प्रेरित करनेवाला हर एक पुरुष आप को बड़ा भारी सज्जन-सा जान पड़ता था। इस परिच्छेद में हमें यही देखना है कि तुकाराम जी ने सज्जन-दुर्जनों के विषय में क्या लिखा है।

भीतुकाराम जी महाराज जिन लोगों से प्रेम करते थे उन्हें हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इन में प्रथम वर्ग है हरिदास या वैष्णव लोगों का। माथे पर ऊर्ध्व-मुंडू लगा है, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, शंख-चक्रों की मुद्रायें लगी हैं, वह तो इन वैष्णवों का बाह्य रंग था। पर केवल इस ऊपर के ढाढ़-ढाढ़ से वैष्णव नहीं होता है। जिन लोगों को नारायण धन-सा जान पड़ता हो; भूल, प्यास सब भूल कर जो



भीरि का नाम-स्मरण एक-सा करते हों; बैठते, सोते, चलते, फिरते, जिन का चित्त ईश्वर की ओर ही लगा हो, भीरि-स्मरण की अपेक्षा जो पृथ्वी का राज्य ही नहीं, इंद्र का पद भी तुच्छ मानते हों; योगसिद्धि की जो विल्कुल क्रीमत्त न करते हों, और तो क्या भीरि के बिना मिलनेवाले मोक्ष के भी जो त्यागवत् समझते हों, तुकाराम के मत से वे ही वैष्णव थे। वह तो हुआ ईश्वर-विषयक प्रेम। इसी प्रेम के कारण वैष्णवों का धीरज कभी न झूटता था। किसी विपत्ति में वे अपने व्रत से न टलते थे। इसी दृढ़ विष्णुभक्ति के कारण विष्णुदास के भगवद्भक्त हो जाते थे। इन भगवद्भक्तों का समावेश दूसरे वर्ग में किया गया है।

इन भगवद्भक्तों का वर्णन करते समय तुकाराम जी कहते हैं, “वे ही भगवद्भक्त हैं, जो अपने शरीर के विषय में विल्कुल उदास हो गए, आशा-पाशों को जिन्होंने विल्कुल दूर कर दिया, जिन का सब त्रिषय नारायण ही हो गया; यहाँ तक कि धन, मान, माता-पिता भी जिन्हें न भाए। ऐसे ही भक्तों के आगे-पीछे, चारों ओर नारायण रहता है और सब प्रकार के मंकों से उन्हें बचाता है। ये सत्य की इमेशा मदद करते हैं और असत्य से ऐसा डरते हैं, मानों नरक को जाना हो।” ऐसे ही लोग भक्ति-सुख से मस्त हो कलि-काल से भी निडर हो जाते हैं। इन के हाथों में हरि-नाम का बाण रहता है, मुल्ल में विहल-नाम की गर्जना रहती है, किसी का परवाह इन्हें नहीं रहती, दोष भो इन से डर कर भागते हैं और मोक्ष तक की सब सिद्धियाँ इन के दरवाजे पर टडहली रहती हैं।

विष्णु-भक्ति के बाह्य-चिह्न जिन के पास दृश्यमान हैं, जिन्होंने भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है, वे वैष्णव हैं। इन्हीं लोगों के मन में जब विष्णु-भक्ति दृढ़-मूल हो जाती है, तब वे इन बाह्य-चिह्नों की इतनी परवाह नहीं करते। उन का ध्यान, उन का अंतःकरण, परमेश्वर की ओर लगा रहता है और इस स्थिति में वे भगवद्भक्त कहलाते हैं। पर यह भी भीतुकाराम जी महाराज के मतानुसार पूर्णवस्था नहीं है। शरीर, वाणी तथा मन तीनों परमेश्वर-परायण होने से ही सिद्धि नहीं होती। सिद्ध लोगों की दशा भगवद्भक्तों से भी ऊँची है। उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए भक्ति का सत्य स्वरूप समझना चाहिए। भीतुकाराम जी के मत से भक्ति का स्वरूप है ‘जनीं जनार्दन।’ अर्थात् अखिल जगत में जनार्दन स्वरूप देखना। यह ज्ञान होते ही अज्ञावस्था में जो भावना ईश्वर-विषयक रहती है, वह नष्ट हो जाती है। उस अवस्था में तो यह कल्पना रहती है कि परमात्मा वही है, जिसे हम राम, कृष्ण, विहल, शिव, विष्णु इत्यादि नामों से पुकारते हैं। पर इस पूर्णवस्था में यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किसी विशिष्ट नाम-रूप से मर्यादित नहीं है, प्रत्युत संसार के हर एक नाम-रूप में भरा हुआ है। इतना ही नहीं सब ब्रह्मांड को व्याप्त कर के भी वह बचा ही है। यह भावना दृढ़ होते ही वही भगवद्भक्त अब जगत के दुःख से दुःखी होता है। उस के सब प्रयत्न संसार को सुखी करने के लिए होते हैं। उस की सब क्रियाओं का एक ही हेतु रहता है—दुनिया का प्रायदा कैसे हो। इन अवस्था में तुकाराम उन्से संत या साधु या सञ्जन कहते हैं।

इन्हीं संतों का वर्णन भीतुकाराम जी ने बड़ी भक्ति से किया है। आप कहते हैं

“सचमुच जिस का वह अनुभव है कि संसार ही देव है, उसी के पास ईश्वर ही और उसी के दर्यान से पाप का नाश होता है। भूत मात्र के विषय में सम-बुद्धि रखने के कारण न उस के पास काम आता है और न शोध। किसी प्रकार का भेद-भाव उस के चित्त में रहता ही नहीं। भेदाभेद की सब बातें वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो जाती हैं।” संतों का जीवन केवल लोककल्याण ही के लिए है। लोगों का भला करने में ही वे अपनी देह लगाते हैं। भूतों पर दया करना ही उन का मूलधन है। अपने शरीर पर तो उन का ममत्व रहता ही नहीं। भीतुकाराम जी महाराज का कथन है कि दुखी लोगों को जो अपनावा है वही साधु है। देव वही पर है। सज्जनों का चित्त तो भीतर-बाहर एक, और मनस्वन-सम मृदु रहता है। जिसे कोई सँभालनेवाला नहीं उसे साधु अपने गले लगाता है। पुत्र की ओर जो दया दिखलाई जाती है, साधु-पुरुष अपने नौकर-नौकरानियों पर भी वही दया दिखलाता है। वही साधु है। और तो क्या प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति वही है। अन्यत्र आपने कहा है कि जो जगत के आघातों को सहता है वही संत है। संतों के पास अश्वगुण्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे चंदन मूल से ले कर अम तक सुगंधित-ही रहता है, पारस का कोई भी अंग सुवर्ण बनाने के गुण से हीन नहीं रहता, अथवा राक्षस सब की सब मीठी ही रहती है, उसी प्रकार खोज करने पर भी संतों के पास अश्वगुण्य नहीं मिलते। और एक अंग में आप ने वर्णन किया है कि जिसे उस ब्रह्म का ज्ञान है जो सर्वगत और सर्वत्र एक रूप है, वही साधु है। उस के पास अन्यत्व या वैषम्य की भावना ही नहीं है। भक्ति ही उस का मूल कारण है। समबुद्धि और नास्तिक्यता का अभाव उस में रहता है। भूतों के विषय में जो दया उस के मन में जागती है उस के कारण ढोष की जड़ वहाँ जमने नहीं पाती। वही दया शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु सबों को एक ही स्वरूप से देखती है। उस का मन, बुद्धि, काया, वाचा चारों शुद्ध रहती हैं। जहाँ देखो वहाँ परमेश्वर-स्वरूप देख कर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, सब प्रकार से अपने को छोटा मानता है। वह ‘मैं’ और ‘तू’ के भाव से अपरिचित हो जाता है। अर्थ, काम, मान, अपमान, मोह इत्यादि बातों की वह चिंता भूल जाता है। सब समझ कर भी वह अनजान सा पूर्ण समाधान में रहता है। उस का ईश्वर पर हृद् विश्वास होता है। कोई भी काम करने या न करने का हठ वह नहीं करता और ज्ञान से कँदरा कर बच्चे की नाई बुनिया में बाध करता है। बस वही साधु है।

साधु-संत कैसे होते हैं इसी के वर्णन के साथ वे कैसे नहीं होते इस का भी आप ने बड़ा अच्छा विवरण दिया है। कवित्व करने से संत नहीं बनते हैं, या किसी दूसरे किसी संत के भाई-बंध भी संत नहीं हो सकते। हाथ में तुंबा लेने से या पीठ पर गूढ़ी ओढ़ने से संत नहीं बनते। संत होने के लिए न पुराण बचने की आवश्यकता है, न कीर्तन करने की। न वेद-पाठ की न कर्माचार की जरूरत है। तप, तीर्थ-भ्रमण, वनवास, किसी से भी कोई संत नहीं होता। संत को न माला पहननी पड़ती है, न मुद्रा लगांनी, न विभूति रमानी। झाली संत कहलाने से संत नहीं होते। यहाँ तो असली परीक्षा देनी पड़ती है। जब तक मन का संदेह न मिटा तब तक कोई संत नहीं है। तुकाराम के मत से वे सब

सांसारिक हैं। संतों का मुख्य लक्षण लीनता है, अभिमान नहीं। वहाँ तो न ज्ञान का गर्व है, न कर्म का, न जाति का। संत बनने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं। वहाँ तो काम क्रूर के खिलाफ पड़ता है। जो स्वयं कर के बतलाता है, वही साधु है। केरी बातें करनेवाला साधु नहीं हो सकता। साधुता बाजार में माल नहीं मिलती। जंगल में रहने से भी ढल की प्राप्ति नहीं होती। वह न आकाश में है न पाताल में। धन के डेर होने से उस की प्राप्ति नहीं होती। उस के लिए तो अपनी जान खर्च करनी पड़ती है तब वह मिलती है, और जब मिलती है तब दूसरे के पास नहीं वरन् अपने ही पास मिलती है।

संत कैसे होते हैं, और कैसे नहीं, इस का विवरण हो चुका। अब यह देखें कि साधु लोग क्या करते हैं ? इन साधु-संतों का जो आच लक्षण लोगों को नजर आता है, वह है निर्भयता। वे किसी से डरते नहीं। जो सच है उस के कहने में वे जरा भी हिचकते नहीं। भगवान् के दास, और उन्हें किसी का भय ! यह विचार ही विसंगति का उदाहरण है। बड़ी वीरभी के साथ श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं—

देख वैष्णवों का नूर। जमदूत भाग्ये दूर।

आप आप वैष्णव वीर। काल कपि क्या असुर !

गड्ढ पताकों का मार। भूमि गर्जत जय-जयकार ॥

तुका कहे कलिकाल। माग जावे देख बल ॥

इन विद्वल वीरों के सम्मुख काल ठहर ही नहीं सकता। इन के मुख से जो जय-जयकार का घोष सुनाई पड़ता है उस से दोषों के पहाड़ के पहाड़ फूट जाते हैं। सब पृथ्वी पर इन की अपेक्षा कोई बलवान् नहीं, क्योंकि दया, क्षमा और शांति के अमंग बाण इन के हाथों में होते हैं जिस के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। जो मन में वैर ठान कर आता है, वही मित्र बन कर वापस जाता है। इसी निर्भयता के आधार पर संत परोपकार या भूत-दया का अपना मुख्य कर्त्तव्य करते हैं। संतों की वृकान दिन-रात खुली रहती है। जो कोई जो कुछ माँगने आवे, फौरन् वह चीज उसे मिल सकती है। आप का भंडार सदा भरपूर रहता है। माँगनेवाले की तो इच्छा पूरी हो ही जाती है, पर उस की इच्छा पूरी होने पर भी इन के भंडार में के थैले में कुछ भी कमी नहीं पड़ती। और कमी पड़े भी क्यों ? जो इच्छुक बन कर आता है, वही स्वयं निरिच्छा हो कर दूसरों की इच्छाएँ पूरी कर देने में समर्थ बन जाता है। जब याचना की इच्छा ही नहीं रह जाती तो वह विचार लेवे भी क्या ? सब इच्छाओं को पूरा करनेवाला परमेश्वर ही संत-सज्जनों की कृपा से मिल जाता है, तब और कुछ मिलना बाकी ही कहाँ रहता है ? फिर तो यह पृथ्वी ही कैकुंठ बन जाती है। जिधर देखो, उधर प्रेम की लहरें उठने लगती हैं, और पाप, दुर्बुद्धि इत्यादि बातें तो हँडें भी नहीं मिलतीं। कैसे भी दोषी क्यों न हो ? संत तो उन्हें पवित्र ही बना देते हैं। इन की दृष्टि से अशुभ भी शुभ हो जाता है। पाप, ताप, दासिप्रिय तीनों एक साथ ही नष्ट होने हैं। गंगाजी पाप दूर करती हैं, चंद्रमा ताप को हटाता है और कल्पवृक्ष के कारण दासिप्रिय चला जाता है। पर संत-सज्जन लोग ये तीनों बातें एक साथ ही कर सकते हैं। संसार-समुद्र डूतर जाने के लिए यह एक ऐसी नाव है कि इस पर चढ़ते सज्जन

वा हृदय में से उत्तरते समय न हाय भीगता है न पैर । सपूचे संसार के विषु कां भी स्वर्ण न होते हुए आप उसे आनंद से भर कर सकते हैं । इन महाजुमार्यों का दर्शन होते ही चित्त को सम्प्रधान मिलता है और सारी चिंताएँ दूर भाग जाती हैं । तुकाराम जी संतों के लिए सदा चंदन की उपमा देते हैं । शोभा, सुगंध और शीतलता संसार में कैलाने के लिए ही चंदन का जन्म है । उसी प्रकार सुख, धर्म और भक्ति की वृद्धि करना ही संतों का पवित्र कार्य है । दुखी, अप्रार्थी और अमक्त लोगों को उबारने के लिए ही संतों का अवतार है । ईश्वर का ज्ञान संत ही कराते हैं । इठ से परंतु प्रेम से ये लोग साक्षात् जनस्य जनार्दन का अनुभव करा देते हैं । इन की सादी बोली भी हितकारिणी और उपदेशदायिनी होती है । किसी बात की अपेक्षा न रख कर और बड़े कष्ट उठा कर ये अज्ञ-जनों को सिखाते हैं । गाय जिस प्रेम से बछड़े को चाट-चाट कर साफ़ करती है, वैसे ही ये अज्ञ-जनों को अपनी सधामयी बाष्पी से अपना कर पवित्र करते हैं । सोते हुए जीवों को ये एक से जगाते रहते हैं और चंदन की नाई लोगों को भी अपने जैज ही बना देते हैं । चंदन के आसपास बेर, बकूल के भी पेड़ क्यों न हों, चंदन के साथ रहने के कारण वे जैमे सुगंधित हो जाते हैं या किसी राजा के पास रहने से जैसे शरीरों को भी सन्मान मिलता है, उसी तरह जाति-पात, गुण-दोष किसी का भी प्रतिबंध न होने के कारण, केवल सत्संगति से ही मनुष्य साधु हो जाता है ।

संतों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की यह भावना होने के कारण जब कभी आप को संत-समागम का सुअवसर आता, तब आप के आनंद की सीमा न रहती । आप बड़े प्रेम से उन का स्वागत करते और उन के संमुख बड़ी लीनता से बरतते । इस लीनता के विषय में तो आप की हृदय ही । आप उन के चरणों पर गिरते, उन की चरण-धूलि माथे पर लगाते, उन के मुख से किसी बात के निकलने की ही देर रहती कि आप उसे पूरी कर डालते । उन की पादुकाओं को कंधे पर उठाते, उन के रहने के स्थान स्वयं काढ़ कर साफ़ करते । एक अभंग में तो आप ने यहाँ तक कह दिया कि संतों का गूठन भी बड़े भाग्य से खाने को मिलता है । अगर वह थोड़ा भी प्राप्त हो, तो पेट सदा के लिए भर जावे । यहाँ पर वाच्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ क्या है, यह वूसरे एक अभंग में स्पष्ट हो जाता है । 'व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वं' जिस अर्थ में कहा जाता है, उसी अर्थ में उच्छिष्ट शब्द यहाँ पर व्यंग्यार्थ से प्रयुक्त है । संतों के मुख से बाहर पड़े हुए शब्दों का ही अर्थ यहाँ पर व्यंग्य है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि संतबानी के थोड़े मे भी सेवन सं संसारी मनुष्य की छुपा-तृषा दूर हो जाती है । इतनी लीनता धारण करने पर भी यदि कोई साधु-पुत्र आप की स्तुति करता, तो आप उसे फ़ौरन ही रोक देते । आप कहते कि "संतों को मेरी स्तुति न करनी चाहिए । क्योंकि उस तारीफ़ के कारण मुझे जो गर्व होगा, उस के शोक से यह भव-नदी पार करने में मुझे बड़ी कठिनाई पड़ेगी और फिर उतना ही मैं आप लोगों के चरणों से दूर हूँगा । गर्व मेरे पीछे हाथ धो कर लगेगा और मेरे बिटोया से मुझे दूर ले जावेगा ।" अगर कोई सज्जन आप को संत कहता तो आप उसे उत्तर देते कि "मुझे यह क्लीमती ज़ेबर सुहाता नहीं है । न तो मैं भगवत्स्वरूप को पहचानता हूँ, न सर को, न अक्षर को । इस सब का तो मुझे ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है और अनात्मा क्या । मैं जो

केवल आप के चरण की धूल हूँ, संतों के पैर की जूती हूँ और केवल संतों के पैर की सेवा करना ही जानता हूँ।" एक अभंग में तो आप ने इतनी स्पष्टता से आत्म-स्थिति का वर्णन किया है कि कुछ कह नहीं सकते। आप ने साफ़-साफ़ कहा है कि "पंखर पड़े मेरे अभिमान पर और मैं आप मेरा नाम ! मेरे पाप के ष्हाड़ों की सीमा ही नहीं है। इस भूमि पर मैं केवल भ्रत-भूत हूँ। अपनी फ़ज़ीहत क्या और किस से कहूँ ! मेरे दुःख से तो पंखर भी फूट जावेंगे। क्या खी, क्या पुष्य सभी भले-बुरे लोगों से मुझे अपना मुल छिपा ही रखना चाहिए। शरीर, वाणी तथा मन, उसी प्रकार आँख, हाथ, पैर सभी के द्वारा कभी निंदा, कभी द्वेष, कभी विश्वासघात, कभी व्यभिचार और क्या-क्या कहूँ सभी प्रकार के पाप हुए हैं। जब लक्ष्मी की योड़ी-बहुत कृपा थी, तब तो मेरे हाथों से कई पाप हुए हैं। दो किर्या रहने के कारण भेद-भाव से भी मैं बचा नहीं हूँ। पिता की आज्ञा का अवमान भी मैं ने किया। अविचार, कुटिलता, निंदा, वाद इत्यादिकों को बखानते तो जीभ तक हिचकती है। दिल तो काँप ही उठता है। भूतदया और उपकार के तो शब्द भी मैं मुख के बाहर नहीं निकाल सकता। मेरी विषय-संपत्ता के विषय में तो कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं। इस लिए संतो, आप ही मेरे मा-पाप हो, आप ही की कृपा से मैं ईश्वर के पास जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं।" श्रीतुकारामजी का जीवन-वृत्तांत पढ़े हुए पाठकों से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन की किन किन घटनाओं को लक्ष्य में रख कर तुकाराम जी ने यह अभंग लिखा है। धन्य है इस स्पष्टता को और धन्य है ऐसे कठोर आत्म-निरीक्षण को ! सामान्य जनों में और महात्माओं में यही मुख्य भेद है।

वैष्णव, भगवद्भक्त या संत-सज्जनों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की बड़ी भक्ति थी। आप इन लोगों को ईश्वर से कम न समझते थे। इसी लिए परमेश्वरभक्ति के बराबरी का स्थान आप ने सत्संगति को दिया है। देव और भक्तों का संबंध आप ने एक जगह बड़े अच्छे प्रकार सं दिलाया है। परमेश्वर को अवतार क्यों लेना पड़ता है ? 'परि-श्राण्यां साधूनाम्' अर्थात् संत-सज्जनों का रक्षण करने के लिए। बिना भक्तों के ईश्वर का माहात्म्य कैसे बढ़ सकता है ? इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। भक्तों का सुख की प्राप्ति अपने ईश्वर की सेवा से होती है, तो ईश्वर को सब प्रकार के सुख भक्तों द्वारा ही मिलते हैं। ईश्वर ने भक्तों को देह दिया तो भक्तों ने भी ईश्वर को मनुष्य साकार बना दिया। इस प्रकार देखा जाय तो एक ही वस्तु के ये दो अंग हैं। स्वामी के बिना सेवक का कौन पड़ेगा ? पर सेवक ही न हों तो स्वामी कहाँ से कहलाएगा ? यही स्थिति देव-भक्तों की है और इसी लिए तुकाराम महाराज देव-भक्तों को एक-सा ही महत्व देते हैं। जहाँ देव और भक्त का समागम हुआ, वहीं भक्ति की गंगा बहने लगी और आस-मास के लोग उस गंगा से पवित्र होने लगे। जिन भगवद्भक्तों के हृदय में नारायण बँचा हुआ है वे किस बल में कम हैं। धन, विद्या, कुल इत्यादि सभी बातों में उन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भीतर-बाहर सभी प्रकार से वे मधुर रूप हैं। उन के तेज के लिए न उदय है न अस्त। वह तो सदा एक-सा ही रहता है। अब यदि ऐसी भावना रखनेवाले के सम्मुख कोई संत-निंदा करे तो उस पुष्य को कितना दुःख

ज्ञेया ! परंतु आप. के भाग में तो संत-निंदा सुनना रोज के रोज और बर-बर में ही बदा बर । संत-निंदकों पर कई बार आप के मुख से इसी कारण बड़ी कड़कारें निकलतीं । जो कोई संतों को दुःख देगा उस का भला तीनों लोक में न होगा । वह केवल संतों का ही नहीं पर आश्चर्य ईश्वर का भी शत्रु है । पृथ्वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में हिचकती है । संतों के भाव्यों पर जिस का विश्वास न हो, उस के दोष न मालूम कितने बढ़ गए हैं । उपमा दे कर आप कहते कि गाय का दूध निकालना हो तो बल्कली ही शरणा लेनी पड़ती है । यदि बछड़े के साथ कोई बुरे भाव से बरते, तो गाय भी उसे मारने दौड़ती है । इसी प्रकार भगवद्भक्त संतों का शत्रु केवल देव का ही नहीं परन्तु अखिल विश्व का शत्रु बन जाता है । पति के मरने पर जैसे स्त्री का कुल, संसार, रूप, गुण, सभी व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही भक्तों को दूर करने पर दुनिया की हालत होती है । यदि फलों की रक्षा करतल हो, तो मूल को ही सींचना चाहिए । इसी तरह यदि सब प्रकार से अपना भला चाहो तो संतों की ही मंगति साधनी चाहिए । बिना संत-सेवा के ईश-प्राप्ति का मेवा मिलान असंभव है ।

अब यह देखें कि तुकाराम महाराज सत्संगति का क्या फल बतलाते हैं । जिस सत्पुरुष को यह अनुभव हुआ कि सारा संसार ईश्वर-स्वरूप है वही संत है, और उसी के पास ईश्वर वास करता है । उस के दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं । काम-क्रोधादिकों को वहाँ तक पहुँचने की ही ताकत नहीं रहती । सब भूतों के विषय में उस की समझुक्ति हो जाती है । वहाँ पर न भेद रहता है न संशय । जिस शंका ने सब जगत् को खा डाला है, उस शंका को भी सत्पुरुष खा डालता है । संदेह की गाँठ उस के हाथ पड़ते ही छूट जाती है । ऐसे संत के समागम से दूसरों की संसार-तल देह शीतल हो जाती है । उन की कुछ बुद्धि का नाश होता है और अंत में सत्संगति के कारण वे स्वयं भी संत हो जाते हैं । जिस प्रकार आग में गई हुई चीज आग ही बन जाती है, पारस के स्पर्श से लोहे का सेना हो जाता है, छोटा-सा नाला गंगा जी के प्रवाह में मिल कर गंगा-रूप बन जाता है, चंदन की सुगंधि से दूसरे पेड़ भी चंदन के-से सुगंधित होते हैं, उसी प्रकार, तुकाराम महाराज कहते हैं कि संतों के पैरों पर पड़ा हुआ पुरुष द्रौत भाव का त्याग कर संत-स्वरूप ही हो जाता है । न उस का पहला नाम बाक्री रहता है, न पहला गुण । हिंदू तत्वज्ञान के अनुसार ब्रह्मज्ञान के आनंद से बढ़ कर कोई आनंद नहीं है । आनंद-बली नामक उपनिषद् में आनंदों का बर्णन किया है । उपनिषत्कार ने लिखा है—“यदि कोई मनुष्य तरुण हो, अच्छा पढ़ा-लिखा विद्वान् हो, बल-सामर्थ्य से युक्त हो और सारी धन-भरी पृथ्वी उस के बश में हो, तो उस मनुष्य को ओ आनंद होगा, यही मानुषी आनंद है अर्थात् मनुष्य के आनंद की सीमा है ।” ऐसे सौ मानुषी आनंद एक मनुष्य गंधर्व के आनंद के बराबर हैं । इसी शतगुणित क्रम से बढ़ते-बढ़ते देवगंधर्व, पितर, कर्मदेव, देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, इन के आनंद हैं । अंत में प्रजापति के सौ आनंदों के बराबर एक ब्रह्मानंद कहा गया है । परंतु दुःख की यह अंतिम सीमा सत्संगति से सद्गम में प्राप्त होती है । तुकाराम कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत सुलभ उपाय सत्संगति है । संत सच्चनों के चरचर का स्पर्श होते ही बाधना

का भीम जन्म जाता है। वासना-रहित चित्त होने पर भीराम-नाम का प्रेम उत्पन्न होता है और प्रतिद्वन्द्व सुख की वाढ़ होती जाती है। गला भर आता है, आँखों से मेमाश्रु की धाराएँ बहने लगती हैं और अंतःकरण में रामचंद्र जी का स्वरूप प्रकट होता है। इस साधन का-रण सुखम कोई अन्य साधन नहीं, पर इस की प्राप्ति बिना पूर्वपुण्य के नहीं होती। अर्थात् जिस किसी का सत्संग का लाभ हो उस के पूर्व-पुण्य का अनुमान कर लेना चाहिए। इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान से जो आनंद होता है वह ब्रह्मादिक देवताओं को भी दुर्लभ है। क्योंकि इस में निराकार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होते भी सगुण भक्ति बनी ही रहती है। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करने में इस प्रकार कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। यह ब्रह्मज्ञान स्वयं ही संतों के पास आता है। लक्ष्मी को खोजनेवाले मनुष्य को वह प्राप्त हो या न हो, पर जिसे स्वयं लक्ष्मी खोजती हुई आती है वह उस से वंचित कैसे रह सकता है? ठीक इसी तरह ब्रह्मज्ञान संत सज्जनों को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते स्वयं आता है। ऐसे ब्रह्मज्ञान से प्राप्त आनंद को कौन बखान सकता है? बखानने की तो बाल अलग रही, उस की कल्पना भी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उस का स्वयं अनुभव न हो। और जिसे अनुभव आता है वह उस अनिर्वाच्य में ऐना मगन हो जाता है कि मुख से शब्द भी निकालने में असमर्थ हो जाता है।

इस प्रकार का ब्रह्मानंद जिमें हो गया और सत्संग के कारण सगुण-भक्ति निश्चल रख कर जिस ने 'हरि' को अपना मित्र कर लिया, उस के घर के आँगन में बबूल के पेड़ भी कल्पवृक्ष बन जाते हैं। वह जिन राह में जाता है वहाँ के छोटे-छोटे कंकड़ भी चिंतामणि होते हैं। इन हरिभक्तों के ज्ञान की महिमा कौन कह सकता है? इन का दर्शन भी दुर्लभ है, पर तुकाराम पर ऐसे संतों की ऐसी कृपा हुई कि उन के शब्दों का वेदांत-शास्त्र अनुयायी हो गया। इस से बढ़ कर सत्संग का वर्णन क्या हो सकता है? इस लिए इस विषय को अब यहीं पर समाप्त करना चाहिए।

## चतुर्दश परिच्छेद

### ईश्वर-भक्ति

संत-सज्जनों के विषय में श्रीतुकाराम महाराज की जो कल्पनाएँ और विचार थे, उन का विवरण गत परिच्छेद में दिया गया है। इस परिच्छेद में इस बात पर विचार करेंगे कि श्रीतुकाराम महाराज की ईश्वर-विषयक कल्पनाएँ क्या थीं, सत्यस्वरूप परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान होने पर भी आप की सगुण-भक्ति कैसे बनी रही, तथा सगुणस्वरूप में भी किस रूप को और भक्ति-प्रकार में से किस प्रकार को वे प्राधान्य देते थे।

श्रीतुकाराम जी के मत से सारा संसार तीन रूपों में विभक्त था। जड़सृष्टि, चैतन्ययुक्त जीव, और ईश्वर। ईश्वर जड़सृष्टि तथा सचेतन जीवों का अंतर्गामी अर्थात् अंतःसंचालक है। यह दोनों प्रकार की सृष्टि, जो उसी की इच्छा से निर्मित हुई है, ईश्वर की देहस्वरूप है और ईश्वर इस देह का आत्मा है। सृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व, ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म-रूप से रहता है। जैसे देह के विकारादि आत्मा को विकृत नहीं कर सकते, वैसे ही जड़, सृष्टि तथा जीवों के गुणों से ईश्वर स्वरूप विकृत नहीं होता। वह सब दोषों से तथा अवगुणों से अलिप्त रहता है। वह नित्य है, जीवों तथा जड़-सृष्टि में ओत-प्रोत भरा हुआ है, सबों का अंतर्गामी है और शुद्ध आनंद-स्वरूप है। ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि सद्गुणों से वह युक्त है। वही सृष्टि को निर्माण करता है, वही उस का पालन करता है तथा अंत में वही उस का संहार भी करता है। भक्तजनों का वह शरय्य है। उस के गुणों का आकलन न होने के कारण ही उसे अगुण या निर्गुण कह सकते हैं। एक अभंग में आप ने लिखा

[ १३७ ]



है कि—“उस के गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है ? उस की बढ़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती । जिसे बखानते-बखानते वेद भी चुप हो रहे, मन की भी सामर्थ्य लँगड़ी पड़ गई, और जिस के तेज से ही चंद्र और सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की जीब की सामर्थ्य ही कहाँ ? जब कि शेष भी अपनी हज़ार जिह्वाओं से उसे वर्णन करने को निकला, तब वह भी विचारा थक गया । उस की जिह्वाएँ एक-एक की दो-दो होगईं, पर फिर भी गुणों का वर्णन न कर सकीं । अंत में वह लज्जित हो कर भगवान् की शय्या बन गया । फिर सामान्य जीब की क्या कथा ?”

श्रीशंकराचार्य जी का पूर्ण-द्वैत तथा मायावाद कुछ सीमा तक आप मानते थे, आपने नहीं । उदाहरणार्थ जब आप ऐसा कहते हैं कि “मिथी का डला और पिंसी शकर इन में सिर्फ़ नाम का फेर है । दोनों की मिठास देखी जाय तो कुछ भेद नहीं । पैर, हाथ, नाक, सिर इत्यादि स्थानों के अलंकारों में नाम का ही भेद है । पर गलाने के बाद सब सोना एक-सा ही है । स्वप्न में जो ‘हानि, लाभ, जीवन, मरण,’ इत्यादि ज्ञान होते हैं, वे तब तक ही सच जान पड़ते हैं, जब तक निद्रा का प्रभाव शरीर पर रहता है । पर जागने पर देखा जाय तो दोनों भ्रूट हैं । इसी प्रकार, हे पांडुरंग, तुम में और हम में क्या भेद है ? तुम्हीं ने जगत् को उत्पन्न किया है, और इसी के कारण मैं और मेरा ये दोनों भाव पैदा हुए हैं ।” यहाँ पर पहले दो उदाहरण परिणामवाद के हैं, जिसे शंकराचार्य नहीं मानते, पर तीसरा स्वप्न-दशा का उदाहरण विवर्तवाद का है जो आचार्य जी के मत से पूर्णतया मिलता है । इसी तरह, जब आप कहते हैं कि “पानी में नमक मिला दो, वहाँ क्या बाक्री रहेगा ? आग और कपूर मिलाए जावें तो वहाँ कौन-सी काली चीज़ बाक्री रह सकती है ? तुकाराम की और तुम्हारी, हे नाथ, एक ही ज्योति थी । जब मैं आनंद से तुम से एक रूप होता हूँ तो मैं पूर्णतया तुम में स्वयं के भूल जाता हूँ ।” यहाँ पर अद्वैत-सा मालूम होता है । पर यह आचार्य जी का पूर्णाद्वैत नहीं है । ‘देह-भान भूल जाने पर जो समाधि-वृत्ति मनुष्य को किसी काम में लगने से प्राप्त होती है, उसी का यह वर्णन है ।’ तुकाराम ऐसे भगवद्भक्त तत्वज्ञान का अभ्यास शास्त्रदृष्टि से नहीं करते हैं । वे जब ईश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं जहाँ ‘मैं भक्त और तुम देव’ का भाव अशक्य होता है, ऐसे तत्वज्ञान से उन्हें प्रेम ही नहीं रह सकता ।

भक्ति-रहित ज्ञान, अद्वैत-ज्ञान पर आप ने खूब ही फटकार दिखाई है । आप का मत है कि “जो भक्ति-रहित सूखे ज्ञान का विवरण करता है, उस के शब्द भी न सुनने चाहिए । यदि कोई भक्ति-भाव को छोड़ केवल अद्वैत को ही समझता है तो समझनेवाला, वक्ता तथा समझनेवाला भोता दोनों दुःख के ही अधिकारी होते हैं । ‘अहं ब्रह्म’ ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा कहने हुए भी जो अपनी उपजीविका कर अपने पिंड का पोषण करता है, उस बकवाद करनेवाले से न बोलना ही ठीक है । ईश्वर को छोड़ जो निर्लज्ज पुरुष पाखंड-मत का प्रतिपादन करता है, उस का सज्जनों के समाज में काला मुत्त होता है । ईश्वर और भक्तों में जो संबंध है उसे जो तोड़ डालता है, उस से तो कुत्ते का मांस खानेवाला चांडाल भी अच्छा है ।” यहाँ पर भक्ति को न माननेवाले अद्वैत ज्ञान की खूब ही निंदा है । इस

प्रकार का अद्वैत ज्ञान आप को कभी नहीं भाता। आप कहते हैं—“मेरे लिए अद्वैत ज्ञान में समाधान नहीं है। मुझे तो तेरे चरखों की सेवा ही माती है। इस लिए योग्य समझ कर तु मुझे यही दान दे कि मुझे सर्वदा तेरा नाम और तेरे गुणों का कीर्तन ही प्यारा रहे। देव और भक्त का भाव अत्युच्च आनंद का साधन है। इस लिए मुझे अपने से भिन्न ही रख कर उस आनंद का आस्वाद लेने दे। यह सब जो कुछ दिख रहा है, सब तेरा ही है। किसी रोज तो मुझ पर यह प्रसाद हो।” यहाँ तत्वज्ञान से विरोध करते हुए भी आपने मनेगत्त ईश्वर-भक्ति के आनंद की शरणा ली है। अपने हृदय की भाषनाओं को तुकाराम देते सत्यरूप सर्वदा ही अधिक मान देते हैं।

मायावाद को मानते हुए भी आप का मत था कि केवल ज्ञान से माया दूर नहीं हो सकती; ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है। आप कहते हैं—“संसार मूठ है और माया से भरा है, यह समझ कर भी मुझे विवेक नहीं होता। मुझे फिर भी यह बाजीगरी या नज़रबंदी सच ही मालूम होती है। विचार करता हूँ तो यहाँ कुछ भी दिसाई नहीं देता, पर मुझे दुःख तो इस बात का है कि इस से छुटकारा भी नहीं होता और छुटकारे का कोई उपाय भी नहीं दीखता। आगे मेरा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। इस लिए, हे नाथ, आप के पैरों पर माथा रखता हूँ। अब जो कुछ आप को करना हो, मझे से कीजिए। मैंने तो एक आप को ही दृढ़ पकड़ लिया है। मुझे तो समझता ही नहीं कि मेरा हित किस में है। अब तो आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं।” एक और अंग में आप ने लिखा है—कि “जहाँ ब्रह्म तहाँ माया और जहाँ माया तहाँ ब्रह्म है। दोनों ऐसे संबद्ध हैं जैसे देह और उस की छाया। यदि इसे कोई दूर करना चाहे तो वह कभी अलग नहीं होती। पर जैसे नीचे लेटने पर छाया अंग से बिल्कुल एक रूप होती है, उसी प्रकार ईश्वर की पूर्णतया शरणा जाने से ही इस माया का लोप हो सकता है। अन्यथा नहीं। दूसरी कुछ भी सामर्थ्य वहाँ पर काम नहीं आती। विचारों के प्रयत्न तो यहाँ निष्फल ही होते हैं। मनुष्य जितना ऊँचा होता है उतनी ही यह माया बढ़ती जाती है, और वह जितना नम्र होता है, उतनी ही वह भी कम होती जाती है।” यस, इसी मनःस्थिति का नाम शरणागति है।

तुकाराम जी के मत से भक्ति के लिए कर्म तथा ज्ञान दोनों की आवश्यकता थोड़ी-थोड़ी अवश्य है। पर इन कर्म तथा ज्ञान शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। ‘कर्म’ शब्द से यह-यागादि वेदविदित कर्म का लक्ष्य नहीं है पर कर्तव्यपालन, ईश्वर-सेवन, एकादशी-प्रतोपवास, पंढरपुर की वारी और दान ये कर्म विहित हैं। परंतु ये सब कर्म अनासक्ति-पूर्वक अर्थात् उन के फल की इच्छा न रखते हुए करने चाहिए। इन कर्मों के आचरण से चित्त-शुद्धि होती है। कर्तव्य-पालन के विषय में आप कहते हैं—“स्वामि-कार्य, गुह भक्ति, विशाहा-पालन, पति-सेवा इत्यादि भिन्न-भिन्न कर्तव्यों का पालन यही विष्णु-पूजन है। सत्य-वचन और पर-दुःख से दुःखित होना बड़े महत्त्व का है, और भक्ता-पूर्वक प्रयत्न कर के उस से इच्छल-प्राप्ति कर लेना, यही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है।” इन कर्मों से चित्त-शुद्धि होने के बाद मनुष्य को ज्ञान-प्राप्ति होती है। ‘ज्ञान’ शब्द का अर्थ श्रीतुकाराम जी के मत

से अपने को पहचानना, अर्थात् जीव-सृष्टि में और जड़-सृष्टि में जो वैतन्य खोल रहा है वही अपने देह में है, इस बात को पहचानना है। अनासक्त कर्म और जीवशिव तत्व-ज्ञान के बाद मनुष्य के चित्त में भगवद्भक्ति उत्पन्न होती है। इस भक्ति का प्रधान लक्ष्य शरणा-गति है। इस मनःस्थिति के लिए आत्म-समर्पण की अत्यंत आवश्यकता है। 'मेरे किङ्क कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। वह अनाथों का नाथ और पतितों का पावन है। वही कैसे भी पापी का उद्धार कर सकता है। संसार में सुख नहीं पर दुःख ही दुःख भरे हुए हैं। इन दुःखों से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग ईश्वर पर भार डाल उस की शरण जाना है।' इसी शरणागति में सुख है। 'ईश्वर मेरा उद्धार करने-वाला है' यह दृढ़ भ्रमा ही भक्तों को सब प्रकार की भीतियों से निर्भय कर देती है। अर्थात् भक्त को ईश्वर की प्रार्थना करने के सिवाय और कुछ काम नहीं रहता। ईश्वर का पूजन, उसी का स्मरण, उसी के गुणों का कीर्तन और उसी का दर्शन, भक्त का प्रधान कर्तव्य-कर्म हो जाता है। श्रीतुकाराम महाराज जी ने अनासक्त कर्म कैसे किए, तथा उन्हें ईश्वर-ज्ञान कैसे हुआ, इत्यादि बातें पूर्व परिच्छेदों में दिखलाई जा चुकी हैं। अब केवल ईश्वर-स्वरूप का ज्ञान होने पर आप ने नाम-स्मरण कीर्तन तथा पंढरी की वारी के विषय में जो कुछ लिखा है, उसे ही देखना है।

महाराष्ट्र के भागवत-धर्म का कार्य पूर्व-परिच्छेदों में दिया ही है। इस धर्म का प्रसार होने के पूर्व ईश्वरोपासना का कार्य ब्राह्मणादि लोगों तथा संस्कृत-भाषा के द्वारा ही होता था। शानेश्वर तथा एकनाथ प्रभृति संतों ने भगवद्गीता, रामायण तथा भागवत इत्यादि ग्रंथों पर प्राकृत-भाषा में टीका लिख कर संस्कृत-भाषा न जाननेवाले लोगों के लिए आत्म-ज्ञान का मार्ग खोल दिया था। परंतु फिर भी इन ग्रंथों द्वारा शिक्षित लोगों की ही ज्ञान-लालसा तथा मुक्ति-पिपासा शांत हो सकती थी। अशिक्षित कृषकों से सामान्य जनो के लिए ये ग्रंथ भी दुर्बोध ही थे। इन की काव्य-पूर्ण भाषा, उन में प्रतिपादित वेदांतादि शास्त्रों के सिद्धांत, इन लोगों की ग्रहण-शक्ति के बाहर ही थे। इन में नामदेव प्रभृति भक्तों के भक्तिरस में सने हुए चुटकुले अमंग ही अधिक प्रिय थे। श्रवण, कीर्तन, नाम-स्मरण इत्यादि नव-विधि भक्ति में नाम-स्मरण का भी एक प्रकार था। परंतु इस नाम-मंत्र का भी प्रायः किसी गुरु द्वारा ही उपदेश दिया जाता था। ये गुरु प्रायः 'वर्षानां ब्राह्मणो गुरुः' वचनानुसार प्रायः ब्राह्मण-जाति के ही रहते थे। इस लिए संस्कृतज्ञ की दृष्टि से यद्यपि ब्राह्मणों का महत्व कम हुआ तथापि इस गुरुत्व की दृष्टि से बढ़ा ही रहा था। श्रीतुकाराम महाराज के उपदेश का परिणाम यह हुआ कि इस 'गुरुधर्म' के बंधन से सामान्य लोग छूटने लगे। नामधारी गुरु ध्रुव पर आप ने खूब ही फटकारें लगाई हैं। यहाँ तक कहने को कम नहीं किया कि "गुरु-गुरु कह कर अपने चारों ओर शिष्यों का भार जमानेवाले लोग 'गुरुगुरु' करनेवाले कुत्तों से हैं। फर्क यही है कि इन के चार पैर और पूँछ नहीं हैं। पर-स्त्री और मद्यपान के वाँट का सेवन करते-करते ये लोग नरक में जाने के लिए दत्त-चित्त हैं।"

श्रीतुकाराम महाराज ने नाम-स्मरण की मीमांसा बड़ी अच्छी रीति से की है।

आप का कथन है कि यदि परमात्मा निर्गुण निराकार है और यदि माया नाम रूपात्मक है, तो ईश्वर का स्मरण किसी नामरूप से क्यों न हो, वह मायाबद्धादित ही है। अर्थात् इस नामरूप को ऐसा महत्व नहीं, जिस के लिए गुण की आवश्यकता हो। और यदि हो भी तो माया के-से झूठ-मूठ स्वप्न में भी वह मिल सकता है। उस के लिए किसी ढोंगी गुण के पास जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के नामरूपों में से किसी रूप में या किसी नाम से उस का चिंतन या स्मरण हो सकता है। नामरूप की आवश्यकता केवल चित्त की एकाग्रता करने के लिए आवश्यक है। तीर मारने के लिए जिस प्रकार किसी लक्ष्य को सामने रख चाँदमारी का अभ्यास किया जा सकता है, उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता के लिए कोई भी ईश्वर नाम पर्याप्त हो सकता है। राम, कृष्ण, हरि, केशव इत्यादि संस्कृत नामों से से ले कर विठ्ठल, पांडुरंग इत्यादि प्राकृत नामों तक का कोई भी नाम काम दे सकता है। केवल उस नाम की आड़ में सर्व-शक्तिमान् भक्तवत्सल ईश्वर की कल्पना आवश्यक है। जब तक यह कल्पना और शरणागति की मनःस्थिति विद्यमान है तब तक चाहे जिस नाम का स्मरण करो, फल एक-सा ही है। इसी कारण नाम-स्मरण का माहात्म्य कहते हुए श्रीतुकाराम महाराज किसी एक नाम पर जोर नहीं देते। स्वाभाविक रीति से विठ्ठल नाम उन के मुख से अधिक निकलता है, पर दूसरे नामों से उन का विरोध नहीं है।

नाम-स्मरण की भक्ति के श्रीतुकाराम जी जिन कारणों से महत्व देते थे या यों कहना अधिक ठीक होगा कि जिन कारणों को दिखा कर आप लोगों को नाम-स्मरण में प्रवृत्त कराते थे, निम्न प्रकार के हैं। आप ने इस बात का स्वयं अनुभव कर लिया था कि नाम-स्मरण से क्या लाभ होता है। एकाग्र चित्त करने के लिए इंद्रियों का स्थिर करना होता है। वाग् या जिह्वा शनैर्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय है। और इसे वश में रखने के लिए नाम-स्मरण से उत्तम साधन कोई नहीं है। भिन्न-भिन्न रसों का आस्वाद लेने में तथा दूसरों की निंदा करने में चटुल इस जीम को इस नामरस का अमृत-तुल्य आस्वाद चला कर एक-सा 'राम-राम' रटने में प्रवृत्त रखना ही इस पर विजय पाने का सुलभ साधन है। इस अनुभव के आधार पर स्थित होने के कारण आप का उपदेश बड़ा प्रभाव डालता था। लोग इस बात को जान चुके थे कि यह उपदेश केवल ज़बान उठा कर की हुई बक-वाद नहीं है, पर 'पहले कर पीछे कह' वाले सन्नक का स्वगत अनुभव है। और इसी लिए उस उपदेश को सुन कर लोग केवल मुग्ध ही नहीं होते थे पर स्वयं उसी प्रकार आचरण करने लगते थे। नाम-स्मरण की श्रेष्ठता के विषय में जो कारण श्रीतुकाराम जी महाराज ने दिए हैं उन में प्रथम है सुलभता। ईश्वर-प्राप्ति के अनेक साधन हैं, परंतु वे सब बड़े-कठिन हैं। यथा योग, वैराग्य, कर्म, भक्ति इत्यादि। पर योग के लिए चंचल मन को रोकना आवश्यक है जो कि बड़ा कठिन काम है। वैराग्य के लिए वासनाओं का त्याग करना चाहिए, जो असंभवप्राय ही है। देह-बुद्धि जब तक है तब तक कर्म-फल की इच्छा छूटती नहीं अर्थात् अनासक्त बुद्धि से कर्म होता नहीं। भक्ति भी फलवती करने के लिए काम-शोभादिकों का उपान शांत करना जरूरी बात है। इस प्रकार सब साधनों में कुछ न कुछ अक्षय लगे हुए हैं, जिन के कारण

सामान्य जनों को ये साधन असाध्य हो जाते हैं। और इसी लिए भगवन्नाम-स्मरण ही सर्व सुलभ साधन है। श्रीतुकाराम जी महाराज कहते हैं—“युक्ताहार अर्थात् कोड़ा खाना और वह भी सात्विक—ऐसे साधनों की जरूरत नहीं। इस कलियुग में नारायण ने ईश्वर प्राप्ति का बड़ा सुलभ मार्ग दिखलाया है यह कि नाम-स्मरण करते रहे। फिर अन्य व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार-त्याग की जरूरत नहीं, ‘विभूति रमा कर’ दंड धारण करना नहीं, वन में जाना नहीं, कुछ नहीं। केवल नाम-स्मरण यही सुलभ उपाय है। दूसरे सब झूठ ही मालूम पड़ते हैं। दूसरा कारण नाम-स्मरण की भेद्यता का है अधिकार का अभाव। नाम-स्मरण करने का अधिकार कुछ विवक्षित विशिष्ट लोगों को ही नहीं है, जैसा कि वेद-पठन का अधिकार केवल द्विजों को ही है। वेदों का अर्थ पाठकों को आता नहीं और द्विजेतर लोगों को पाठ का भी अधिकार नहीं। नाम-स्मरण के लिए सब लोगों को अधिकार है। यहाँ न कुछ विधि है, न निषेध। स्त्री, शूद्र, ब्राह्मण सबों के लिए यह साधन एक-सा ही है। यहाँ पक्षपात किसी प्रकार का नहीं है। तीसरा कारण यह है कि नाम-स्मरण के अतिरिक्त अन्य साधन जब चाहे तब नहीं कर सकते। पर इस साधन के लिए समय की मर्यादा नहीं। यही एक ऐसा साधन है जिस का अवलंब सदा-सर्वदा कर सकते हैं। जाते-आते, उठते-बैठते, काम करते, देते-लेते, खाते समय और तो क्या रात्रि को शय्या पर सब प्रकार का सुखानुभव करते हुए भी नाम-स्मरण कर सकते हैं। अतिम कारण है इस साधन की निर्भयता। अन्य साधनों में यदि कुछ भूल हो जाय तो कुछ न कुछ अनर्थ का डर रहता है। यथा स्वर-अंश हो जाय तो वेदपाठ में अनर्थ होता है। बिचारा इंद्र-शत्रु केवल अशुद्ध स्वरोच्चार में मारा गया। यंत्र-तंत्रों में भूल हो, तो साधक पागल बन जावे। पर इस साधन में किसी बात का डर नहीं। अन्य साधनों के उपदेशकों ने इस प्रकार जो-जो बातें अपने साधन की महत्ता दिखलाने के लिए प्रचलित की थीं, वे ही बातें नाम-स्मरण को सुलभ बनते हुए श्रीतुकाराम जी ने दोष-दृष्टि से दिखलाई और नाम-स्मरण की भेद्यता, सुलभता, सर्वाधिकार, सर्वदा आचरणीयता और निर्भयता इन बातों में प्रस्थापित की।

श्रीतुकाराम जी महाराज नाम-स्मरण का उपदेश करते हुए पुराण-ग्रंथों का भरपूर आधार लेते थे। अजामिल, जिस ने कि अपने लड़के का नाम नारायण रक्खा था और उसी को बुलाते हुए ‘नारायण, नारायण’ कहकर जिस का उद्धार हुआ था; गणिका जिस ने एक तोता पाला था और उसे सिखाते हुए ‘राम राम, कृष्ण कृष्ण’ कहते हुए जो मुक्त हो गई थी, वाल्मीकि, ध्रुव प्रह्लाद, उपमन्यु इत्यादि अनेक कथाओं के आधार पर तुकाराम जी हमेशा नाम-साहाय्य स्थापित करते। एक ओर आप ऐसा प्रश्न करते कि—“सज्जनों, क्षमा कीजिए मेरी धृष्टता को। पर यह तो बताइए कि नाम ले कर किस मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ ? आप यदि किसी ऐसे मनुष्य को जानते हों तो मुझे बतला दीजिए।” दूसरी ओर बड़े ठाठ के साथ कह देते थे कि—“वेद ने अनंत बातें कहीं पर एक ही अर्थ दिखलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर के यही निश्चित किया। सब पुराणों में एक ही सिद्धांत प्रतिपादित किया। वह है—विठोबा की शरण जाओ और अपनी निष्ठा के अनुसार

उस का नाम लो।" नाम-स्मरण की निंदा करनेवालों को आप ने बड़े ही कठोर शब्दों में फटकारा है। आप कहते हैं "जो नाम के दोष दिखलाता है, उस का दर्शन भी मैं नहीं चाहता। उस के शब्द तो मुझे विष से लगते हैं। उस के शब्दों में निंदा की बू आती है और इसी लिए ऐसी अमंगल वाणी कानों से सुनी भी नहीं जा सकती। उस की विधा से लाभ ही क्या ? न मालूम किस पुराण के आधार पर वह बोलता है। उस के मुख की आड़ क्या लगाऊँ या उस की जिह्वा बंद कैसे करूँ ? सज्जन तो जीते जी उस के पास न जावेंगे। मरने पर यमवृत्त ही उस की क्रिक करेंगे।" एक और अमंगल में तो इन नाम-निंदकों की निंदा करते हुए आप कह उठे कि, "इस नाम-निंदक से बोलने के कारण जो पाप लगेगा, उस की शुद्धि के लिए कोई साधन ही नहीं। कोई भी प्राथमिक उसे शुद्ध नहीं कर सकता। मुझे तो सौगंध है मेरे ईश्वर विह्वल की, जो मैं उस से बोलूँ या बात करूँ।" नाम की निंदा सुन कर आप की शक्ति का मंग हो जाता और आप के मुख से ऐसे कट्ट शब्द निकलते, जिन का कुछ ठिकाना नहीं। अपनी खुद की निंदा सहन करना आप के लिए कठिन न था, पर विह्वल-नाम की निंदा आप से कभी न सही जाती।

नाम-स्मरण पर आप की अटल भ्रमा थी। आप का दृढ़ विश्वास था कि "हरि कहने से ही मुक्ति मिलती है। हरि कहने से ही पापों का नाश होता है। हरि-स्मरण ही ने सब सुख मिलते हैं। हरि-स्मरण के कारण ही इस जन्म-मरण की यातायात से मनुष्य छूटता है। तपस्या, अनुष्ठान इत्यादि साधनों की नाम जपनेवाले को आवश्यकता नहीं। केवल हरि-हरि कहने से ही सब प्रकार के कार्य निद्व होते हैं, और सब प्रकार के बंधन छूट जाते हैं। यदि हरि का नाम लिया जाय, तो दूसरों की तो बात ही क्या, साक्षात् काल भी उस की शरण लेता है।" आप के मत से तो संसार में ऐसा कोई पाप ही न था, जो नाम-स्मरण करने के बाद बाकी बच सके। नाम-स्मरण की महिमा अपरंपर है। चित्त को एकाम्र कर नारायण-स्मरण करने से सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। जो समझता अत्यंत कठिन है, वह भी नाम-स्मरण से सुलभतया समझ में आ जाता है। अदृश्य बातें दृश्य होती हैं। जो बातें मुख में बोली नहीं जा सकती, अर्थात् वाणी से भी परे रहती हैं, उन का अनुभव आने के कारण वे भी बोलने योग्य हो जाती हैं, और जिन की भेंट परम दुर्लभ है, उस की भी भेंट हो जाती है। सार यह कि सब प्रकार के अलभ्य लाभ नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। और तो क्या केवल इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का तथा अग्रिम जन्मों में क्रियमाण कर्मों का सब बंध नष्ट हो जाता है, और भवरोग समूल दूर होता है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदैविक, तीनों प्रकार के ताप शांत होते हैं और माया दासी हो कर उस के पैरों पड़ती है। किंबहुना, सभी प्रकार के लाभ केवल नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। केवल दृढ़ भ्रमा और प्रेम मन में होना चाहिए। भ्रमा का प्रभाव बड़ा भारी है। तुकाराम जी के मत से यदि दृढ़ भ्रमा रहे तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ नाम-स्मरण से प्राप्त हों। फल जब तक उस के डंठल पर जमा रहता है, सभी तक उस के पकने की आशा रहती है। जैसे ही जब तक भ्रमा है, तब तक सब सिद्धियाँ प्राप्त होने की संभावना है। जिस मार्ग से जाना आरंभ किया उसी

मर्त्य से यदि इष्ट स्थल पर पहुँचना हो तो बीच में कुछ विघ्न न आने देना चाहिए। इन बीच के आघातों से ही सब प्रकार का नाश होता है। भ्रष्टा, प्रेम और नाम-स्मरण इन तीन बातों का समागम होने पर और क्या चाहिए ? फिर ईश्वर के बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं उन भक्तों को खोजते-खोजते उन के घर आ पहुँचता है।

नाम-स्मरण का साहाय्य बहुत है, पर इस में एक कमी यह है कि इस साधन का उपयोग एक-एक कर प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता है। इस लिए सब समाज का एक ही समय एक चित्त करने के हेतु भगवद्गुणों का संकीर्तन करना बहुत उपयुक्त साधन है। गुण-संकीर्तन करने के समय यदि वक्ता प्रेम से भगवद्गुणों का अनुवाद करता हो, तो सारा का सारा भोलागुण एकतान एकचित्त हो ईश्वरभक्ति में मग्न हो सकता है। एवं अनेक अज्ञानी जीवों के चित्त में भगवत्प्रेम एक ही समय पैदा करने के लिए कीर्तन की अपेक्षा अन्य सुलभ साधन नहीं। कीर्तन से नाम-स्मरण में और भी दृढ़ भ्रष्टा होती है। उदाहरणों-द्वारा भक्ति का प्रभाव मनःपटल पर अधिक दृढ़ता से जड़ता है, और कीर्तन के सार्वजनिक रंग में रँगने के पश्चात् मन एकांत में नाम-स्मरण करने का अधिक चाहता है। इसी कारण श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि यह कीर्तन का सार्वजनिक सुख स्वर्ग में भी प्राप्य नहीं है। देव भी इसी लिए यह चाहते हैं कि इस मृत्युलोक में हमें जन्म मिले। नारायण नाम-संकीर्तन कर और कीर्तन में अनंत गुण का गान कर जीवन्मुक्त हो जाना यहीं पर संभाव्य है। वैकुण्ठ के लोक इन कीर्तनकारों की राह देखते हैं, और यमलोक के निवासी इन से बहुत डरते हैं। कीर्तन में ईश्वर के सम्मुख प्रेमामृत की धारा बहती है। तुकाराम जी ने हरिकथा को ऊर्ध्ववाहिनी कहा है, अर्थात् यहाँ की प्रेमधारा नीचे से ऊपर को बहती है। आरंभ में लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर धीरे-धीरे वह उन के मनोविकारों को अपने वश करती है और शनैः शनैः सब इन्द्रियों को ईश्वर-विषय में आसक्त कर मनुष्य को उबकेटि पर पहुँचाती है और अंत में उसे मुक्त करती है। इसी कारण श्रीशंकर जी हमेशा नाम गुण-गान करते हैं। ऐसे कीर्तन की महिमा वर्णन करना साक्षात् ईश्वर के लिए भी अशक्य है।

कीर्तन का महत्व तुकाराम जी ने यों बखाना है। “कीर्तन में ईश्वर का ध्यान होता है। अन्य विषयों में आसक्त मन एक-दम ईश्वर की ओर खींचा जाता है। कीर्तन सब साधनों का अलंकार है, और इस से अधिक पुण्य दुनिया में कहीं नहीं है। भावभक्ति से कीर्तन कर मनुष्य स्वयं तो तरता ही है पर अन्य जनों को भी तारता है। ‘नारायण’ ‘नारायण’ सुलभ मंत्र का उच्चारण लोगों के सब दोषों को जला कर खाक कर देता है। हरिकथा दुःख-हरण करती है, जनों को मुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती है, दोषी लोगों का उद्धार करती है और जड़-मूढ़ लोगों को समाधि-स्थिति का अनुभव दिलाती है। कीर्तन में तपस्या होती है, ध्यान-धारणा सघटी है और अमृत-गान का आनंद मिलता है। कीर्तन में मनो का जप होता है और कीर्तन के समय कलिकाल काप उठता है। लोगों की तो कथा ही क्या, हरिकथा में साक्षात् परमेश्वर भी मुग्ध हो कर समाधिगमन वही खड़ा हो जाता है। कथा एक प्रकार का ‘त्रिवेणी-संगम’ है। यहाँ पर,

देव, भक्त और नाम तीनों का समागम होता है। वहाँ के शेरवा-रजःकणों का बंदन करना सब से उत्तम है। कथा से दोषों के पहाड़ के पहाड़ जलने लगते हैं और इस पवित्र हरिकथा का भवण करनेवाले नारी-नर शुद्ध हो जाते हैं। सब के सब तीर्थ वहाँ पर स्वयं पवित्र होने के लिए आ पहुँचते हैं और सारे पर्वकाल इन वैष्णवों के पैरों पड़ने के लिए यहाँ जमा होते हैं। इस की महिमा अनुपम है, किसी की भी उपमा इसे नहीं दी जा सकती। इस सुख का वर्णन करने में ब्रह्म-देव भी असमर्थ है।

श्रीलुकाराम महाराज के सब प्रयत्न सामान्य-जनों का उद्धार करने के विषय में थे। नाम-स्मरण से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है और कीर्तन से समाज का। पर केवल छोटे-से समाज के उद्धार से आप के जी के संतोष न था। आप चाहते थे कि गाँव के गाँव, प्रांत के प्रांत, देश का देश, ऊँचा उठे। इस के लिए, केवल कीर्तन पर्याप्त न था। इन्हें भजन-कीर्तन करनेवाले सब के सब समाजों का एक ही सूत्र में प्रथित करना था और इस भक्ति-मार्ग के विरोधक—क्या वेद-पाठक पंडित ब्राह्मण और क्या वेद-निन्दक मूर्ति-भंजक मुसलमान—लोगों को अपने मार्ग का बल दिललाना था। इस प्रधान हेतु से आप पंदरपुर की वारी की महत्ता समझते थे। सांघिक प्रार्थना का सामर्थ्य आप खूब जानते थे। आज भी किसी बड़ी जुम्मा मसजिद में हमारे हजारों मुसलमान भाइयों को एक साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख या योरप के किसी बड़े गिरजाघर में हजारों ख्रिस्त बांधवों को एक साथ प्रार्थना करते हुए देख मन में जो गंभीरता का भाव प्रकट होता है, वह अवर्यानीय है। संव-शक्ति का प्रभाव बड़ा भारी है। जब एक दो नहीं, दस-बीस नहीं, सौ-दो सौ नहीं, हजारों लोग एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं, तो उस बात का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता और हठान् मन में वही प्रेरणा पैदा होती है। उस विषय में किसी भी अभद्रा रखनेवाला हो, उस का भी चित्त उन्हीं भावनाओं से उमड़ने लगता है और वह स्वयं अपनी निज की भावनाओं को भूल उन्हीं नई भावनाओं के बरा हो जाता है। योरप के किसी बड़े 'बालरूम' नृत्यस्थल के आस-पास मज़ा देखते हुए हमारे भारतीय भाइयों को कई बार इस बात का अनुभव हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक उड़ाते हुए भी जब बाजे बजने लगते हैं और हजारों युष्क-युवतियाँ गले में हाथ डाले एक ही ताल पर नाचने लगती हैं, तब उसी नाचने के मज़ाक को भूल इन भारतीय भाइयों के भी पैर उसी ताल पर हिलने लगते हैं, और खड़े-खड़े ही इन का नाच शुरु हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन किसी अंग्रेज़ी पढ़े हुए फैशननेबल बाबू साहब को श्रीकाशी-विश्वनाथ जी की दर्शन-यात्रा को ले जाइए। ज्ञानवापी के पास पहुँचने के समय तक वे अपने कपड़ों की इस्तरी बचाने के ही क्रिक में रहते हैं। पर ज्यों-ज्यों भोल्ले-भाल्ले भाविक भक्तों की मीढ़ में आप मिलते जाते हैं, खुद के पैरों से चलना असंभव हो कर मीढ़ के हिलोरों के साथ ही कदम आगे-पीछे उठने लगते हैं, गंगा-जल का लोटा और बेल-फूल की पुष्पिया लिया हुआ दाहिना हाथ उठाए, हजारों शिवभक्तों की 'शंभो हर' की ललकारें कानों में गूँजने लगती हैं, हमारे बाबू साहब भी धीरे-धीरे अपने को भूलने लगते हैं, उन के हृदय में भी एक नई उमंग उमड़ती है, और अंत में वे स्वयं भी उसी 'शंभो हर' की गर्जना में शामिल



हो जाते हैं। पंढरपुर की वारी की भी ठीक यही बात है। असाढ़ और कार्तिक की राखनी और प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब हज़ारों ही नहीं, लाखों लोग पंढरपुर में एकत्रित होते हैं, जब जगह-जगह इन लोगों के भजन होते हैं, जब जिधर देखो उधर मृदंग और कौंक की आवाज़ सुनाई देती है, और जब ये सब के सब लोग 'विडल' 'विडल' कहते हुए नाचने लगते हैं, तब इस विडल शब्द का नाद केवल मनुष्यों के ही मन में नहीं, पर चरों के पत्थरों में भी गूँजने लगता है और अभाविक से अभाविक मनुष्य भी अपनी अभद्रा तथा नास्तिकता भूल कर स्वयं ही 'विडल' 'विडल' 'विडल' 'विडल' कह कर नाचने लगता है। सांखिक सामर्थ्य का यह प्रभाव ध्यान में रख कर ही श्रीतुकाराम महाराज ने पंढरी की वारी का तथा पंढरी-क्षेत्र का महात्म्य वर्णन किया है। पाठकों को भी पंढरी-माहात्म्य-विषयक अभंग इसी बात को ध्यान में रख कर पढ़ने चाहिए।

पंढरपुर की वारी का एक सब से बड़ा लाभ तुकाराम जी को दिखाई देता था। वह था सब-इंद्रियों को एक-सा आसक्त रखना। वारी को निकलने के समय से ही विडल नाम की गर्जना करने के कारण और मार्ग भर विडल का ही भजन करने के कारण जिहा तो हरि नाम में आसक्त रहती ही है। एक ही नहीं सभी के सभी लोगों को विडल नामोच्चार करने के कारण कानों को भी निवाय विडल नाम के और कुछ सुनाई नहीं देता है। हाथ, कौंक या मृदंग बजाने में तत्पर रहते हैं। पंढरपुर पाम आने के समय से ही नेत्र भी विडल मंदिर का शिखर देखने में तथा वहाँ के सब स्थानों का दर्शन करने में तल्लीन रहते हैं। पैर तो एक-से श्रीविडल मंदिर की ओर बढ़ते ही रहते हैं। सभी तरफ़ श्रीविडल के लिए तैयार किए हुए तुलसी के तथा फूलों के हारों की सुगंध आने के कारण प्रायेंद्रिय भी तृप्त होती है। संतो की भेंट लेने में तथा उन से मिलने में स्वर्श-सुल का भी आनंद मिलता है। एवं सब कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय एक ही ईश्वर-भक्ति में लयलीन रहने पर यदि चित्त भी और कहीं न जा कर परमेश्वर-चित्तन में ही आसक्त हो तो आश्चर्य ही क्या ? इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर श्रीतुकाराम जी कहते हैं "चलो—पंढरपुर का जावँ और रक्षिमणी-पर श्रीविडल का दर्शन करें। वहाँ पर आँखें तथा कान तृप्त होंगे और मन को समाधान प्राप्त होगा। संत-महंतों से भेंट होगी और चंद्रभागा के देतीले मैदान पर नाचने का आनंद आवेगा। यह क्षेत्र सब तीर्थों का आगार और सब सुखों का भंडार है। मैं क्लम खा कर कहता हूँ कि पंढरपुर जाने के बाद जन्म-मरण के फेर में फँसने का डर ही नहीं है।"

सब इंद्रियों को एकदम आसक्त रखने के कारण ही पंढरपुर मुक्ति पाने का अत्यंत सुलभ साधन था। मुक्ति क्या चीज़ है ? जहाँ पर सब सांसारिक दुःखों को भूल कर चित्त एक ही ईश्वर-विषय में लीन होता है, उसी अवस्था का नाम मुक्ति है। यह अवस्था सांखिक मनोबल से तथा इंद्रियों एक ही विषय में विलीन करने से सहज में प्राप्त होती है। इसी लिए श्रीतुकाराम जी ने कहा है, "हम ने तो वाखी की भीत खड़ी कर परजस का कैद कर लिया है। अब किसी भ्रम की आवश्यकता नहीं। नाम-रूप की गाड़ी बाँध कर एक-एक को अलग फेंक दिया है। अब रास्ते में ठहरने का कोई कारण नहीं। उठार तो अस्वतः सुलभता से हमारे हाथ आ गया है। एक पंढरपुर की वारी करने के बाद फिर भिन्न-भिन्न

कर्मों के आंचरण की कुछ जरूरत ही नहीं है। कोई तपस्या करे या कोई धूनी रमावे। किसी को आत्म-स्थिति प्राप्त हो या कोई ज्ञान से मिलनेवाली मुक्ति का श्रेष्ठ कहे। सबके हरिदास इन सब दंगों की निंदा ही करते हैं। वे इन मार्गों का अवलंब कदापि न करेंगे। सब को छोड़ पंढरपुर के आंगन में प्रेम से नाचना ही वे पसंद करेंगे। क्योंकि अगर लगे हाथ कहीं अभिमान भाग जाता हो तो वह पंढरपुर के विषय अन्याय कहीं नहीं। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी यहाँ आकर पसीज उठता है। उस के भी नेत्रों से प्रेमाश्रु-धाराएँ बहती हैं, और शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ के 'गोपालशाला' के प्रसाद में भेदभाव हूँदने का भी नहीं बचता। पंढरपुर आने पर फिर न तो कोई इतिहास-पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, न न्यायवेदांतादि शास्त्रों के चटपटादि शब्दों के खटपट की। एक हाथ में काँक और एक हाथ में पताका लो और भीविहल के गुण गाते हुए पंढरपुर को जाओ। बड़े भाग्य से इस मनुष्य-वेद की प्राप्ति हुई है। एक बार पंढरपुराधीश्वर विहल का दर्शन करो और चंद्रभागा तीर पर प्रेम से नाचो। फिर देखो तो सही जन्म भर की पीड़ा कैसे नष्ट होती है। जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सब बूझ हरा-भरा होता है उसी प्रकार पंढरी की वारी करने से बाक़ी सब साधन अनायास ही सधते हैं। सब साधनों के इस राजा को वश में करने के बाद फिर उस की प्रजा तो बिना कष्ट किए ही अपने वश होती है। इस सिद्ध अन्य साधनों का अवलंब न कर एक पंढरपुर की वारी करो और मुक्ति का प्राप्त कर लो।"

श्रीतुकाराम जी कभी-कभी बड़े प्रेम में आ कर व्याज-स्तुति की रीति से भी भीविहल का वर्णन करते हैं। आप कहते हैं "भाइयो, सँभलो। पंढरपुर का भूत बड़ा जबरदस्त है। आने-जानेवाले लोगों को यह पछाड़ता है। वहाँ कभी न जाओ। जो एक बार वहाँ गया, वह फिर वहाँ से वापस न आया। तुकाराम स्वयं एक बार जो पंढरपुर को गया है, वह अब वहाँ से लौट ही नहीं सकता।" और एकाध नमूना देखिए। तुकाराम कहते हैं—“भाइयो चलो। इस पंढरपुर में एक बड़ा बदमाश आया है। उस के हाथों में प्रेमपाश है। सब बुनिया को वह फँसाता है और अपने पीछे खींचता ले जाता है। हाथ कमर पर रख देखते-देखते अपनी नज़र से लोगों की सुख-दुःख भुला देता है। वैकुंठ से पंढरपुर को यह इसी लिए आया है। इस चोर को पुंडलीक ने अपने यहाँ ठहरने को स्थान दिया है। आओ, हम सब चलें और इसे भलीभाँति पकड़ रखें।” यह हुई व्याजोक्ति की बात। सचमुच पंढरपुर की महिमा बखानते हुए आप इसे वैकुंठ से भी बढ़ कर बताते थे—“वैकुंठ तो केवल वैकुंठ ही है पर पंढरपुर है भू-वैकुंठ अर्थात् एक अक्षर से अधिक है। वैकुंठ की बड़ाई तभी तक है, जब तक पंढरी न देखी हो। पंढरपुर में तो मोक्ष सिद्धि घर-घर फेरी लगाती है। कथा-पुराण के समय एक-सा नामधेय होता है। स्त्रियाँ भी पीसतीं, कुर्तियाँ, घर के काम करतीं पांडुरंग के गीत गाती हैं। दुःख खोजता भी कोई पंढरपुर जावे तो उस के हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्वामी को ज्ञानी पुरुष से भी बढ़ कर भोला-भाला भक्त अधिक प्रिय है। यकावट या घबराहट के बदले यहाँ प्रेम मिलता है और नुकसान उठा कर लाभ पहुँचता है। सब भक्तों का विभक्ति-स्थान भीविहल खड़ा-खड़ा भक्तों को पुकार रहा है। हाथों में प्रेम का प्रसाद ले कर भक्तों के मुख में वह देता है और

कमरे बाँध कर इस भवसागर से उन्हें पार उतारता है।” ऐसे कृपासिंधु, दीनबंधु, सुल-  
विधान, भगवान् पंढरपुराधीश्वर पांडुरंग की यात्रा, उस के गुणों का संकीर्त्तन और उसी  
का नाम-स्मरण करते-करते श्रीतुकाराम महाराज ने अपना जीवन व्यतीत किया और स्वयं  
कृतार्थ हो अपने उपदेशामृत से लाखों लोगों को कृतार्थ किया। आज भी उसी अभंगबाबी  
का रसभरा अमृतपान कर लोग कृतार्थ होते हैं और आगे भी होते रहेंगे।

---

## पंचदश परिच्छेद

.....

### तुकाराम जी की हिंदी कविता

मराठी भाषा बोलनेवाले तथा लिखनेवाले सभी कवियों ने प्रायः हिंदी में थोड़ी-बहुत रचना कर हिंदी को अपनाया है। सब से पहले जिस स्त्री-कवि ने हिंदी कविता की, या यों कहना अधिक उचित होगा कि जिस स्त्री-कवि की सब से प्राचीन कविता उपलब्ध है, वह महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर की बहिन मुक्ताबाई है। निवृत्ति, ज्ञानेश्वर प्रभृति भाई जो महाराष्ट्र भागवत-संप्रदाय के आद्य-प्रवर्तक समझे जाते हैं, वे तो महात्मा गोरखनाथ की ही शिष्य-परंपरा के थे। वे हिंदी से परिचित थे और उन की रची थोड़ी-बहुत हिंदी कविता पाई भी जाती है। नामदेव ने तो हिंदी में अनेक पद बनाए, जिन में से कई सिक्ख लोगों के ग्रंथ-साहस में समाविष्ट हैं। नामदेव जी के समकालीन अनेक महाराष्ट्र संत थे। उन में से हर एक की थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। नामदेव जी के पश्चात् तो मुसलमानों का महाराष्ट्र में खूब ही दौर-दौरा रहा। अर्थात् हिंदी से लोग अभिकाधिक परिचित होते रहे। मुसलमानों की क्रांज में हिंदी बोलनेवाले ही प्रायः रहते थे, जिस के कारण जहाँ-जहाँ वे क्रांजें जातीं और उन का लश्कर महीनों पड़ा रहता, वहाँ-वहाँ हिंदुस्तानी भाषा की भी बोल-चाल अधिक प्रमाण में होती। इस के बाद तो मुसलमानों के राज्य ही महाराष्ट्र में थे। अर्थात् हिंदुस्तानी को राजभाषा का ही महत्व प्राप्त था। इन सब कारणों से हर एक कवि जो यह चाहता था कि 'मेरी कविता महाराष्ट्र के बाहर भी समझी जावे और महाराष्ट्र के भी सभी लोग समझें', वह हिंदी में अवश्य कुछ न कुछ लिखता। भीतुकाराम जी भी

इस सामान्य नियम के अपवाद न थे। उन की भी थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। आप की कविता पर सामान्य विचार गत परिच्छेदों में हो चुका है। पर जब तक कि आप की हिंदी कविता का विचार न किया जावे, तब तक वह विचार अधूरा ही रह जावेगा। फिर भी हिंदी-भाषा में लिखे हुए इस ग्रंथ में तो वह विचार न करना अपरिहार्य ही था। इसी हेतु इस अंतिम परिच्छेद में भीतुकाराम महाराज की हिंदी कविता पर विचार करना है।

सब से पहले भीतुकाराम जी ने कृष्ण-लीला पर अमंग रचे। श्रीकृष्ण जी के बाल-चरित्र में उन का गोपालों के साथ खेलना तथा गोपियों के साथ क्रीड़ा करना प्रसिद्ध ही है। सभी भगवद्भक्त और विशेषतः भागवत-संप्रदाय के भगवद्भक्त गोपियों के प्रेम की स्तुति करते हैं। महाराष्ट्र भागवत संतों की भी बहुत-सी कविता इस गोपी प्रेम से भरी है। यह सब कविता बारकरी-परंपरा में 'गवालन' नाम से प्रसिद्ध है। हर एक महाराष्ट्र संत की 'गवालन' शीर्षक कविता भजनी लोग गाया करते हैं। इस कविता में प्रायः गोपियों की उक्तियाँ रहती हैं। तुकाराम जी के 'गवालन' शीर्षक तीन अमंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं।—

( १ )

मैं भूली घर जानी बाट ।  
 गोरस बेचन आये हाट ॥ १ ॥  
 कान्हा रे मनमोहन लाल ।  
 सबही बिसरूँ देखें गोपाल ॥ २ ॥  
 काहां पग डारूँ देख आनेरा ।  
 देखें तो सब वोहिन वेग ॥ ३ ॥  
 तू तो धकित भैर तुका ।  
 भागा रे सब मन का धोका ॥ ४ ॥

( २ )

हरि किन रहिया न जाए जिहिरा ।  
 कब की थाड़ी देखें राहा ॥ १ ॥  
 क्या मरे लाल कवन चुकी भई ।  
 क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥ २ ॥  
 कोई सखी हरि जावे बुलावन ।  
 बारहि डारूँ उस पर ये तन ॥ ३ ॥  
 तुका प्रभु कब देखें पाऊँ ।  
 पासी आऊँ फेर न जाऊँ ॥ ४ ॥

( ३ )

सलो नंद जी को बिकरो ।  
 लाज राखी लीन हमारो ॥ १ ॥

आगल आपो देव जी कान्हा ।

मैं घर छोड़ी आपे' न्हाना ॥ २ ॥

उनसुं कलना न खेतो भला ।

खसम अहंकार दादुला ॥ ३ ॥

तुका प्रभु परबल हरी ।

छपी आयें दु' जगाथी न्यारी ॥ ४ ॥

इन से भक्तितुकाराम महाराज की हिंदी की थोड़ी-बहुत कल्पना हो सकती है। इस हिंदी पर मराठी तथा गुजराती की छाप साफ-साफ नज़र आती है। घर जानी का अर्थ घर जानेवाली है। महाराष्ट्र में एक कहावत प्रचलित है—'मनमानी घरजानी,' जिस से यह शब्द-प्रचार लिया हुआ है। घाट शब्द मराठी है। इस का अर्थ है राह। तुकाराम जी की कविता में क्रियाओं के एकारांत रूप कई बार आते हैं। जैसे आयें, देखें' इत्यादि। कभी-कभी इन का अर्थ आथी हूँ, देखती हूँ होता है, तो कभी-कभी आऊँ, देखूँ इत्यादि अर्थों में भी ये रूप प्रयुक्त होते हैं। पहली गवालन की तीसरी कविता में जो 'अनेरा' शब्द है, वह 'अंधेरा' का अपभ्रष्ट रूप है। 'हिन' प्रत्यय तृतीया विभक्ति का शोक है और प्रायः ये, वो इत्यादि मूलरूपों में ही लगाया जाता है, 'हूँ' 'हों' की जगह अर्थात् उत्तम पुरुष एकवचनी सर्वनाम का रूप है और 'र' संबोधनार्थक है। कबीरदास जी का एक पद हिंदी भक्तों में प्रचलित है 'तेरा मेरा जियरा'। इसी से 'जियरा' शब्द ले कर उस का भूतरूप 'जिहिरा' प्रयुक्त किया है। दूसरी गवालन के अंत्य पद में 'पाऊँ' शब्द 'पाँव' का रूप है। पासी का अर्थ है पास। तीसरी गवालन पर गुजराती छाप साफ-साफ नज़र आती है। नरसी मेहता केसे गुजराती भक्त-कवियों के कवित्त महाराष्ट्र भर में प्रचलित थे जिन का यह प्रभाव है। झोकरो अर्थात् बालक, आगल अर्थात् पहले, न्हाना अर्थात् बन्ना ये गुजराती शब्द साफ ही हैं। 'कलना' यह समझने के अर्थ की मराठी क्रिया है। दादुला शब्द भी मराठी है जिस का अर्थ है पति। परबल का अर्थ प्रबल स्पष्ट ही है। तुकाराम जी की भाषा में और भी एक विशेषता पाई जाती है। मराठी में शब्दों को विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूर्व एक विशिष्ट रूप दिया जाता है, जिसे सामान्यरूप कहते हैं। इस में अंत्य ह्रस्व स्वर दीर्घ किया जाता है। हिंदी विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूर्व कभी-कभी तुकाराम जी की भाषा में यह रूप पाया जाता है। जैसे जगाथी अर्थात् जग से। यह गुजराती-मराठी का मिश्र प्रभाव है। इसी तीसरी गवालन में अहंकार पर जो पती का रूपक रचा है उस से यह कल्पना हो सकती है कि तत्कालीन भागवत लोग गोपीकृष्ण-भक्ति की ओर किस दृष्टि से देखते थे। सास, पति देवर इत्यादि मनोभाव तथा वासनाओं के वश में रहनेवाली मनुष्य की चिन्तवृत्ति गोपी है। जब एक बार इसे हरिचरणों का प्रेम तथा समागम प्राप्त होता है, तो फिर वह न उसे छोड़ना चाहती है, न उन के वश में रहने की इच्छा करती है। वह फिर इन सबों को तुच्छ मानने लगती है। ज़रा मौका मिला कि भागी वह श्रीकृष्ण जी से मिलने के लिए और वहीं पर रममाण होने के लिए। भागवतों के गवालन शीर्षक सब

कविताओं का चार यही है। केवल भिन्न-भिन्न रूपकों में वह-दिखलाया जाता है।

श्रीतुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र देश में मुसलमानी पंथ के कई संप्रदाय थे। ये भिन्न प्रकार के पंथ अपनी-अपनी विशिष्ट रीति से लोगों को तंग करते थे। इन लोगों को प्यान में रख कर तुकाराम जी ने अपनी फुटकर कविताओं में कुछ हिंदी अभंग लिखे हैं। हिंदूधर्म के संप्रदाय तथा पंथों के लोगों पर फटकार उड़ाने के लिए जैसे मराठी में कविता की, उसी प्रकार इन मुसलमानी पंथों पर कोड़े लगाने के लिए ये कविताएँ लिखी गई हैं। इन पंथों में से एक का नाम 'दरवेश' था। घर-घर अल्ला के नाम से फेरी करते हुए ये लोग भीख माँगते थे। तुकाराम जी का 'दरवेश' अभंग यों है।

अल्ला करे सो होय बाबा, करतार का सिरताज ।  
गाऊ बछरे तिसे चलावे, यारी बाबोन सात ॥१॥  
ख्याल मेरा साहेब का बाबा, हुआ करतार ।  
वहाँतँ आए चढ़े पीठ, आए हुआ असवार ॥२॥  
जिकिर करो अल्ला की बाबा, सबल्यां अंदर भेस ।  
कहे तुका जो नर बुके, सोहि भया दरवेश ॥३॥

इस अभंग में अल्ला अर्थात् परमेश्वर की पहले शक्ति दिखलाई है। वह सब कर्त्ताओं में श्रेष्ठ है। ऐसा कि गाय, बछड़े इत्यादिकों की भी बाघ के साथ दोस्ती चलाता है। बाबोन अर्थात् बाबों के और तिसे अर्थात् तिन से। मेरे ईश्वर की भक्ति ऐसी प्रभाव-शालिनी है कि वह ऊपर लिखी हुई यारी (दोस्ती) पर ही नहीं ठहरती तो वहाँ से आगे पीठ पर चढ़ स्वयं ही सवार होती है। बाबा, उस अल्ला की बात करो, जिस ने सबों के अंदर भेस लिया है, अर्थात् जो सभी वाह्य आकारों के अंतर्गत है। जो इस बात को जानता है वही दर असल दरवेश है। घट-घट में भरे हुए ईश्वर की बातें कैसी खूनी के साथ दिखलाई हैं।

एक दूसरे प्रकार के प्रकार 'मलग' यं। यं कपड़ा बिछा कर लोगों के घर जा कर बैठते और अपने पास के काठ के पाँसे फेंक कर उन दाँवों से लोगों का भविष्य बतलाते। अर्थात् मिचा-मिचा कर लोगों को अपना कहना समझाते और उन्हें टंगते। ऐसे लोगों को अर्थात् खोलने के लिए तुकाराम जी कहते हैं।—

नजर करे सोहि जिके बाबा, दुरयी तमासा देख ।  
लकड़ी फाँला ले कर बैठा, आगले ठकण भेख ॥१॥  
काहे भूल एक देखत ।

अर्थात् भारत दोंग बाजार ॥२॥

दमरी चमरी जो नर भुला

सो त आधो हि लत खाय ॥३॥

नहिं बुलावत किसे बाबा, आपहि मत जाय ।

कहे तुका उस आलके संग, फिर फिर गोते खाय ॥४॥

इस अंश में 'जिकना' यह मराठी क्रिया 'जीतना' अर्थ में आई है। दुरयी अर्थात् दूर से और ठकथ अर्थात् ठगने को। हमारी चमरी की जोड़ी कनक-कामिनी के अर्थ में प्रयुक्त है और इस जोड़ी की पकड़ में कैसा पुरुष आगे लाते ही खाता है। अगर कोई न मुलावे तो खुद हो कर वहाँ न जाना चाहिए। नहीं तो इस आशा के संग में बार-बार सोते ही खाने पढ़ेंगे।

तुकाराम जी के एक हिंदी अंश का नाम है, 'डोईफोड़ा' अर्थात् 'सिरफोड़ा'। वह है :—

तन भंज्याय ते बुरा, जिकीर ते करे।  
 सीर काटे ऊर कुटे, ताहां सब डरे ॥१॥  
 ताहां एक तुही, ताहां एक तुही।  
 ताहां एक तुही रे, बाबा हम तुम नहीं ॥२॥  
 दिदार देखो, भूले नहीं, किसे पछाने को ये।  
 सचा नहीं पकड़ सके, भूठा भूठे रोए ॥३॥  
 किसे कहे मेरा किन्हो, संत लिया भास।  
 नहीं मेलो मिले जीवना, भूठा किया नास ॥४॥  
 मुनो भाई कैसा तोही, होय तैसा होय।  
 बाट खाना अल्ला कहना, एक बार तो होय ॥५॥  
 भला लिया भेख मुंके, अपना नफा देख।  
 कहे तुका सो ही सखा, हाक अल्ला एक ॥६॥

ये सिरफोड़े अपने शरीर को (तन को) अनेक प्रकार से कष्ट देते (भंजते) थे। जहाँ-कहीं भीख माँगने जाते, सिर फोड़ते, छाती पीटते और इस प्रकार लोगों को तंग कर डराते और भीख देने के लिए मजबूर करते। तुकाराम जी कहते हैं कि ये लोग मुंह से तो 'अल्ला तुही रे' 'अल्ला तुही रे' कहते हैं; पर यहाँ क्या सभी जगह परमेश्वर ही भरा है, हम तुम वह हैत नहीं है। अर्थात् कबीरदास जी की भाषा में कहना हो तो 'भेद नहीं अमद हुआ है, राम भरा जग सारा।' सच्चे दिलदार आदमी को पहचानो। अगर उसे नहीं पहचाना और पकड़ा तो यह सब सिर फोड़ना, रोना, छाती कुटना व्यर्थ ही है। 'मेरा काम करो' यह किसे कहें? जिधर-तिधर संतों का केवल आभास होता है। मेरे जीवन से तो मिलाए भी किसी का जीवन नहीं मिलता। व्यर्थ सर्वनाश हो रहा है। अब जो होना होगा वह मजे से हो, जो कुछ मिले, वह बाँट खाना चाहिए और अल्ला का नाम लेना चाहिए। जो कोई अल्ला के नाम से पुकारता है, वही मेरा दोस्त है; बाकी सब लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सिर मुड़ा कर भेख बना लिया है।

एक और प्रकार के ठग लोग उन दिनों महाराष्ट्र में थे। वे अपने को हकीम या वैद कहते और अपनी दबा-दारू की गोखियाँ दे कर लोगों को भँसाते। इन पर भी तुकाराम जी की एक कविता 'वैदगोली' नाम की है। उस के आरंभ में ही आप कहते हैं।



अस्ला देवे अस्ला दिलावे । अस्ला दारू, अस्ला खिलावे ।  
अस्ला बिगर नहिं कोय । अस्ला करे सोहि होय ॥१॥

अब आप अपने खुद को बंद समझ कर अपनी गोली लेनेवाले को कहते हैं ।—  
मर्द होये वो खडा फिर । नामर्द कूं नहीं धीर ।  
आप ने दिलकू करना सुखी । तिन दाम की क्या खुमासी ॥२॥

जिसे अपने दिल को खुश करना है, उसे पैसे की खुमासी अर्थात् परवाह है !  
अब आप की बनाई हुई गोलियों की भी थोड़ी तारीफ़ सुनिए—

सब रसों का किया मार । भजन गोली एकहि सार ।  
ईमान तो सबहीं सखा । थोड़ी तो भी ले कर खा ॥३॥

यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस की फ़ज़ीहत होती है । इस का बर्णन करते समय तुकाराम जी अपने स्वभावानुसार जैसा कि हम पीछे कह आए हैं, ग्राम्य भाषा का प्रयोग करते हैं । आप कहते हैं ।—

सब ज्वानी निकल जावे । पीछे गधड़ा मट्टी खावे ।  
गाँव ढाल सो क्या लेवे । हगवनी भरी नहीं धोए ॥ ४ ॥

गधड़ा, गाँव ढाल, हगवनी तीनों मराठी शब्द हैं । इन के अर्थ अनुक्रम से हैं गधा, बेवक्र, लतियल, तथा अपनी ही विपदा से भरे हुए कपड़े । हैरानी से आप कहते हैं कि ज्वानी में ही ये दवा खानी चाहिए ।

मेरी दारू जिन्हें खाया । दिदार दरगा सो ही पाया ।  
तल्हे मुंढी घाल जावे । बिगारी सोवे क्या लेवे ॥ ५ ॥

जिस ने ये दारू खाई वही 'दिलदार दरगा' अर्थात् ईश्वर का स्थान पा सकता है और जो बेगारी तल्हे यानी नीचे सिर कर सो रहता है वह क्या लाभ ले सकता है ? इस दारू की कुछ कीमत नहीं । तुकाराम जी कहते हैं ।—

बजार का बूके भाव । वोहि पुसता आवे ठाव ।  
फ़ुकट बाँटूँ करे तुका । लेवे सोहि लें सखा ॥

बजार भाव जो समझता है वही मकान पर पूछता हुआ आ पहुँचता है । पर तुकाराम कहते हैं कि मैं तो मुफ़्त बाँट रहा हूँ, जो कोई इसे ले वही मेरा मित्र है ।

'मुंढा' नाम के और भी एक प्रकार के मुसलमान फ़कीर उस समय महाराष्ट्र में फैले थे । हाथ में एकतारा और कर्क ले कर ये भजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को चपतें लगाते और नशे के जोर चिल्ला-चिल्ला-कर भील मारते । इन पर तुकाराम जी के तीन अभंग हैं ।

( १ )

सँमाल यारा ऊपर तले दोनों मार की चोट ।  
नजर करे सोहि राखे पत्था<sup>१</sup> जावे लूट ॥ १ ॥

<sup>१</sup> पत्था=पट्ट, सूती ।

प्यार खुदाई<sup>१</sup> प्यार खुदाई, प्यार खुदाई ।  
 प्यार खुदाई रे बाबा, जिकीर खुदाई ॥ २ ॥  
 उठे कुठे<sup>२</sup> दुंग<sup>३</sup> नचावे, आगल भूलन प्यार ।  
 लडवड खडवड कहे कांकू<sup>४</sup>, चलावत भार ॥ ३ ॥  
 कहे तुका सुनो लोक, हम जिन्हों के सत ।  
 मिलावे तो उसे देना, बोही चढावे हात ॥ ४ ॥

( २ )

सब सँभाल म्याने लौंठि, खड़ा केऊ<sup>५</sup> गुंग ।  
 मदिरधी<sup>६</sup> मता हुआ, झुली पाडी भंग ॥ १ ॥  
 आपसकु संवाल आपसकु संवाल,  
 मुंठे खूब राख ताल ।  
 मुधि<sup>७</sup> बोहि बोल नहीं तो,  
 करूँगा मैं हाल ॥ २ ॥  
 आवल का तो पीछे नहीं, मुदल बिसर<sup>८</sup> जाय ।  
 फिरते नहीं लाज रंडी, गचे गोते खाय ॥ ३ ॥  
 जिन्हों खातर इतना होता, सो नहीं तुज बेकाम ।  
 ऊँचा जोरो<sup>९</sup> लिया तुंबा, तुंबा बुरा काम ॥ ४ ॥  
 निकल जावे चि<sup>१०</sup> कलजोर, मुंठे दिदारी ।  
 जवानी की छोड़ दे बात, फिर एकतारी ॥ ५ ॥  
 कहे तुका फितला दका, मेरे का तो दान देख ।  
 पकड धका गांड<sup>११</sup> गुडधी, मार चालाऊँ आलेख ॥ ६ ॥

<sup>१</sup> खुदाई=ईश्वर का ।

<sup>२</sup> कुठे=कूड़े ।

<sup>३</sup> दुंग=कूबा ।

<sup>४</sup> कांकू=ना, ना, करवा ।

<sup>५</sup> केऊ=कहीं ।

<sup>६</sup> मदिरधी मता=शराब से मत्त ।

<sup>७</sup> मुधि=झुँद से ।

<sup>८</sup> बिसर=भूल ।

<sup>९</sup> जोरो=झोर से ।

<sup>१०</sup> चि=ही ( गिरचब-बोधक ) ।

<sup>११</sup> गाँड गुड धी=पीछे से कूले पर घुटना जोर से मारना ।

( ३ )

आवल नाम अज्ञा बडा, लेते भूल न जाये ।  
 हलाम<sup>१</sup> त्या कालज उपर, तोहि तुच बजाये ॥ १ ॥  
 अज्ञा एक तू, नवी एक तू  
 काटते सिर पाँवों हात नही जीव डराए ।  
 आयले देखो, पीछे बूझो, आपे हुज्ज आप ॥ २ ॥  
 सब सबरी<sup>२</sup> नचाव म्याने, रड्गा अपने सात ।  
 हात पाँवो रखते जबाब, नही आगली बात ॥ ३ ॥  
 जुनो भाई बजार नही, सवहि नर चलावे ।  
 नन्हा बडा नही कोये, एक ठौर मिलावे ॥ ४ ॥  
 एकतार<sup>३</sup> नही प्यार, जीवन की आस ।  
 कहे तुका सोहि मदा, राख लिया पाँपन पास ॥ ५ ॥

कबीरदास जी क दोहर भी तुकाराम जी के समय म महाराष्ट्र म भली भाँति प्रचलित थे । इन्हीं दोहरों का अनुकरण कर तुकाराम जी ने भी कुछ दोहरे बनाए । हिंदी दोहरों की दृष्टि से इन में छदोभग तां पद पद पर है । पर तुकाराम जी की अभग कविता को किसी भग का डर ही न था । इन दोहरों का भी आस्वाद लीजिए ।

तुका बस्तर<sup>४</sup> विचारा ब्या कर, अतर भगवान होय ।  
 भीतर मैला क्व मिटे रे, मरे ऊपर धोय ॥१॥  
 राम राम कह र मन, और तु नहि राज ।  
 बहुत उतार पार आगे, रागि तुका की लाज ॥२॥  
 लोमी के चित धन रंटे, कामिनि के चित काम ।  
 माता के चित पूत बैठे, तुका के मन राम ॥३॥  
 तुका राम बहु मीठा रे, भर राखू शरीर ।  
 तन की करू नाव री, उताऊ पैल तीर ॥४॥  
 सतत पन्हया ले रड्गा, रहु ठाकुरदार ।  
 चलता पाछे हू निरो, रज उडत लेउ सिर ॥५॥  
 तुका बणे न मानू, जिस पास बहु दाम ।  
 बलिहारी उस मुरा की, जिस ते निकसे राम ॥६॥

<sup>१</sup> अगर उस ( कालज ) हृदय के ऊपर ( हलाम ) विरवास हो तोहि तंबूरा वा एकभारी बजाओ ।

<sup>२</sup> सबरी = सबो की ।

<sup>३</sup> जीवित की आशा यदि एकतारी पर नहीं तो ( ईश्वर के ) प्यार पर हो, बोही । जुडा ईश्वर अपने चरखा के पास रखता है ।

<sup>४</sup> शरीर ।

राम कहे सो मुख भला रे, लाए खीर खांड ।  
 हरि बिन मुखमों भूलवरी, क्या जनीउल राड ॥ ७ ॥  
 राम कहे सो मुख भला रे, बिन राम से कीख १ ।  
 आचन जानूरमते बेरा २, जब काल लगावे सीख ॥ ८ ॥  
 कहे दुका मैं सचदा बेचूँ, लेवे कैतन ३ हार ।  
 मीठा साधु संत जन रे मूरख के खिर मार ॥ ९ ॥  
 दुका दास तिनकारे, रामभजन नित आस ।  
 क्या बिचारे पंडित करो रे, हात पखारे आस ॥१०॥  
 दुका प्रीत रामसुं, तैली मीठी राख ।  
 पतंग जाय दीप परे, करे तन की खाक ॥११॥  
 कहे दुका जग मुला रे, कछा न मानत कोय ।  
 हात परे जब काल के, मारत फोरत डोय ४ ॥१२॥  
 दुका घुरा ५ नहिं शबदका, ६ जहाँ कमाई न होय ।  
 चोट साहे बनकीरे, हिरा नीबरे ७ तोय ॥१३॥  
 दुका घुरा बहुत कहावे, लडन बिरला कोय ।  
 एक पावे ऊँच पदवी, ८ एक खौसा ९ जोय ॥१४॥  
 दुका मार्या पेट का, और न जाने कोय ।  
 जपता कछु राम नाम, हरि भगत की सोय ॥१५॥  
 दुका सखन तिनसुं कहिए, जिनपी प्रेम दुनाय १० ।  
 दुर्जन तेरा मुख काला, यीता ११ प्रेम घटाय ॥१६॥  
 काफर सोही आप न बुझे, आला दुनिया भर ।  
 कहे दुका बुनो रे भाई, हिरदा जिन्ह का कठोर ॥१७॥  
 भीस्त १२ न पावे मालथी, पढ़िया लोक रिन्नाय ।  
 नीचा जेये कमतरिन, सोही सो फल खाय ॥१८॥  
 फल पाया तो मुख भया, किन्हसुं न करे विवाद ।  
 बान न देखे मिरगा, १३ चित्त मिलाया नाद ॥१९॥  
 दुकादास राम का, मन में एकहि भाव ।  
 तो न पालदू आवे, येही तन जाय ॥२०॥  
 दुका रामसुं चित बाँध राखुं, तैरा आपनी हात ।  
 वेनु बछरा छोर जावे, प्रेम न छूटे सात ॥२१॥

१ ज़हर, विष । २ समथ । ३ कितने । ४ खिर । ५ घुरा । ६ शब्दों का । ७ पहिचाना जाता है । ८ खान । ९ नीचे । १० दूबा होता है । ११ वर्तमान । १२ कर्ण, ईश्वर-पद । १३ हिरण ।

बिसत जु बिसत जब मिले, तब तन बंडा होय ।  
 तुका मिलना जिन्ह तुं, ऐसा बिरला कोय ॥२२॥  
 बिसत मिले वो सब मिले, नहिं तो कुकट<sup>१</sup> संग ।  
 पानी पथर एक ही टोर, कोर न भीजे अंग ॥२३॥  
 तुका संगत तिन से कहिए, जिन से सुख बुनाए ।  
 दुर्जन तेरा मू काला, भीती प्रेम घटाए<sup>२</sup> ॥२४॥  
 तुका मिलना तो भला, मन सुं मन मिल जाय ।  
 उपर उपर माटी घासनी, उन को को न बराय ॥२५॥  
 तुका कुटुंब छोरे रे लरके<sup>३</sup>, जोरो चिर मुंडाय ।  
 जब ते इच्छा नहिं मुई, तब तूं किया काय ॥२६॥  
 तुका इच्छा मीट नहिं तो, काहा करे जटा खाक ।  
 मयीया<sup>४</sup> गोलाडार दिया तो, नहिं मिले फेर न ताक<sup>५</sup> ॥२७॥  
 ब्रीद मेरे साइया को, तुका चलावे पास ।  
 सुरा सोहि लरे हम से, छोरे तन की आस ॥२८॥  
 कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दास ।  
 क्या जानूं कैते मरता, न मिटती मन की आस ॥२९॥  
 तुका और मिठाई क्या करूं, फाले विकार पिंड ।  
 राम कहावे सो भली रूखी, माखन खीर खाड ॥३०॥

इस पूर्वोक्त रचना के सिवा श्रीतुकाराम जी ने कुछ पद भी हिंदी भाषा में लिखे हैं । पर इन के विषय में सब विद्वानों का एक मत नहीं है । कुछ-कुछ अभंग संग्रहों में न मिलने के कारण कुछ विद्वान इन्हें ज्ञेयक मानते हैं । हिंदी की रचना थोड़ी ही होने के कारण इस बात का निर्णय करना कठिन है कि ये तुकाराम जी के ही रचे हुए हैं या अन्य किसी के । पर बहुत संभव यही है कि ये तुकाराम जी के ही होंगे । नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं ।

(१)

क्या गाऊं कोई सुनेवाला । देखें तो सब ही जग भूला ॥१॥  
 खेलौं अपने रामहिं सात । जैसी वैसी करिहीं मात ॥२॥  
 काहां से लाऊं मधुरा बानी । रीके ऐसी लोक बिरानी ॥३॥  
 गिरिधरलाल तो भाव का भूका । राग कला नहिं जानत तुका ॥४॥

(२)

आपें तरे त्याकी कोन बराई । औरन कूं भलो नाम धराई ॥१॥  
 काहे भूमि इतना भात राखे । दुह्त घेनु नहिं दूधहि चाखे ॥२॥

<sup>१</sup> क्वथं <sup>२</sup> दोहरा सं० १६ देखो । केवल एक शब्द का अर्थ है । <sup>३</sup> लक्ष्मी  
<sup>४</sup> मन्मथ का मया हुआ । <sup>५</sup> धात ।

बरसते मेघ फलते हि विरला । कोन काम आपनी उन्धोति राखा ॥१॥  
 काहे चंदा सूरज लावे फेरा । स्निन एक बैठत पसत बेरा ॥४॥  
 काहे परिस कंचन करे धातु । नहि मोल छूटत पावत धातु ॥५॥  
 काहे तुका उपकारहि काज । सब कर रहिया रघुराज ॥६॥

(३)

बार-बार काहे मरत अभागी । बहुरि मरन से क्या तोरे भागी ॥१॥  
 एहि तन कर ते क्या ना होय । भजन भगति करे बैकुंठ जाय ॥२॥  
 रामनाममोल नहिं बेचे कवरी । वोहि सब माया छुरावत सगरी ॥३॥  
 काहे तुका मन सुं मिल राखो । राम रस जिन्हा नित वाखो ॥४॥

इन पूर्वोक्त सब उदाहरणों से तुकाराम जी की हिंदी कविता का अनुमान पाठकगण भलीभांति कर सकते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य-दृष्टि से इस में देखने योग्य विशेष कुछ नहीं है। इस से केवल इसी का अनुमान हो सकता है कि सत्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्रीय संत हिंदी को अपनाने लगे थे। यदि यही क्रम चलता रहता और दूसरी ही एक भाषा का भारतवर्ष की भाषाओं पर आक्रमण न होता, तो आज हिंदुस्तानी अलिल भारतवर्ष की भाषा हो जाती। पर काल के मन में कुछ और ही था। उस के हेर-फेर से थोड़े दिन अधिक लगे। पर अब सब विश्व भारतवासियों ने इस बात को मान लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है, तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य है। ईश्वर की कृपा से वे भी दिन अब जल्दी पास आ रहे हैं और जिस माला का यह एक फूल है, वह भी इसी बात का चोतक है। यदि किसी प्रांत के लोग अपने-अपने प्रांतीय विद्वान्, शूर, संत पुरुषों का परिचय भारत भर में कराना चाहें, तो केवल इन हिंदुस्तानी भाषा के द्वारा ही यह बात संभाव्य है, अन्यथा नहीं।

# सूची

[ विपुल रूप में कृष्णों के हैं ]

( अ )

- अजामिल—एक भक्त १४२  
 अद्वैत ज्ञान—१३८, १३९  
 अनवडशाह—एक मुसलमान सिद्ध ६४  
 अनाचार—१२५  
 अनुताप—१०४  
 अनुभव—१०३, १०६  
 अबदुल हमीर लाहोरी—एक इतिहास-  
 लेखक ३६  
 अमंग—एक मराठी छंद का नाम १२, १६,  
 ५६, ५७, ५९, ८१, ८२-९०, १२०,  
 १२७  
 अभिनवगुप्त—एक साहित्य-शास्त्रज्ञ १२०  
 अभिमान—५३, ९८, १०४, १३३  
 अन्यास—१२६  
 अंबकराय—शक्ति के एक उपासक १५  
 अंबाजीपंत—लोहगाँव के पटेल ७२

( आ )

- आमाबाई—तुकाराम के पूर्वज विश्वंभर की  
 स्त्री १९, २०  
 आटी-पाटी—एक खेल २९  
 आत्म-परीक्षण—१०२, १०७, १०८  
 आनंद—१३५  
 आशा—१०७, १२६

( इ )

- इंद्रायणी—एक नदी १७, १८, ४१

( ई )

- ईश्वर—१३७, १३८

( उ )

- उपदेश—११८, ११९, १२०  
 उपनिषत्—९, ५४, १३५  
 उपमन्यु—एक भक्त १४२

( ऋ )

- ऋग्वेद—५०

( ए )

- एकनाथ—एक भक्त ९, १४, १६, २३,  
 ३२, ५२, ५४, ५८  
 एकाक्षरी—९०  
 एकांतवास—९९

( ऐ )

- ऐतरेय ब्राह्मण—२८

( क )

- कचेश्वर भट—तुकाराम के एक शिष्य ९१  
 कनकाई—तुकाराम की माता २२, २३,  
 २४, २८, ३२, ३७  
 कबीर—एक भक्त—५१, ५४, ८५, ८८,  
 १५६  
 कर्म—१३९  
 कर्ममार्ग—५८  
 कलि-काल—११५, ११६  
 कान्होपात्रा—एक भक्त स्त्री १३  
 कान्होवा—तुकाराम के पितामह २१, २२  
 कान्होवा—तुकाराम का छोटा भाई २८,  
 ३२, ४२, ४३  
 कालिदास—एक संस्कृत कवि २५, ३१  
 काशी—तुकाराम की कन्या ३९  
 कीर्तन—४८, ४९, १४४, १४५  
 कुरखोडी—एक खेल २९  
 कौक्य—३८  
 कौडोपंत लोहोकरे—पूने का एक ब्राह्मण ७४  
 कौडोवा—एक नारीव पनिहारा ७४

( ख )

- खोखो—एक खेल २९

## ( ग )

गंगा—तुकाराम की कन्या ७०  
 गंगाराम कङ्कसकर—तुकाराम के अग्रभंगों  
 का एक लेखक ७७  
 गणिका—१४२  
 गवालन—एक प्रकार की कविता १५०,  
 १५१

गीता—६, २३, ४७, ५१, ५८, १२४  
 गुरु—५४, ५५, १४०  
 गोष्ठाई—नामदेव की माता १२, १३  
 गोरखनाथ—एक सिद्ध १४६  
 गोरा—एक भक्त १३

## ( च )

चंद्रभागा—एक नदी ११, १३, १४७  
 चोङ्कली—एक खेल २६  
 चोम्बा—एक भक्त १३

## ( ज )

जंगम—एक पंथ १२२  
 जनाबाई—नामदेव की दासी १३, १५, ५४  
 जनार्दनपंत—एकनाथ के गुरु १४, १५, ३३  
 जिजाई—तुकाराम की स्त्री ३१, ३२, ३७,  
 ३८, ३९, ४१, ४२, ४३, ७२, १२७  
 जीव-भेद—चार ४५, ४६  
 जोगा—एक भक्त १३  
 ज्ञान—१३६, १४०  
 ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर—एक भक्त ६, १२,  
 १३, १५, १६, ५२, ५४, ५८, ६४,  
 ७४  
 ज्ञानेश्वरी—गीता की मराठी टीका १२,  
 १४, ४२, ४६, ५७  
 ज्योतिर्लिंग—बारह ३२

## ( ट )

टिपरी—एक खेल २८

## ( ड )

डोईफोडा—एक पंथ १५३

## ( त )

तिलक—प्रसिद्ध देशभक्त ५१  
 तीर्थ-यात्रा—३२, ३३  
 तुलसीदास—एक भक्त ५१, ८४, ८८

## ( द )

दत्तात्रेय—एक देव १४  
 दंभ—१०५, १०६, १२२, १२३  
 दरवेस—एक पंथ १५२  
 दामयमक—८६  
 दामाजी—एक भक्त १५  
 दामायोटी—नामदेव के पिता १२  
 दुर्जन—६६, १२६  
 दुर्बुद्धि—६८  
 देव—चिंचवड़ के एक गणेशभक्त ७७,  
 १२७

देवगिरि—दोलताबाद का नाम १३, ३३  
 देहू—एक गाँव १७, १८, २०  
 द्वैतबुद्धि—११३  
 द्वैतभक्ति—६७, ६८

## ( ध )

ध्रुव—एक भक्त १४२

## ( न )

नम्रता—६४, ६५, ११५  
 नरसी मेहेता—एक भक्त १५१  
 नरहरि—एक भक्त १३  
 नाथपंथ—एक पंथ १२२  
 नाम—६४, ६७, ६६, १००, १०७, १०८  
 ११६, १४१-१४४  
 नामदेव—एक भक्त ६, १२, १३, १५, १६,  
 २३, २४, ५२, ५४, ८५, १४६  
 नारायण—तुकाराम का पुत्र ७०, ७१



निवृत्तिनाथ—एक भक्त १२, ३२

( प )

पदाजी—तुकारामजी के एक पूर्वज २१  
पंढरपुर—११, १०, १७, ३२, ६५, १४६-  
१४८

पुंडलीक—एक भक्त ११, १७, १८

पुराण—५१, ५४

पुष्पदंत—एक भक्त, महिम्नस्तोत्र के  
रचयिता ५१

पूना—६४

पैठण—१७

प्रह्लाद—एक भक्त १२६, १४२

प्रार्थना—१०१

( ब )

बंका—एक भक्त १३

बहिष्वाबाई—एक भक्त स्त्री १२७

बाबाजी जैतन्य—तुकाराम के गुरु ५५

विभीषण—एक भक्त १२६

बोपदेव—एक पंडित १५

बोल्होबा—तुकाराम के पिता २१, २२, २३,  
२४, २८, २९, ३०, ३१

ब्रदाशान—१२२

ब्राह्मण—१२४

( भ )

भक्ति—९, १०, २२, ५८, १२०, १३७-  
१४८

भगवद्भक्त—१३०, १३४, १३५

भरत—एक भक्त १२६

भट्ट हरि—एक कवि ४१

भवभूति—एक कवि ३१, ४१, ८८

भवरोग—१११

भागवत—१४, ४२, ४९

भागीरथी—तुकाराम की कन्या ७०, ७१

भानुदास—एक भक्त १४

भामनाथ—देहू के पास का पर्वत १७, ४१,  
४२

भामह—एक साहित्यशास्त्री ९३

भास—एक कवि २८

भक्ति—२२

( म )

मतातर—१२१, १२२

मन—८७, १०२, १२३, १२५, १२६

मंभाजी—तुकाराम को सतानेवाला एक

व्यक्ति ६६, ६७, ६८, १२७

मम्मट—एक साहित्यशास्त्री १२०

मलंग—एक पंथ १२२, १५२

महमूद—राजनी का बादशाह १०, ११

महादेव—तुकाराम का पुत्र ६७, ७०

महालिंगदास—एक शिवभक्त १५

महीपति—संत चरित्र-लेखक एक कवि २४,  
४९, ५१

मायावाद—१३९

मालाजी—तुकाराम का जामाता ७१

मीराबाई—एक भक्त स्त्री ५१

मुक्ताबाई—एक भक्त स्त्री १२, १४, ३२,  
१४९

मुखपाठ—५०

मुंडा—एक पंथ ८७, १५४

मोरयागुनाई—एक गणेशभक्त १५

मोरोपंत—एक मराठी कवि ३०

( य )

योगवासिष्ठ—एक ग्रंथ ५१

( र )

रखुमाई—तुकाराम की प्रथम स्त्री ३०-३६

राका—एक भक्त १३

रागाई—नामदेव की स्त्री ११

रामदास—एक भक्त १५, ३६, ६५, ८८,  
८९, ११०

रामदेव—विजयनगर के राजा, १५

रामायण—२८

रामेश्वर भट—तुकाराम को सताकर बाद  
को उन के भक्त ५६, ६४, ६६, १२७

( ल )

लोहगाँव—२२, ४६, ६५, ७२, ७३

( व )

वसिष्ठ—एक ऋषि ६

वारकरी—११, २१, २२, १२७

वारी—पंढरपुर को जाना ११, १७, २२,  
६५, ७५, १४५

वाल्मीकि—एक ऋषि १४२

विजयनगर—२०, २१

विटीदांड—एक खेल २८

विठ्ठल—पंढरपूर का देव ११, १३, १४

विठ्ठल—तुकाराम के पूर्वज २०

विठ्ठल—तुकाराम का पुत्र ७०

विठ्ठलपंत—शानेश्वर के पिता १२

विश्वंभर बाबा—तुकाराम के पूर्वज १६,  
२०, ४७

विषयासक्ति—१२३, १२४

विसोबाखेचर—नामदेव के गुरु १२, ८५

वेद—५१, ५२, ८३, १४२

वैद—एक पंथ १५३

वैष्णव—१३०

( श )

शंकर—तुकाराम के पूर्वज २१

शंकराचार्य—प्रसिद्ध धर्म-संस्थापक ५१, १३८

शामा—एक भक्त १३

शिवजी का सार—६५, ६८

शिवाजी—प्रसिद्ध मराठी राज्य-संस्थापक  
१५, ४३, ४६, ६५, ७१, ७३, १२७

शुनःशेष—एक ऋषि २८

भद्रा—५०, ५१, ६२, १४३

( ष )

षड्पु—१०५, १०८

( स )

सत्संग—१३३, १३५, १३६

संतसज्जन—१२६, १३०-१३६

संताजी—तुकाराम का पुत्र ३१, ३६

संताजी तेली—तुकाराम के लोसक ७७

समाज-स्थिति—१२४

सर्वात्मता—१११, ११२, ११५

साक्षात्कार—५४, ५५, ५६

साधकावस्था—५४

सालो मालो—तुकाराम को सतानेवाला एक  
व्यक्ति ७६

सावजी—तुकाराम का बड़ा भाई २३, २४,  
२७, २८, २९, ३०

सांवता—एक भक्त १३

सूरदास—५१

सूर्यनारायण—एकनाथ के पिता १४

सोपान—एक भक्त १२

( ह )

हंसक्षीर-न्याय—५२

हमामा—एक खेल २६

हरिदास—१२६

हरिश्चंद्र—एक सत्यनिष्ठ राजा २८

हाल—एक खेल २६

हिंदुस्तानी—१५६

हुनुद—एक खेल २६

हुंबरी—एक खेल २६

हेमाद्रि—एक पंडित १५

होन—एक करीब-करीब चार रूपए क्रीमत  
का सिक्का ३५, ७४, ७५

## शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२	२३	आकंदी	आलंदी *
१३	१३	गोवा	गोरा
१४	२०	गद्य	पद्य
१७	६	इंद्रायणी	इंद्रायणी
१६	२०	माडली	माउली
२२	२	प्लैसाबाई	भ्रैसाबाई
२३	६	आबंदी	आलंदी*
२६	३	चेंडूकली	चेंडूकली
॥	१०	हुमासा	हुमामा
३२	५	महाबकेश्वर	महाबलेश्वर
३३	७	१६२७	१६२७
४१	१३	इंद्रायणी उत्तर	इंद्रायणी के उत्तर
७३	२७	विठोबा ने	विठोबा की
७४	१६	सावनधानता	सावधानता
७७	१	तकेगांव	तलेगांव
८३	११	फक	फल
॥	२१	बारह	चौबीस
११६	१७	बुद्ध	शुद्ध
१२०	१०	उल्लेखन	उल्लेख न
१२५	७	मदार भाग	महारभाग
१४०	३०	गुरुभुव	गुरुभुष
१४६	३३	गाडी	गठडी
१४७	७	गोपालशाला	गोपालकाला
१५१	२	हमारी	दमरी

\* 'आलंदी' कई स्थलों पर अशुद्ध रूप में छप गया है—कहीं आकंदी, कहीं आबंदी। पाठक सुधार लें।



## हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

**मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर बन्धुलाल**

यू.के.ए.सी., एम्. ए., एल्.एल्. एम्. । मूल्य १।)

		हादुर भद्रामहोपाध्याय
प० गी	<b>घोर सेवा मन्दिर</b> पुस्तकालय	का । मूल्य १।)
अनुवाक	काल न० <u>१६१</u> <u>द्वितीय</u>	इलैमान माहव नवथी ।
ग-ग्व०	लेखक <u>श्री २, हाट रामचन्द्र</u>	मीप्रसाद, एम्. ए०,
मूल्य ६	शीर्षक <u>सं. २ तुकाराम</u> <u>१२२१</u>	। सचिव ।
पाताबर	खण्ड <u>कम मर्या</u>	उ और डाक्टर
मूल्य ३		।
ए० । म		।
एल्. ।		।
सचिव ।		।